

## दूसरा अध्याय: निष्पादन लेखापरीक्षा

### नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

#### 2.1 मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली

##### कार्यपालन सारांश

जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु क्रमशः जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 संसद द्वारा अधिनियमित किये गये। अपशिष्टों अर्थात् जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट और नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को विनियमित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत सम्बंधित नियम तैयार किये गये थे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (म.प्र.प्र.नि.बो.) 1974 में गठित हुआ था, जो कि राज्य में पर्यावरणीय अधिनियमों एवं नियमों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है। हमने 2009-14 के दौरान म.प्र.प्र.नि.बो. की कार्यप्रणाली में कमियां पायीं।

- अधीनस्थ इकाईयों से आदानों को प्राप्त किये बिना म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा 2012-17 के लिये पंचवर्षीय योजना तैयार की गयी। इसके अतिरिक्त, प्रदूषणकारी उद्योगों, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों, नदियों इत्यादि की पहचान के लिये कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

(कड़िका 2.1.7)

- उद्योगों और स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों को सहमति/प्राधिकार देने में महत्वपूर्ण देरी हुई। जल अधिनियम/वायु अधिनियम के अर्न्तगत या तो सहमति प्राप्त किये बिना या सहमति के नवीनीकरण के बिना 2190 उद्योग, 280 स्थानीय निकाय और 28 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स कार्य कर रहे थे। 625 उद्योगों में से 76 उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अर्न्तगत प्राधिकार के बिना कार्य कर रहे थे। यह पर्यावरण को प्रतिकूलतः प्रभावित कर सकते हैं।

(कड़िका 2.1.8.1 से 2.1.8.3, 2.1.8.5, 2.1.11.1 तथा 2.1.11.6)

- उद्योगों से अपशिष्ट जल नमूनों के संग्रहण और परीक्षण के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा निर्धारित मापदण्डों की तुलना में, लक्ष्यों के निर्धारण में 23 से 55 प्रतिशत तक की कमी थी। 32 जिलों में, घरेलू बहिःस्त्राव/जलमल के उपचार के लिये कोई संयंत्र नहीं था। 19 अनुवीक्षण स्थानों पर नदी जल गुणवत्ता अवनत हुई थी और आठ अनुवीक्षण स्थानों पर सुधार हुआ था।

(कड़िका 2.1.9.2 से 2.1.9.4)

- चौदह परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण स्टेशन कार्यात्मक नहीं थे। कार्यशील स्टेशनों में नमूनों का अनुवीक्षण अपर्याप्त था; कमी 34 से 95 प्रतिशत के बीच थी।

(कड़िका 2.1.10.1)

- सीमेंट संयंत्र अधिक प्रदूषकों का उत्सर्जन कर रहे थे और इस प्रकार वायु प्रदूषण कर रहे थे।

(कड़िका 2.1.10.5)

- नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण और व्ययन स्थानीय निकायों के दो प्रतिशत से भी कम के द्वारा किया जा रहा था।

(कड़िका 2.1.11.7)

- म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा उद्योगों और स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे, जो प्रदूषण नियंत्रण के अनुवीक्षण को प्रभावित कर रहे थे। जनवरी 2011 में गठित बी.एम.डब्ल्यू. पर शीर्ष समिति की 2011 में एक बैठक को छोड़कर कभी बैठक नहीं हुई।

(कड़िका 2.1.12 तथा 2.1.11.3)

### 2.1.1 प्रस्तावना

प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, संसद द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु क्रमशः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (जल अधिनियम) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (वायु अधिनियम) अधिनियमित किये गये। अपशिष्टों अर्थात् जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को विनियमित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत सम्बंधित नियम बनाये (1989–2000) गये थे।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (म.प्र.प्र.नि.बो.) का गठन, जल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सितम्बर 1974 में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग<sup>1</sup> (विभाग) के अर्न्तगत किया गया था। सम्बंधित अधिनियमों एवं नियमों के अनुसार जल, वायु और पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की जिम्मेदारी म.प्र.प्र.नि.बो. को सौंपी गयी है। राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने हेतु राज्य सरकार को यह अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा किये गये (2009) एक अध्ययन<sup>2</sup> में मध्य प्रदेश के पांच औद्योगिक क्लस्टर<sup>3</sup> (Clusters), प्रदूषित पाये गये थे। इस प्रकार, औद्योगिक इकाईयों में प्रदूषण राज्य में चिंता का एक क्षेत्र है।

### 2.1.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (विभाग) राज्य स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। म.प्र.प्र.नि.बो. एक अध्यक्ष के नेतृत्व में, एक सदस्य सचिव (एम.एस.) एवं 15 अन्य सदस्यों<sup>4</sup> को रखते हुए 13 क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>5</sup>, एक केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा दस क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों को लागू करता है। प्रयोगशालायें औद्योगिक इकाईयों और अन्य स्थलों से एकत्रित जल एवं वायु के नमूनों के विश्लेषण के लिये जिम्मेदार हैं।

### 2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

म.प्र.प्र.नि.बो. की कार्यप्रणाली का परीक्षण करने के लिये निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) आयोजित की गयी थी। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये योजना प्रभावी थी;
- उद्योगों को सहमति प्रदान करना कुशल और प्रभावी था;
- जल और वायु अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन प्रभावी था;
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम का अनुपालन प्रभावी था; और
- म.प्र.प्र.नि.बो. में अनुवीक्षण तंत्र स्थित और प्रभावी था।

### 2.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये लेखापरीक्षा मानदण्ड में प्रदूषण के उपशमन के लिये निम्न में निर्धारित नियम और प्रक्रिया एवं मानदण्ड और मानक अपनाये गये थे:

<sup>1</sup> पूर्व नाम आवास एवं पर्यावरण विभाग था (जुलाई 2014 के पूर्व)।

<sup>2</sup> भारत के 88 औद्योगिक क्लस्टर का व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन किया गया।

<sup>3</sup> देवास, इंदौर, नागदा-रतलाम, पीथमपुर और सिंगरौली।

<sup>4</sup> शासकीय विभागों से पांच सदस्य, स्थानीय निकायों से पांच सदस्य, सरकार के स्वामित्व, प्रबन्धन/नियंत्रणवाली कम्पनियों/निगमों से दो सदस्य और तीन अशासकीय सदस्य।

<sup>5</sup> भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी (सितम्बर 2013 में स्थापित), रीवा, सागर, सतना, शहडोल, सिंगरौली (जुलाई 2011 में स्थापित) एवं उज्जैन।

- जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981 तथा उनके अर्न्तगत बनाये गये नियम;
  - जल (सहमति) मध्य प्रदेश नियम, 1975; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;
  - जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 1998; परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2008; नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000; तथा
  - समय-समय पर म.प्र.प्र.नि.बो. तथा सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी निर्देश।
- सम्बंधित पैराग्राफों में विशिष्ट लेखापरीक्षा मानदण्डों का उल्लेख किया गया है।

### 2.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और समावेशन

अवधि 2009-14 को समाहित करते हुए म.प्र.प्र.नि.बो., 13 क्षेत्रीय कार्यालयों (आर.ओ.) में से आठ<sup>6</sup> क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय प्रयोगशाला और आठ क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की नमूना जांच करने हेतु समीक्षा आयोजित (फरवरी से जुलाई 2014) की गयी थी। आर.ओ. का चयन 'प्रतिस्थापन पद्धति के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन' विधि द्वारा किया गया था। निर्माण परियोजनाओं के सम्बंध में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा नगर निगमों से भी जानकारी प्राप्त की गयी थी। सदस्य सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन 24 अप्रैल 2014 को आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड, क्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा की गयी थी। निर्गम सम्मेलन के आयोजन के लिये हमारे अनुरोध (सितम्बर-अक्टूबर 2014) पर प्रमुख सचिव से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निर्गम सम्मेलन (05 नवम्बर 2014) में अध्यक्ष म.प्र.प्र.नि.बो. के साथ चर्चा की गयी थी; उनके उत्तरों/विचारों को समीक्षा में यथा स्थान शामिल किया गया है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.1.6 वित्तीय स्थिति

म.प्र.प्र.नि.बो. के वित्तीय संसाधनों में भारत सरकार/सी.पी.सी.बी. से सहायता अनुदान/सहायता, राज्य सरकार से अनुदान तथा स्थानीय निकायों और उद्योगों से जल उपकरण, विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों एवं नियमों के अर्न्तगत सहमति और प्राधिकार शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क सम्मिलित हैं। म.प्र.प्र.नि.बो. की वित्तीय स्थिति तालिका-1 में दिये अनुसार है।

तालिका-1: म.प्र.प्र.नि.बो. के वित्तीय संसाधन तथा उसके उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अनुदान की राशि		भारत सरकार से जल उपकरण की प्रतिपूर्ति	अन्य स्रोतों से आय <sup>6</sup>	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अंतिम शेष
		सीपीसीबी/भारत सरकार	राज्य					
2009-10	5.17	0.98	4.00	6.70	22.12	38.97	17.35	21.62
2010-11	21.62	1.33	4.25	4.17	27.47	58.84	23.94	34.90
2011-12	34.90	0.17	4.47	3.07	27.87	70.48	30.40	40.08
2012-13	40.08	0.17	7.18	5.77	35.21	88.41	36.26	52.15
2013-14	52.15	---	11.45	3.25	38.82	105.67	43.77	61.90
<b>Total</b>		<b>2.65</b>	<b>31.35</b>	<b>22.96</b>	<b>151.49</b>	<b>362.37</b>	<b>151.72</b>	

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

<sup>6</sup> भोपाल, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन।

<sup>7</sup> राज्य बोर्ड जल उपकरण लगाता और संग्रहित करता है एवं भारत की संचित निधि में जमा करता है। उपकरण की 80 प्रतिशत तक की राशि राज्य बोर्ड को वापिस प्रेषित की जाती है।

<sup>8</sup> इसमें सहमति शुल्क/सहमति नवीनीकरण शुल्क, प्राधिकार शुल्क/प्राधिकार नवीनीकरण शुल्क, निवेश पर ब्याज इत्यादि शामिल हैं।

• म.प्र.प्र.नि.बो. ने केवल वर्ष 2010-11 तक वार्षिक खातों को अन्तिम रूप दिया और मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत किए थे।

म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा भारत सरकार को ₹ 4.80 करोड़ का त्रुटिपूर्ण यू.सी. प्रस्तुत किए गए

• मार्च 2013 में, भारत सरकार ने जल उपकरण के हिस्से के रूप में ₹ 5.77 करोड़ की प्रतिपूर्ति की थी। म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा भारत सरकार को पूरी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। हालांकि म.प्र.प्र.नि.बो. ने, वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 0.32 लाख के वास्तविक खर्च के विरुद्ध भारत सरकार को ₹ 4.80 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत (नवम्बर 2013) किए थे।

• हमने यह भी पाया कि, आर.ओ. जबलपुर ने शुल्क की प्राप्ति के बिना जल और वायु के नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट जारी की थी। नतीजतन, उद्योगों और विभागों/संस्थाओं<sup>9</sup> से जल और वायु विश्लेषण शुल्क के अवधि 1992 से 2013-14 के लिये ₹ 23.47 लाख बकाया थे। अक्टूबर 2014 की स्थिति में ₹ 4.32 लाख की वसूली की जा चुकी है।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। त्रुटिपूर्ण यू.सी. के सम्बंध में उन्होंने कहा कि समाशोधन के पश्चात आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी और भविष्य में इसे टाला जाएगा। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बकाया परीक्षण शुल्क की वसूली के लिये कार्रवाई की जावेगी और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

### 2.1.7 सर्वेक्षण तथा आयोजना

जल अधिनियम की धारा 17 और वायु अधिनियम की धारा 17 के तहत म.प्र.प्र.नि.बो. को जल और वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के लिये व्यापक कार्यक्रम तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था।

अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये और प्रदूषण नियंत्रण की योजना के लिये, म.प्र.प्र.नि.बो. को राज्य में सभी उद्योगों, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों (एच.सी.ई.), नदियों, झीलों, तालाबों इत्यादि की पहचान तथा सूची तैयार करना चाहिए थी।

प्रदूषणकारी उद्योगों, नदियों, झीलों, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों इत्यादि की पहचान के लिये कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था

चयनित आर.ओ. के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च-जुलाई 2014) के दौरान हमने पाया कि प्रदूषणकारी उद्योगों, नदियों, झीलों, एच.सी.ई. इत्यादि की पहचान करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था। हालांकि, म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा अप्रैल 2012 में प्रथम बार अवधि 2012-17 के लिये पंचवर्षीय योजना तैयार की गयी थी जिसमें प्रदूषण के नियंत्रण के लिये वित्तीय और भौतिक लक्ष्य तथा संगठन को मजबूत करना शामिल थे। यह योजना प्रस्ताव राज्य सरकार को (अप्रैल 2012) भेजा गया था।

अधीनस्थ इकाईयों से आदानों को प्राप्त किए बिना म.प्र.प्र.नि.बो. ने पंचवर्षीय योजना तैयार की थी

इस प्रकार, अधीनस्थ इकाईयों से बुनियादी आदानों को प्राप्त किये बिना म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा दीर्घकालिक योजना स्वयं तैयार की गयी थी। हमने यह भी पाया कि वर्ष 2009-14 की अवधि में बोर्ड की केवल 14 बैठकें ही आयोजित की गयी थीं जबकि 20 बैठकें आयोजित की जाना थीं जिसमें प्रदूषण के उपशमन के लिये योजना शामिल है।

प्रदूषण से सम्बंधित पूर्ण जानकारी के अभाव में, प्रदूषण के नियंत्रण या उपशमन के लिये योजना व्यापक नहीं थी।

आर.ओ. ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि जल तथा वायु के नमूनों के लिये वार्षिक निगरानी पैकेज तैयार किया जा रहा था तथा म.प्र.प्र.नि.बो. को प्रस्तुत किया जा रहा था।

<sup>9</sup> कुछ उदाहरण: रेमण्ड लिमि. बोरेगांव (छिंदवाड़ा); एवरेस्ट इन्डस्ट्रीज, कैमूर (कटनी); एसीसी लिमि. कैमूर (कटनी); नगर निगम जबलपुर और पी.एच.ई.डी. जबलपुर इत्यादि।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने कहा कि समर्पित सर्वेक्षण आयोजित नहीं किये गये थे परन्तु म.प्र.प्र.नि.बो. के पास अन्य स्रोतों से उद्योगों, एच.सी.ई. की जानकारी है। यद्यपि, पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिये आर.ओ. से कोई आदान प्राप्त नहीं किये गये थे, आर.ओ. की नियमित बैठकों में स्थिति पता लगायी जा रही थी।

तथ्य दर्शाते हैं कि उद्योगों, एच.सी.ई. इत्यादि की जानकारी की मात्र उपलब्धता से उद्योगों में प्रदूषण के स्तर का पता नहीं चलता। इसलिये प्रदूषणकारी और गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थिति का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण आवश्यक था।

*म.प्र.प्र.नि.बो. यह सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ इकाइयों से आदानों को प्राप्त किया गया है और उन्हें लम्बी अवधि की योजना में उसे व्यापक बनाने के लिये शामिल किया गया है।*

### 2.1.8 सहमति देना

जल अधिनियम की धारा 25 और वायु अधिनियम की धारा 21 के अर्न्तगत किसी सरिता या कुएं या मलनल में या भूमि पर मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के निस्सरण और प्रक्रिया/उत्सर्जन द्वारा वायु के प्रदूषित होने की संभावना वाले किसी भी उद्योग, संक्रिया अथवा प्रक्रिया को स्थापित करने अथवा स्थापित करने की दशा में कदम उठाने के लिये राज्य बोर्ड की सहमति ली जाना वांछित थी। तदनुसार, म.प्र.प्र.नि.बो. उद्योगों को स्थापना और संचालन के लिये सहमति जारी करता है और सहमति का नवीनीकरण करता है।

1999 में जारी अधिसूचना के अनुसार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने विनिर्माण उत्पादों और उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के आधार पर 64 प्रकार के उद्योगों को लाल<sup>10</sup>, 25 को नारंगी<sup>11</sup> और 55 को हरा<sup>12</sup> श्रेणी में वर्गीकृत किया है (कुछ परिशिष्ट 2.1 में उल्लिखित हैं)। म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, राज्य में फरवरी 2014 की स्थिति में 14,396 उद्योग (लाल श्रेणी: 6809, नारंगी श्रेणी: 4698 और हरा श्रेणी: 2889) थे। वृहत/मध्यम उद्योगों को सहमति म.प्र.प्र.नि.बो. मुख्यालय स्तर पर तथा लघु श्रेणी के उद्योगों (एस.एस.आई.) को सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी की जा रही है।

#### 2.1.8.1 उद्योगों को सहमति देने में विलम्ब

जल अधिनियम की धारा 25 और वायु अधिनियम की धारा 21 के प्रावधान अनुसार किसी भी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया को स्थापित करने के पूर्व राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति ली जाना आवश्यक थी। यदि आवेदन की तिथि के चार माह के भीतर सहमति नहीं दी जाती तो यह समझा जावेगा कि सहमति दे दी गई है।

अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि 38 प्रकरणों<sup>13</sup> में म.प्र.प्र.नि.बो. मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सहमति आदेश 120 दिनों की निर्धारित अवधि के पश्चात 3 से 224 दिनों के विलम्ब से जारी किये गये थे। इनमें से, 11 सहमति वृहत और मध्यम उद्योगों से सम्बंधित थीं जो कि 136 दिनों तक के विलम्ब से जारी हुई थी।

इस प्रकार, म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा वास्तविक सहमति के बिना, निर्धारित समय के पश्चात उद्योग म.प्र.प्र.नि.बो. की सहमति मानते हुए कार्य करने के लिये स्वतंत्र थे जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

उद्योगों को सहमति देने में 224 दिन तक की देरी थी

<sup>10</sup> अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग।

<sup>11</sup> मध्यम प्रदूषणकारी उद्योग।

<sup>12</sup> कम से कम प्रदूषणकारी उद्योग।

<sup>13</sup> प्रकरणों की संख्या:- म.प्र.प्र.नि.बो. मुख्यालय: 11 (विलम्ब 14-136 दिन), क्षेत्रीय कार्यालय: भोपाल 11 (46-224 दिन), धार: 01 (20 दिन), ग्वालियर: 07 (7-114 दिन), इंदौर: 01 (23 दिन), जबलपुर: 01 (3 दिन), सागर: 05 (6-70 दिन), सतना: 01 (94 दिन)।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की और कहा कि सहमति देने में विलम्ब से बचने के प्रयास किये जाएंगे।

### 2.1.8.2 सहमति के नवीनीकरण के बिना उद्योगों का कार्यशील रहना

प्रत्येक उद्योग को अपनी संक्रिया और प्रक्रिया को जारी रखने के लिये निर्धारित सहमति नवीनीकरण शुल्क का भुगतान कर म.प्र.प्र.नि.बो. से सहमति का आवधिक नवीनीकरण कराना अपेक्षित था।

म.प्र.प्र.नि.बो. तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि 177 वृहत/मध्यम जल/वायु प्रदूषणकारी उद्योग<sup>14</sup> और 2013 लघु श्रेणी के उद्योग<sup>15</sup> म.प्र.प्र.नि.बो. से सहमति के नवीनीकरण के बिना मार्च 2014 की स्थिति में कार्य कर रहे थे। इन लघु श्रेणी के उद्योगों से ₹ 1.62 करोड़<sup>16</sup> की राशि सहमति नवीनीकरण शुल्क के रूप में प्रभार्य थी। सहमति नवीनीकरण के बिना उद्योगों का कार्यशील रहना पर्यावरण को प्रतिकूलतः प्रभावित कर सकता है।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों की कमी की वजह से यह नहीं किया जा सका और राशि की वसूली तथा उद्योगों को सहमति प्रणाली के अंदर लाने के प्रयास किये जावेंगे। हालांकि, सहमति के गैर-नवीनीकरण से पर्यावरण पर प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी।

### 2.1.8.3 स्थानीय निकायों से वार्षिक सहमति नवीनीकरण शुल्क लंबित रहना

जल (सहमति) मध्य प्रदेश नियम, 1975 प्राकृतिक स्रोतों से पानी निकालने और नदियों में अपशिष्ट प्रवाहित करने वाले स्थानीय निकायों पर प्रभार्य सहमति शुल्क और सहमति नवीनीकरण शुल्क निर्धारित करता है।

यह पाया कि नमूना जाँच किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों में 293 स्थानीय निकायों में से, 171 स्थानीय निकायों ने म.प्र.प्र.नि.बो. से कभी सहमति प्राप्त नहीं की थी। इसके साथ, 109 स्थानीय निकायों जिन्होंने प्रारम्भ में सहमति ली थी वह बाद में मार्च 2014 की स्थिति में सहमति नवीनीकरण के बिना कार्य<sup>17</sup> कर रहे थे। मार्च 2014 की स्थिति में इन स्थानीय निकायों से सहमति नवीनीकरण शुल्क की राशि ₹ 13.75 लाख प्राप्त की जानी थी (परिशिष्ट-2.2)।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि स्थानीय निकायों से लंबित शुल्क की वसूली के लिये सतत प्रयास किये जा रहे थे।

### 2.1.8.4 सहमति की शर्तों की पंजी का रखरखाव

हमने पाया कि जल अधिनियम की धारा 25 (6) के अर्न्तगत आवश्यक होने पर भी अवधि 2009-14 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों उज्जैन, सागर, सतना, ग्वालियर, धार तथा इन्दौर द्वारा सहमति की शर्तों की पंजी संधारित नहीं की गयी थी। क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा यह रजिस्टर मई 2011 से संधारित किया गया था, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में यह मई 2011 के पश्चात संधारित नहीं था। इस प्रकार, सहमति के अर्न्तगत उस निकास या भूमि या परिसर में हितबद्ध या उससे प्रभावित व्यक्तियों के निरीक्षण के लिये सहमति की शर्तें खुली नहीं थीं।

<sup>14</sup> भोपाल (30), धार (33), गुना (03), ग्वालियर (02), इंदौर (14), जबलपुर (17), कटनी (24), रीवा (05), सागर (12), सतना (01), शहडोल (04), सिंगरौली (03) और उज्जैन (29)।

<sup>15</sup> एस.एस.आई.: भोपाल (294), धार (193), ग्वालियर (78), इंदौर (289), जबलपुर (404), सागर (281), सतना (05) और उज्जैन (469)।

<sup>16</sup> भोपाल (₹ 25.78 लाख), धार (₹ 30.27 लाख), ग्वालियर (₹ 3.24 लाख), इंदौर (₹ 12.36 लाख), जबलपुर (₹ 22.06 लाख), सागर (₹ 21.94 लाख), सतना (₹ 0.07 लाख) और उज्जैन (₹ 46.00 लाख)।

<sup>17</sup> 44 स्थानीय निकाय पिछले पांच वर्षों से, 18 स्थानीय निकाय पिछले दस वर्षों से और 47 स्थानीय निकाय पिछले दस वर्षों से अधिक से।

2190 उद्योग सहमति के नवीनीकरण के बिना कार्य कर रहे थे

नमूना जांच किये आर.ओ. में 280 स्थानीय निकाय वैध सहमति के बिना कार्य कर रहे थे

आर.ओ. द्वारा सहमति की शर्तों की पंजी का संधारण नहीं किया गया था

अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों को पंजी का संधारण करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

अधिनियम में निर्धारण अनुसार म.प्र.प्र.नि.बो. को सहमति की शर्तों के रजिस्टर का संधारण सुनिश्चित करना चाहिए।

### 2.1.8.5 म.प्र.प्र.नि.बो. की सहमति के बिना बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का कार्यरत रहना

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार (सितम्बर 2006) और नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार (मई 2010) द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित श्रेणियों<sup>18</sup> की बिल्डिंग तथा निर्माण इकाईयों को म.प्र.प्र.नि.बो. से सहमति/अनुमोदन लेना अपेक्षित था।

चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>19</sup> के अभिलेखों की नमूना जांच तथा नगर निगमों (एम.सी.) द्वारा प्रदाय जानकारी के अनुसार, यह पाया गया कि अवधि 2009-14 के दौरान नगर निगमों द्वारा स्वीकृति प्राप्त 30 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में से केवल दो ने म.प्र.प्र.नि.बो. की सहमति ली थी। नगर निगमों द्वारा स्वीकृति प्राप्त बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की स्थिति परिशिष्ट-2.3 में है और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स द्वारा जल/वायु अधिनियम के अर्न्तगत म.प्र.प्र.नि.बो. से ली गयी सहमति की स्थिति तालिका-2 में दी गयी है।

तालिका-2: नमूना जांच किये गये क्षेत्रीय कार्यालयों में बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की स्थिति

नगर निगम का नाम	नगर निगमों द्वारा जिन प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी गयी उनकी संख्या और विवरण				प्रोजेक्ट्स की संख्या जिन्हें म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा सहमति दी गयी थी	प्रोजेक्ट्स की संख्या जिनके पास म.प्र.प्र.नि.बो. की सहमति नहीं थी
	बिल्डिंग और निर्माण प्रोजेक्ट्स <sup>20</sup>	आवासीय कॉम्प्लेक्स <sup>21</sup>	व्यावसायिक संस्थापन <sup>22</sup>	कुल		
ग्वालियर	09	--	01	10	02	08
इन्दौर	10	02	03	15	---	15
भोपाल	05	--	--	05	---	05
<b>कुल</b>	<b>24</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>30</b>	<b>02</b>	<b>28</b>

(स्रोत: आर.ओ. तथा एम.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

म.प्र.प्र.नि.बो. की सहमति के बिना 28 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स कार्यरत/निर्माणाधीन थे

यह देखा गया कि तीन श्रेणियों के अर्न्तगत नगर निगमों द्वारा अनुमति प्राप्त 30 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में से 28 प्रोजेक्ट्स म.प्र.प्र.नि.बो. की 'स्थापना सहमति' (सी.टी.ई.) के बिना निर्माणाधीन/कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 से पूर्व 14 प्रोजेक्ट्स (भोपाल 03, इंदौर 11) को म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा सी.टी.ई. प्रदान की गयी थी। लेकिन, पांच वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के बावजूद इन प्रोजेक्ट्स द्वारा 'कार्यकारी सहमति' नहीं ली गयी थी। इन प्रोजेक्ट्स की स्थिति की जांच के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा भी निरीक्षण नहीं किये गये थे। हमने यह भी पाया कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को अनुमति प्रदान करने के सम्बंध में, म.प्र.प्र.नि.बो. और नगर निगम के बीच समन्वय की कमी थी क्योंकि न तो नगर निगम द्वारा म.प्र.प्र.नि.बो. को जानकारी प्रेषित की गयी थी और न ही म.प्र.प्र.नि.बो. ने इसे प्राप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाये थे।

इस ओर इंगित किये जाने पर, सदस्य सचिव ने कहा (अगस्त 2014) कि 'धूसर जल पुर्नचक्रण आदर्श उपविधियों' (मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मई 2010 में अधिसूचित) के

<sup>18</sup> 20,000 वर्ग मीटर और उससे अधिक लेकिन 1,50,000 वर्ग मीटर से कम बिल्ट-अप क्षेत्र वाले बिल्डिंग और निर्माण प्रोजेक्ट्स, 100 या अधिक प्रकोष्ठों वाले आवासीय कॉम्प्लेक्स, 2000 वर्ग मीटर और उससे अधिक बिल्ट-अप क्षेत्र वाले व्यावसायिक संस्थापन।

<sup>19</sup> चयनित आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से केवल तीन में सहमति/अनुमोदन चाहने वाले बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पाये गये थे।

<sup>20</sup> 20,000 से अधिक लेकिन 1,50,000 वर्ग मीटर से कम बिल्ट-अप क्षेत्र वाले प्रोजेक्ट्स।

<sup>21</sup> 100 या अधिक प्रकोष्ठों वाले आवासीय निर्माण।

<sup>22</sup> 2000 वर्ग मीटर और उससे अधिक बिल्ट-अप क्षेत्र वाले व्यावसायिक संस्थापन।

अर्न्तगत म.प्र.प्र.नि.बो. के अनुमोदन के पश्चात् नगर निगम द्वारा अनुमति प्रदान की जानी थी। नियत निरीक्षण/विश्लेषण उपरांत सम्बंधित प्रोजेक्ट्स पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर दोनों शासकीय एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को सहमति तंत्र के अधीन लाने के लिये, म.प्र.प्र.नि.बो., नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा नगर निगमों के बीच बेहतर समन्वय के लिये प्रयास किये जाएंगे। स्थापना सहमति (सी.टी.ई.) दी गयीं परियोजनाओं के सम्बंध में शीघ्र ही क्षेत्र निरीक्षण किया जावेगा और उचित कार्रवाई की जावेगी।

## 2.1.9 जल अधिनियम

जल अधिनियम 1974, जल प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण के लिये तथा जल की सम्पूर्णता को बनाए रखने या पुनःस्थापित करने के लिये बनाया गया है। राज्य बोर्ड को सरिताओं और कुँओं के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना, उद्योगों को सहमति ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जारी करना जो वह जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उचित समझे तथा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन देखना अपेक्षित था।

### 2.1.9.1 राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम

सी.पी.सी.बी., राज्य बोर्डों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.एम.पी.) के अर्न्तगत देश में जल संसाधनों की जल गुणवत्ता का अनुवीक्षण करता है। हमने पाया कि म.प्र.प्र.नि.बो. विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स) के पांच स्टेशनों पर तथा भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स) के 100 स्टेशनों पर एन.डब्ल्यू.एम.पी. कार्यक्रम के अर्न्तगत नदियों, झीलों, तालाबों और कुओं से लिये गये जल नमूनों में प्राचलों पी.एच., जैविक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सी.ओ.डी.), विघटित ऑक्सीजन (डी.ओ.), कुल निलंबित ठोस (टी.डी.एस.) इत्यादि का मापन कर जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा था। इसके अतिरिक्त, सी.पी.सी.बी. ने निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के लिये मीनार्स के अर्न्तगत 50 नवीन स्टेशन स्वीकृत (दिसम्बर 2011) किये। प्रत्येक पहचान किये गये स्टेशन से नमूना लेने की आवृत्ति सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित की गयी थी।

कार्यक्रम के अर्न्तगत नमूना लेने के वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धि तालिका-3 में दर्शाये गये हैं।

तालिका-3: एन.डब्ल्यू.एम.पी. के अर्न्तगत जल नमूनों के लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति

वर्ष	जेम्स		मीनार्स		कुल		
	लक्ष्य	परीक्षित नमूने	लक्ष्य	परीक्षित नमूने	लक्ष्य	परीक्षित नमूने	कमी (प्रतिशत)
2009-10	44	40	750	690	794	730	64 (8)
2010-11	44	36	750	752	794	788	06 (1)
2011-12	44	37	750	696	794	733	61 (8)
2012-13	50	48	1490	1059	1540	1107	433 (28)
2013-14	50	48	1490	1284	1540	1332	208 (14)
<b>कुल</b>	<b>232</b>	<b>209</b>	<b>5230</b>	<b>4481</b>	<b>5462</b>	<b>4690</b>	<b>772 (14)</b>

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

इस प्रकार, अवधि 2009-14 के दौरान नमूने लेने के लक्ष्य के विरुद्ध कमी 14 प्रतिशत थी।

एन.डब्ल्यू.एम.पी. के अर्न्तगत जल के नमूने लेने में 14 प्रतिशत की कमी थी

इस ओर इंगित किये जाने पर सदस्य सचिव ने कहा (अगस्त 2014) कि कमी का कारण गर्मियों में नदियों का सूख जाना तथा बारिश के मौसम में नमूना स्थल तक पहुंचने में कठिनाई होना है।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।



### 2.1.9.2 प्राकृतिक जल स्रोतों का अनुवीक्षण

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्राकृतिक जल स्रोतों के नमूनों के संग्रहण और परीक्षण के लक्ष्य तथा उपलब्धि की स्थिति तालिका-4 में दी गई है।

तालिका-4: प्राकृतिक जल स्रोतों के लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लक्ष्य	2015	2197	2474	2810	2939
उपलब्धि	2869	3516	3838	3515	4632

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

2011-12 की तुलना में 2012-13 में जल की गुणवत्ता 19 अनुवीक्षण स्थानों पर खराब हुयी थी और आठ स्थानों पर सुधार हुआ था

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान उपलब्धि लक्ष्यों से अधिक थी।

प्राकृतिक जल संसाधनों के अनुवीक्षण के परिणामों के आधार पर, म.प्र.प्र.नि.बो. ने जल के कई उपयोग के आधार पर जल की गुणवत्ता को ए, बी, सी, डी और ई के रूप में वर्गीकृत किया है। हमने पाया कि वर्ष 2011-12 की स्थिति से तुलना करने पर वर्ष 2012-13 में परिशिष्ट 2.4 में दर्शाये अनुसार 19 अनुवीक्षण स्थानों पर नदी जल की गुणवत्ता अवनत हुई थी और आठ स्थानों पर नदी जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ था।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि जिन स्थानों पर जल की गुणवत्ता अवनत हुई थी वहां इसके सुधार के प्रयास किये जा रहे थे।

### 2.1.9.3 घरेलू बहिःस्त्राव का अपर्याप्त उपचार

जल अधिनियम 1974 के प्रावधान 17 (1) (एफ) के अनुसार राज्य बोर्ड को मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव का, संकर्म और उपचार के लिये संयंत्रों का निरीक्षण और जल की अभिक्रिया और उसके शुद्धिकरण के लिये स्थापित संयंत्रों, संकर्मों से सम्बंधित योजनाओं, विनिर्देशों या अन्य आंकड़ों की समीक्षा करना अपेक्षित था।

अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च-जुलाई 2014) और चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदाय जानकारी के विश्लेषण में हमने पाया कि छः स्थानीय निकायों<sup>23</sup> द्वारा दस जलमल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) स्थापित किये गये थे। चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार, 38 जिलों में जनित 1280.46 मिलियन लिटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) घरेलू अपशिष्ट में से केवल 260.31 एम.एल.डी. घरेलू अपशिष्ट 6 जिलों में 10 एस.टी.पी. के द्वारा उपचारित किया जा रहा था और बकाया 1020.15 एम.एल.डी. का उपचार के बिना निपटारा हो रहा था। यहां तक कि, जिन छः जिलों में एस.टी.पी. स्थापित थे वहां एस.टी.पी. की उपचार क्षमता जनित जलमल से कम थी। जलमल उत्सर्जन तथा उपचार क्षमता के बीच अन्तर 16 प्रतिशत से 79.57 प्रतिशत (परिशिष्ट-2.5) के बीच था। म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा एस.टी.पी. के निरीक्षण के लिये न तो कोई मापदण्ड निर्धारित किये गये थे और न ही कोई प्रभावी कार्रवाई की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय निकायों को नोटिस जारी किये जावेंगे तथा एस.टी.पी. के निरीक्षण के लिये मापदण्ड निर्धारित किये जावेंगे।

### 2.1.9.4 औद्योगिक दूषित जल का परिवीक्षण

प्रत्येक वर्ष म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को लाल श्रेणी के उद्योगों को प्रत्येक माह, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को वर्ष में छः बार और हरी श्रेणी के उद्योगों को वर्ष में कम से कम दो बार औद्योगिक दूषित जल का परिवीक्षण करने के निर्देशों के साथ एक

घरेलू बहिःस्त्राव के उपचार के लिये 32 जिलों में कोई भी एस.टी.पी. नहीं था। छः जिलों में एस.टी.पी. की उपचार क्षमता उत्पन्न बहिःस्त्राव से कम थी

<sup>23</sup> भोपाल (4), बुरहानपुर (1), ग्वालियर (1), इंदौर (2), उज्जैन (1) और विदिशा (1)।

निगरानी कार्यक्रम प्रस्तावित करने के लिये निर्देशित किया गया था। औद्योगिक अपशिष्ट जल की निगरानी के लिये प्रस्तावित उद्योगों की श्रेणी-वार संख्या तालिका-5 में दी गयी है।

तालिका-5: निगरानी के लिये प्रस्तावित उद्योगों की श्रेणी-वार संख्या

उद्योग की श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लाल	365	401	410	428	430
नारंगी	222	151	211	202	160
हरा	158	183	185	161	161
<b>कुल</b>	<b>745</b>	<b>735</b>	<b>806</b>	<b>791</b>	<b>751</b>

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रस्तावों के आधार पर, म.प्र.प्र.नि.बो. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिये औद्योगिक दूषित जल के नमूनों के लक्ष्यों का निर्धारण करता है। निर्धारित लक्ष्य तथा म.प्र.प्र.नि.बो. के निर्देशों के अनुसार किए जाने वाले परिवीक्षण का वर्षवार विवरण तालिका-6 में दिया गया है।

तालिका-6: निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धि और किये जाने वाले परीक्षणों की स्थिति

वर्ष	उद्योगों की संख्या	निर्धारित अनुसार वाली कुल संख्या	किये जाने वाली नमूनों की संख्या	लक्षित नमूनों की संख्या	मापदण्डों की तुलना में लक्ष्य कमी (प्रतिशत)	कुल उपलब्धि (नमूनों की निर्धारित संख्या का प्रतिशत)
2009-10	745	6028	2714	3314 (55)	3464 (57)	
2010-11	735	6084	2958	3126 (51)	3645 (60)	
2011-12	806	6556	5055	1501 (23)	5542 (85)	
2012-13	791	6670	3923	2747 (41)	4681 (70)	
2013-14	751	6442	3729	2713 (42)	4141 (64)	

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

यह देखा जा सकता है कि म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा निर्धारित से कम लक्ष्य नियत किये गये थे, यह वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 23 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक थे।

आगे, छः क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>24</sup> में वर्ष 2013-14 की औद्योगिक दूषित जल की परिवीक्षण रिपोर्टों की संवीक्षा में पाया गया कि 359 औद्योगिक इकाईयों की नमूना जांच में से, 53 औद्योगिक इकाईयों में उपचारित बहिःस्त्राव में जैविक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.) और रासायनिक ऑक्सीजन की मांग (सी.ओ.डी.) निर्धारित मापदण्डों (बी.ओ.डी.: 30 मि.ग्रा./लि., सी.ओ.डी.: 250 मि.ग्रा./लि.) से अधिक पायी गयी थी। बी.ओ.डी., सी.ओ.डी. निर्धारित मानदण्ड से किस सीमा तक अधिक पायी गयी थी तालिका-7 में दिया गया है।

तालिका-7: उद्योगों द्वारा सीमा से अधिक प्राचल बी.ओ.डी, सी.ओ.डी की स्थिति

स. क्र.	बी.ओ.डी.		सी.ओ.डी.	
	बी.ओ.डी. के विस्तार का स्तर (मि.ग्रा./लि. में)	उद्योगों की संख्या	सी.ओ.डी. के विस्तार का स्तर (मि.ग्रा./लि. में)	उद्योगों की संख्या
1	31-100	28	251-500	22
2	101-250	18	501-700	06
3	251-400	04	701-900	06
4	401-500	02	901-1200	04
5	501 और अधिक	01	1201 और अधिक	11
	<b>कुल</b>	<b>53</b>		<b>49*</b>

\* क्षेत्रीय कार्यालय सतना में चार उद्योगों में उपकरणों के अभाव के कारण सी.ओ.डी. का मापन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की और कहा कि स्टाफ और उपकरणों की कमी के कारण कम लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और स्थिति में सुधार के प्रयास किये जावेंगे।

<sup>24</sup> भोपाल, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर और सतना।

म.प्र.प्र.नि.बो. नमूनों के संग्रहण और परीक्षण के लिए निर्धारित मानकों का पालन कर सकता है।

### 2.1.10 वायु अधिनियम

वायु अधिनियम 1981, वायु की गुणवत्ता के संरक्षण के द्वारा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये बनाया गया है। राज्य बोर्ड को वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए योजना बनाना तथा उसका निष्पादन करना, उद्योगों को सहमति ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जारी करना जो वह वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उचित समझे तथा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन को देखना था।

#### 2.1.10.1 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु निगरानी कार्यक्रम

सी.पी.सी.बी. द्वारा स्वीकृत (2009-10 से पूर्व) 26 परिवेशीय स्टेशनों में से, 10 शहरों के 25 स्टेशनों पर म.प्र.प्र.नि.बो. वायु निगरानी कर रहा था। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के अन्तर्गत सी.पी.सी.बी. ने राज्य में 13 नये परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन<sup>25</sup> स्वीकृत (अप्रैल 2011) किये और म.प्र.प्र.नि.बो. को निगरानी प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया था। वर्ष 2011-12 से परिवेशीय वायु में, अधिक स्वास्थ्य जोखिम का माना जाने वाला, एक नया प्रचालक PM<sub>2.5</sub> (2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास का महीन कण) निगरानी के लिये शुरू किया गया था।

कार्यक्रम के अन्तर्गत, म.प्र.प्र.नि.बो. को प्रत्येक स्टेशन पर सप्ताह में दो बार परिवेशीय वायु का अनुवीक्षण करना था अर्थात् एक वर्ष में 104 मापन। उन्हें एक वर्ष<sup>26</sup> में प्रत्येक स्टेशन से सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के 624 नमूने, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकूलेट मैटर (आर.एस.पी.एम) के 312 नमूने और प्रचालक PM<sub>2.5</sub> के 104 परिवेशीय वायु गुणवत्ता नमूने लेना थे।

25 कार्यशील स्टेशनों के लिये, सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिये 15,600 नमूनों, आर.एस.पी.एम के लिये 7,800 नमूनों और PM<sub>2.5</sub> के लिये 2,600 नमूनों के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध, लिये गये और परीक्षण किये गये नमूनों की स्थिति तालिका-8 के अनुसार है।

तालिका-8: राज्य में एन.ए.एम.पी. स्टेशनों के लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति

वर्ष	सल्फर डाई ऑक्साइड (SO <sub>2</sub> )		नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO <sub>x</sub> )		आर.एस.पी.एम		PM <sub>2.5</sub>	
	लक्ष्य	परीक्षित नमूने (प्रतिशत)	लक्ष्य	परीक्षित नमूने (प्रतिशत)	लक्ष्य	परीक्षित नमूने (प्रतिशत)	लक्ष्य	परीक्षित नमूने (प्रतिशत)
2009-10	15,600	9,919 (64)	15,600	9,919 (64)	7,800	5,108 (65)	--	--
2010-11	15,600	10,064 (65)	15,600	10,100 (65)	7,800	5,418 (69)	--	--
2011-12	15,600	9,706 (62)	15,600	9,859 (63)	7,800	5,207 (67)	2,600	31 (01)
2012-13	15,600	9,527 (61)	15,600	9,529 (61)	7,800	5,067 (65)	2,600	115 (04)
2013-14	15,600	9,039 (58)	15,600	9,274 (59)	7,800	4,839 (62)	2,600	206 (08)
<b>कुल</b>	<b>78,000</b>	<b>48,255 (62)</b>	<b>78,000</b>	<b>48,681 (62)</b>	<b>39,000</b>	<b>25,639 (66)</b>	<b>7,800</b>	<b>352 (05)</b>
<b>कमी</b>		<b>38 प्रतिशत</b>		<b>38 प्रतिशत</b>		<b>34 प्रतिशत</b>		<b>95 प्रतिशत</b>

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

इस प्रकार, सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के नमूनों में 38 प्रतिशत की कमी, आर.एस.पी.एम के नमूनों में 34 प्रतिशत की कमी थी जबकि पैरामीटर PM<sub>2.5</sub> के नमूनों में 95 प्रतिशत की कमी थी। इसके अतिरिक्त, 13 नवीन स्वीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन और एक पुराना स्टेशन (कटरा बाजार, सागर) कार्यशील नहीं थे।

<sup>25</sup> अमलाई: 2, भोपाल: 4, छिंदवाड़ा: 2, जबलपुर: 1, कटनी: 2 और पीथमपुर (इंदौर): 2।

<sup>26</sup> (क) SO<sub>2</sub> और NO<sub>x</sub> – 104 माप X 6 (प्रति 4 घण्टा के अंतराल पर) = 624 माप,

(ख) आर.एस.पी.एम – 104 माप X 3 (प्रति 8 घण्टा के अंतराल पर) = 312 माप,

(ग) PM<sub>2.5</sub> – 104 माप X 1 (24 घण्टा के अंतराल पर) = 104 माप।

25 कार्यशील स्टेशनों की वार्षिक औसत निगरानी रिपोर्टों की संवीक्षा में यह पाया गया कि प्रचालक सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निर्धारित मापदण्डों के अन्दर थे। वर्ष 2012 में (22 स्टेशनों पर) तथा 2013 में (20 स्टेशनों पर) प्रचालक आर.एस.पी.एम निर्धारित मापदण्डों से अधिक था। वर्ष 2013 के लिये तीन स्टेशनों के आर.एस.पी.एम के परीक्षण के परिणाम उपलब्ध नहीं थे। विवरण **परिशिष्ट-2.6** में दिया गया है।

इंगित किये जाने पर, सदस्य सचिव ने कमी का कारण उपकरणों की सुरक्षा के लिये बरसात के मौसम में स्टेशनों का कार्यकारी नहीं होना और उपकरणों का अकार्यकारी रहना बताया (अगस्त 2014) था। आधिक्य संकेन्द्रण वाहनों की संख्या में वृद्धि, निर्माण और वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण था। आगे, सदस्य सचिव ने कहा कि कार्यक्रम के अर्न्तगत अनुवीक्षण के परिणाम सी.पी.सी.बी. को भेजे गये थे ताकि राष्ट्रीय स्तर पर कार्ययोजना बनायी और कार्यान्वित की जा सके।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा वर्ष में केवल 104 दिन ही इन प्रचालकों का अनुवीक्षण किया जाना अपेक्षित था। आगे, म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि उपकरण पूरे वर्ष कार्य करने की हालत में थे। तथापि, की गई उपचारात्मक कार्यवाई के सम्बंध में म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि  $PM_{2.5}$  की निगरानी के लिये आवश्यक उपकरणों की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हुयी थी। अब निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है और इस प्रक्रिया के पूरी होने के पश्चात् म.प्र.प्र.नि.बो.  $PM_{2.5}$  का परीक्षण शुरू कर देगा। भविष्य में कमी से बचा जावेगा। 13 गैर-कार्यशील स्टेशनों में से पांच स्टेशन परिचालित बनाये गये हैं शेष स्टेशनों को भी शीघ्र कार्यशील बनाया जावेगा।

*राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना बनाने और कार्यान्वयन के लिये सी.पी.सी.बी. को सक्षम बनाने के लिये, म.प्र.प्र.नि.बो. यह सुनिश्चित कर सकता है कि उपकरण कार्य करने की स्थिति में हैं और पर्याप्त नमूने लिये गये हैं।*

### 2.1.10.2 वाहन प्रदूषण का परीक्षण

वायु अधिनियम 1981 की धारा 20 के अर्न्तगत राज्य बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिये वाहनों का निरीक्षण करना था कि वाहनों द्वारा वायु उत्सर्जन के मानकों का पालन किया जा रहा है।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य में म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा जांच किये गये 70,185 वाहनों में से 7,734 वाहन (11 प्रतिशत) निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण करते पाये गये। जांच किये जाने वाले वाहन, म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा जांच किये गये वाहन और निर्धारित सीमाओं से अधिक वायु प्रदूषण कर रहे वाहनों का वर्षवार विवरण **तालिका-9** के अनुसार था।

**तालिका-9: अनुवीक्षित और सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों की स्थिति**

वर्ष	जांच किये जाने वाले वाहनों की लक्षित संख्या	अनुवीक्षित वाहनों की कुल संख्या	सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों की कुल संख्या	सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों का प्रतिशत
2009-10	12,400	8,376	1,080	13
2010-11	13,080	14,432	2,419	17
2011-12	13,980	14,609	1,699	12
2012-13	14,880	16,528	1,520	09
2013-14	14,880	16,240	1,016	06
<b>कुल</b>	<b>69,220</b>	<b>70,185</b>	<b>7,734</b>	<b>11</b>

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

11 प्रतिशत वाहन उत्सर्जन सीमा से अधिक वायु प्रदूषण करते हुए पाए गए थे

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि वाहन प्रदूषण की अनुवीक्षण रिपोर्ट्स आर.टी.ओ. को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी थी क्योंकि वह कार्यवाही करने के लिये प्राधिकारी है। आगे, अध्यक्ष ने कहा कि अनुवर्ती कार्रवाई के लिये मामले को आर.टी.ओ. के साथ लिया जावेगा।

तथ्यात्मक स्थिति यह थी कि आर.टी.ओ. के साथ अनुसरण की कमी के कारण, आर.टी.ओ. द्वारा की गयी कार्यवाही म.प्र.प्र.नि.बो./क्षेत्रीय कार्यालयों को पता नहीं थी।

### 2.1.10.3 औद्योगिक वायु के नमूनों का एकत्रण और परीक्षण

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य में औद्योगिक परिवेशीय वायु तथा चिमनियों के उत्सर्जन के नमूनों के लक्ष्य तथा उपलब्धि की स्थिति तालिका-10 में दी गयी है।

तालिका-10: औद्योगिक वायु के परीक्षण के लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति

परिवेशीय वायु के नमूनों के संग्रहण और जांच में 11 से 37 प्रतिशत की कमी पायी गयी थी

वर्ष	परिवेशीय वायु			चिमनी		
	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)
2009-10	2487	2040	447 (18)	793	661	132 (17)
2010-11	2768	2468	300 (11)	722	760	निरंक
2011-12	4234	2650	1584 (37)	843	796	47 (06)
2012-13	3678	2446	1232 (33)	841	883	निरंक
2013-14	3601	3648	निरंक	814	997	निरंक

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

सदस्य सचिव ने कहा (अगस्त 2014) कि नमूनों के संग्रहण के समय उद्योगों का बंद पाया जाना और बारिश के कारण परिवेशीय वायु की निगरानी प्रभावित होना कमी के कारण थे।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नमूनों के संग्रहण कार्यक्रम की रूपरेखा जब उद्योग कार्य कर रहे थे तब बनाना चाहिए थी, जिससे पर्याप्त नमूने लेकर विश्लेषण किया जा सके।

आगे, छः नमूना जांच किये गये क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>27</sup> द्वारा उपलब्ध कराई गयीं वर्ष 2013-14 की औद्योगिक वायु की निगरानी रिपोर्टों की नमूना जांच में हमने पाया कि 50 औद्योगिक इकाईयों में प्रचालक आर.एस.पी.एम. 100  $\mu\text{g}/\text{M}^3$  की अनुज्ञेय सीमा से अधिक पाये गये थे। इन इकाईयों में आर.एस.पी.एम. निर्धारित मानदण्ड से किस सीमा तक अधिक पाया गया, यह तालिका-11 में दर्शाया गया है।

तालिका-11: उद्योगों द्वारा प्रचालक आर.एस.पी.एम. के आधिक्य की स्थिति

क्रम संख्या	प्रचालक आर.एस.पी.एम. का विस्तार ( $\mu\text{g}/\text{M}^3$ )	निर्धारित सीमा से आधिक्य वाले उद्योगों की संख्या
1	101-200	22
2	201-300	06
3	301-400	13
4	401-500	03
5	501 और अधिक	06
<b>कुल</b>		<b>50</b>

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने तथ्यों और लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि की और कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण लक्षित नमूने एकत्रित और परीक्षित नहीं किये जा सके। लक्षित नमूने प्राप्त करने के प्रयास किये जावेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निर्देशित किया जावेगा।

म.प्र.प्र.नि.बो. नमूनों के संग्रहण और परीक्षण के लिए निर्धारित मानकों का पालन कर सकता है।

<sup>27</sup> भोपाल, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर और सतना।

### 2.1.10.4 ध्वनि प्रदूषण का परिवीक्षण

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 4 (3) के अर्न्तगत राज्य बोर्ड को ध्वनि प्रदूषण से सम्बंधित सांख्यिकीय और तकनीकी आंकड़ों को एकत्रित, संकलित और प्रकाशित करना था और इसके प्रभावी निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिये उपायों को खोजना था। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अर्न्तगत ध्वनि प्रदूषण के लिये क्षेत्र-वार मानक अधिसूचित किये गये थे।

राज्य में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान, पहचाने गये क्षेत्र/जोन<sup>28</sup> में म.प्र.प्र.नि. बो. द्वारा किये गये ध्वनि परीक्षणों तथा मानकों से अधिक ध्वनि की स्थिति तालिका-12 में दिये अनुसार है।

तालिका-12: संचालित किये गये और निर्धारित सीमा से अधिक पाये गये परीक्षणों की स्थिति

वर्ष	परीक्षणों की लक्षित संख्या	किये गये परीक्षणों की कुल संख्या	निर्धारित सीमा से अधिक मामलों की संख्या	सीमा से अधिक प्रतिशत
2009-10	3,180	4,249	1,744	41
2010-11	4,320	4,608	2,283	50
2011-12	4,896	6,046	2,837	47
2012-13	5,184	5,822	2,757	47
2013-14	5,184	6,019	2,874	48
<b>कुल</b>	<b>22,764</b>	<b>26,744</b>	<b>12,495</b>	<b>47</b>

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

उपरोक्त तालिका भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों<sup>29</sup> से वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 41 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अधिक ध्वनि पाया जाना इंगित करती है।

आगे, चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में पाया गया कि व्यावसायिक क्षेत्र में 65 प्रतिशत नमूनों में, शांत क्षेत्र में 59 प्रतिशत नमूनों में, आवासीय क्षेत्र में 56 प्रतिशत नमूनों में और औद्योगिक क्षेत्र में 25 प्रतिशत नमूनों में ध्वनि प्रदूषण मानकों से अधिक पाया गया था।

हमने पाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक परीक्षणों की कुल संख्या क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में (87 प्रतिशत), क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर में (65 प्रतिशत) और क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन में (59 प्रतिशत) अधिक थी। चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में ध्वनि प्रदूषण की क्षेत्र-वार स्थिति परिशिष्ट 2.7 में दर्शायी गयी है।

ध्वनि प्रदूषण के स्तर से सम्बंधित आंकड़ों का प्रकाशन नहीं करने के परिणाम स्वरूप प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के स्तर के बारे में हितधारक और आम जनता भी अनजान बने रहे।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के अनुवीक्षण प्रतिवेदन जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये थे, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के प्रकरणों में जिला प्रशासन प्राधिकृत प्राधिकारी हैं। भविष्य में प्रदूषण के स्तर को इंगित करते हुए ध्वनि प्रदूषण के तकनीकी आंकड़े प्रकाशित किये जावेंगे।

### 2.1.10.5 सीमेंट संयंत्रों में वायु प्रदूषकों का अधिक उत्सर्जन

वायु अधिनियम की धारा 21 के अर्न्तगत, सीमेंट संयंत्रों को उत्सर्जन के सभी बिन्दुओं पर उचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को बनाए रखने और उपकरण हमेशा काम करने की स्थिति में और हर समय चालू रहें यह सुनिश्चित करने की शर्त के साथ म.प्र. प्र.नि.बो. द्वारा सहमति प्रदान की गयी थी। इकाइयों को कण उत्सर्जन को जहां तक

<sup>28</sup> आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, शांत क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र।

<sup>29</sup> औद्योगिक क्षेत्र (दिन के समय: 75, रात्रि समय: 70), व्यावसायिक क्षेत्र (दिन के समय: 65, रात्रि समय: 55), आवासीय क्षेत्र (दिन के समय: 55, रात्रि समय: 45) और शांत क्षेत्र (दिन के समय: 50, रात्रि समय: 40) सीमायें dB (A) Leq में हैं।

संभव हो सीमित करने के प्रयास करना था। किसी भी समय चिमनियों से उत्सर्जन 50 mg/Nm<sup>3</sup> से अधिक नहीं होना था। उद्योगों के परिसर की सीमा पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता भी निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होना चाहिए थी।

सीमेंट संयंत्रों की निगरानी रिपोर्टों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि सीमेंट संयंत्रों के आसपास के पर्यावरण में वायु में निलम्बित आर.एस.पी.एम. (PM<sub>10</sub>), पार्टिकूलेट मैटर (PM<sub>2.5</sub>) तथा चिमनियों से पार्टिकूलेट उत्सर्जन अनुज्ञेय सीमा से अधिक था। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिये PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub> तथा चिमनी के पार्टिकूलेट मैटर की पांच सीमेंट संयंत्रों में निगरानी स्थिति **परिशिष्ट-2.8** में दी गयी है। तीन सीमेंट संयंत्रों<sup>30</sup> में अधिशेष उत्सर्जन का प्रतिशत क्रमशः 110, 120 और 89 प्रतिशत तक था।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि जहां उत्सर्जन स्तर अनुज्ञेय सीमा से अधिक था उन सीमेंट संयंत्रों को उत्सर्जन स्तर को नीचे लाने के निर्देशों के साथ नोटिस जारी किये गये थे। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की क्षमता को बढ़ाकर उत्सर्जन स्तर को नीचे लाने के लिये, म.प्र.प्र.नि.बो. सुधारात्मक कार्यवाही करेगा।

### 2.1.11 अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्टों के जल स्रोतों पर पहुंचने पर सतही जल प्रदूषित होता है जबकि अपशिष्ट के अवशेषों के भू-जल में रिसने से भू-जल प्रदूषित होता है। अपशिष्टों का प्रबंधन और हथालन (हैंडलिंग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके अर्न्तगत बनाए गये नियमों अर्थात् जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम 1998; परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008; नगरीय टोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 इत्यादि द्वारा नियंत्रित होता है।

### जैव चिकित्सा अपशिष्ट

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बी.एम.डब्ल्यू.) मनुष्य या पशुओं के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या अनुसंधान की गतिविधियों में उत्पन्न होता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है अतः बी.एम.डब्ल्यू. का प्रबंधन स्वास्थ्य के देखभाल का अभिन्न हिस्सा है।

#### 2.1.11.1 स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों (एच.सी.ई.) का प्राधिकार

बी.एम.डब्ल्यू. नियम के नियम 8 के अनुसार बी.एम.डब्ल्यू. का निपटान करने और/अथवा किसी अन्य ढंग से उनका हथालन करने वाले प्रत्येक अधिभोगी को बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए। बी.एम.डब्ल्यू. नियम 1998 के नियम 7(7) के अनुसार प्राधिकार के लिये प्राप्त प्रत्येक आवेदन का विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा।

म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा सी.पी.सी.बी. को प्रस्तुत बी.एम.डब्ल्यू. के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच से यह उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2009 से 2013 के दौरान राज्य में कार्यरत 2280 से 2850 एच.सी.ई. में से, 808 से 1274 एच.सी.ई. प्राधिकार के बिना कार्य कर रही थीं और 782 से 1217 एच.सी.ई. ने प्राधिकार के लिये आवेदन नहीं किया था। एच.सी.ई. की कुल संख्या, प्राधिकार के लिये आवेदित एच.सी.ई. और म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा दिये गये प्राधिकार का वर्ष-वार विवरण **परिशिष्ट-2.9** में दर्शाया गया है।

चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों एवं म.प्र.प्र.नि.बो. मुख्यालय में प्राधिकार सम्बंधी अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि म.प्र.प्र.नि.बो. मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा

एच.सी.ई. को 9 से 623 दिनों के विलम्ब से प्राधिकार जारी किये गये थे

<sup>30</sup> प्रिज्म सीमेंट लिमि. सतना, मैहर सीमेंट, सतना और के.जे.एस. सीमेंट प्लांट, सतना ।

47 प्रकरणों<sup>31</sup> में अधिभोगियों को प्राधिकार आदेश निर्धारित 90 दिनों से परे 9 से 623 दिनों की देरी के साथ जारी किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि भविष्य में देरी को टाला जावेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एच.सी.ई. को प्राधिकार तंत्र के तहत लाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

### 2.1.11.2 प्राधिकार नवीनीकरण के बिना एच.सी.ई. का कार्यरत रहना

बी.एम.डब्ल्यू नियम 8 के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उत्सर्जन, संग्रहण, प्राप्तिकरण, भण्डारण, परिवहन, व्यवहार, निपटान करने और/अथवा किसी अन्य ढंग से उनका हथालन करने वाले संस्थान के प्रत्येक अधिभोगी को बी.एम.डब्ल्यू का निपटान और हथालन करने के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. से प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 में, अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है।

एच.सी.ई. से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में 627 एच.सी.ई., जिन्होंने प्रारम्भ में प्राधिकार प्राप्त किया था, बाद में प्राधिकार नवीनीकरण के बिना मार्च 2014 की स्थिति में कार्य कर रही थीं (परिशिष्ट-2.10)।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों की कमी की वजह से यह नहीं किया जा सका और एच.सी.ई. को प्राधिकार तंत्र के तहत लाने के लिये प्रयास किये जावेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, म.प्र.प्र.नि.बो. ने अपनी जिम्मेदारी को नोटिस जारी करने तक ही सीमित रखा और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार चूककर्ता एच.सी.ई. पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाना नहीं पाया गया।

### 2.1.11.3 बी.एम.डब्ल्यू. पर सलाहकार समिति की अपर्याप्त बैठकें

राज्य सभा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, राज्य सरकार, ने बी.एम.डब्ल्यू नियम के कार्यान्वयन से सम्बंधित मामलों पर राज्य सरकार और म.प्र.प्र.नि.बो. को सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति<sup>32</sup> का गठन (जनवरी 2011) किया था। इस शीर्ष समिति को बी.एम.डब्ल्यू नियम के प्रवर्तन के समन्वय के लिये प्रत्येक तीन महीने में एक बार मिलना था।

हमने पाया कि सलाहकार समिति केवल एक बार मार्च 2011 में मिली थी। समिति ने क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बी.एम.डब्ल्यू के प्रबंधन के सम्बंध में अस्पताल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और ग्रामीण क्षेत्रों से सार्वजनिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ.) तक कचरे के परिवहन की स्थिति सहित बी.एम.डब्ल्यू के प्रबंधन का अध्ययन करने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने का निर्णय लिया था। इस कार्य के लिये, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जो वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, के साथ म.प्र.प्र.नि.बो. को समन्वय स्थापित करना था।

कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाले पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) को डी.पी.आर. तैयार करने का काम दिया (जून 2011) गया था, लेकिन हमने पाया कि एफको द्वारा डी.पी.आर. तैयार नहीं किया गया था। अवधि 2011-14 के दौरान नौ क्षेत्रीय

प्राधिकार के नवीनीकरण के बिना 627 एच.सी.ई. कार्य कर रहे थे

बी.एम.डब्ल्यू पर सलाहकार समिति की प्रत्येक तीन माह में एक मीटिंग के प्रावधान के विरुद्ध, 2011 से केवल एक मीटिंग आयोजित हुयी थी

<sup>31</sup> एम.पी.पी.सी.बी. मुख्यालय: 03 प्रकरण (31-339 दिन), क्षेत्रीय कार्यालय: भोपाल 08 प्रकरण (9-240 दिन), धार: 04 प्रकरण (19-366 दिन), ग्वालियर: 06 प्रकरण (16-182 दिन), इंदौर: 08 प्रकरण (63-208 दिन), जबलपुर: 02 प्रकरण (27-221 दिन), सतना: 16 प्रकरण (9-623 दिन)।

<sup>32</sup> प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में।



कार्यालयों में केवल 11 प्रशिक्षण/कार्यशालायें<sup>33</sup> आयोजित की गयी थीं जिसमें 1761 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया। बचे हुए चार क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>34</sup> में कोई प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित नहीं की गयी थी। इस प्रकार, सलाहकार समिति की सिफारिशें अगस्त 2014 की स्थिति में पूरी तरह से लागू नहीं की गयी थीं।

उल्लेख किये जाने पर सदस्य सचिव ने कहा (अगस्त 2014) कि एफको को आवश्यक निधि प्रदान नहीं किये जाने के कारण उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने के प्रयास किये जावेंगे और इसकी सिफारिशों को लागू किया जावेगा। उन्होंने यह भी सूचित किया कि बी.एम.डब्ल्यू. के मुद्दों को सम्बोधित करने और आवधिक समीक्षा के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति गठित की है।

*बी.एम.डब्ल्यू. पर सलाहकार समिति निर्धारित अंतराल पर बैठकें कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि उसकी सिफारिशें कार्यान्वित की गयी हैं।*

#### 2.1.11.4 भस्मकों के लिये मानदण्डों का परीक्षण

बी.एम.डब्ल्यू. नियम में भस्मकों के लिये निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रदूषण सीमा को बनाए रखा गया है, राज्य बोर्ड के द्वारा पांच प्राचलों (पर्टिकूलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एच.सी.एल., चिमनी की ऊंचाई और राख में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक) की निगरानी की जाना वांछित था। सार्वजनिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं (सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ.) के लिये सी.पी.सी.बी. के दिशा निर्देश, एक सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. को 10,000 शैय्याओं तक कैटर करने की अनुमति देने और 150 किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित स्वास्थ्य देखभाल इकाईयों को कैटर नहीं करना, प्रदान करते हैं। मार्च 2014 की स्थिति में राज्य में 15 सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. थे।

नमूना जांच किये गये चार क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>35</sup> में भस्मकों से सम्बंधित अभिलेखों एवं निगरानी रिपोर्टों की संवीक्षा में निम्नांकित उद्घाटित हुआ:-

- राख में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (व्ही.ओ.सी.) का परीक्षण चारों क्षेत्रीय कार्यालयों में से किसी के द्वारा भी नहीं किया जा रहा था जबकि प्राचल एच.सी.एल. का परीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय सतना और जबलपुर द्वारा नहीं किया जा रहा था,
- इन्दौर स्थित भस्मक द्वारा, क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 12,991 शैय्याओं के बी.एम.डब्ल्यू. को कैटर किया जा रहा था। इसी भस्मक द्वारा उज्जैन, देवास, शाजापुर, नागदा, धार और बुरहानपुर से भी बी.एम.डब्ल्यू. संग्रहित किया जा रहा था। इन जिलों की शैय्याओं की संख्या ज्ञात नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इन्दौर से करीब 190 किलोमीटर की दूरी पर बुरहानपुर स्थित है जो कि 150 किलोमीटर की निर्धारित सीमा से परे है,
- सीहोर स्थित सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. को बैतूल और गुना जिलों, जो कि सीहोर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, को कवर करने के लिये प्राधिकृत किया गया था।

भस्मकों से उत्सर्जन के लिये निर्धारित प्राचलों की जांच नहीं की गयी थी

<sup>33</sup> भोपाल (01), गुना (01), ग्वालियर (02), इंदौर (01), जबलपुर (01), रीवा (01), सागर (01), सतना (02) और उज्जैन (01)।

<sup>34</sup> धार, कटनी, शहडोल और सिंगरौली।

<sup>35</sup> क्षेत्रीय कार्यालय: भोपाल, इन्दौर, जबलपुर और सतना।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि उपकरणों की कमी के कारण ये प्राचल (व्ही.ओ.सी. और एच.सी.एल.) परीक्षित नहीं किये जा सके। भविष्य में इनका परीक्षण किया जावेगा। उस क्षेत्र में किसी अन्य सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. के उपलब्ध न होने के कारण, 150 किमी की परिधि के बाहर सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. को प्राधिकार जारी किया गया था।

### परिसंकटमय अपशिष्ट

परिसंकटमय अपशिष्ट से आशय, उस अपशिष्ट से है जो अपने किसी भौतिक, रासायनिक, पुनःअभिक्रिया, विषैले, ज्वलनशील, विस्फोटक या संक्षारक लक्षणों के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण को खतरा उत्पन्न करता है या खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। कुछ उद्योग अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं जो कि विषैली प्रकृति के रहते हैं और पर्याप्त नियंत्रण वांछित होता है।

#### 2.1.11.5 अधिभोगियों को बिलम्ब से प्राधिकार जारी करना और प्राधिकार की शर्तों की पंजी का रखरखाव न करना

परिसंकटमय अपशिष्ट नियम 5 यह उपबंधित करता है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से जो परिसंकटमय अपशिष्ट को उत्पन्न करने, संग्रहण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, अन्तरण या उस प्रकार के कार्य में लगे हैं, राज्य बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने की अपेक्षा होगी। प्राधिकार के लिये सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड 120 दिनों के भीतर ऐसी शर्तों के अधीन प्राधिकार जारी करेगा, जो उसमें अधिकथित की जाएं।

प्राधिकार से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि 22 प्रकरणों<sup>36</sup> (नमूना जांच किये गये 220 प्रकरणों में से) में प्राधिकार 347 दिनों तक के बिलम्ब से जारी किये गये थे। तथापि, प्राधिकार आवेदन की तारीख से दिये गये थे। 22 प्रकरणों में से 13 प्रकरणों में 30 दिनों से अधिक का बिलम्ब था। इस प्रकार, इन अधिभोगियों को प्राधिकार जारी करने में बिलम्ब के फलस्वरूप, अधिभोगी बिलम्ब की अवधि में बिना प्राधिकार के कार्य कर रहे थे।

हमने यह भी पाया कि नियम में अपेक्षित होने पर भी, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राधिकार देने/नवीनीकरण के दौरान अधिरोपित शर्तों की पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, प्राधिकार से प्रभावी व्यक्ति के लिये शर्तें खुली नहीं थीं।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकार जारी करने में बिलम्ब को टालने के प्रयास किये जावेंगे और क्षेत्रीय कार्यालयों को प्राधिकार देते समय शर्तों की पंजी को संधारित करने के लिये निर्देशित किया जावेगा।

*नियम में निर्धारित अनुसार, म.प्र.प्र.नि.बो. को प्राधिकार देते समय अधिरोपित शर्तों की पंजी का संधारण सुनिश्चित करना चाहिए।*

#### 2.1.11.6 प्राधिकार नवीनीकरण के बिना उद्योगों का कार्यरत रहना

परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2008 के नियम 5(4) के अनुसार, उद्योगों को कार्यकरण के लिये राज्य बोर्ड द्वारा दिया गया प्राधिकार पांच वर्षों की अवधि के लिये विधिमाम्य है और उद्योगों के अविच्छिन्न कार्य करने के लिये इसका नवीनीकृत होना अपेक्षित है।

परीक्षण किये गये चार क्षेत्रीय कार्यालयों में परिसंकटमय अपशिष्ट की इन्वेंट्री रिपोर्ट की नमूना जांच में पाया गया कि परिसंकटमय अपशिष्ट का उत्सर्जन कर रहे 625 उद्योगों

परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत अधिभोगियों को प्राधिकार देने में विलम्ब हुआ था

प्राधिकार देने की शर्तों की पंजी संधारित नहीं थी

625 उद्योगों में से 76 उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार के बिना कार्य कर रहे थे

<sup>36</sup> प्रकरणों की संख्या: भोपाल: 02 (32-158 दिन), धार: 05 (1-52 दिन), ग्वालियर: 06 (12-227 दिन), इन्दौर: 03 (1-28 दिन), जबलपुर: 01 (1 दिन), सतना: 05 (29-347 दिन)।

में से 76 औद्योगिक संस्थायें<sup>37</sup> मार्च 2014 की स्थिति में प्राधिकार नवीनीकरण के बिना संचालित थीं।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों की कमी की वजह से यह नहीं किया जा सका और उद्योगों को प्राधिकार तंत्र के तहत लाने के लिये प्रयास किये जावेंगे।

### नगरीय ठोस अपशिष्ट

नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू.) में औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित बी.एम.डब्ल्यू. को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय क्षेत्रों में उत्पन्न वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट शामिल हैं।

#### 2.1.11.7 एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के तहत निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के अनुसार नगर पालिकायें एम.एस.डब्ल्यू. के निपटान के लिये जिम्मेदार हैं और राज्य बोर्ड नियम में उल्लेखित मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिये जिम्मेदार हैं। नियम यह भी प्रावधानित करता है कि छः प्राचलों अर्थात् संग्रहण, भण्डारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के सम्बंध में एम.एस.डब्ल्यू. का प्रबंधन और हथालन नियम (अनुसूची II) में निर्धारित अनुपालन मानदण्ड के अनुसार किया जाना चाहिए।

स्थानीय निकायों के दो प्रतिशत से भी कम के द्वारा एम.एस.डब्ल्यू. का प्रसंस्करण और व्ययन किया जा रहा था

म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा सी.पी.सी.बी. को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य में 338 से 365 स्थानीय निकाय (एल.बी.) थे। हमने पाया कि इन वर्षों में एम.एस.डब्ल्यू. का संग्रहण केवल 3 से 11 एल.बी., जबकि एम.एस.डब्ल्यू. का प्रसंस्करण और व्ययन केवल एक से पांच एल.बी. के द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार, एम.एस.डब्ल्यू. का प्रसंस्करण और व्ययन दो प्रतिशत से भी कम स्थानीय निकायों के द्वारा किया जा रहा था। अवधि 2009-14 के दौरान स्थानीय निकायों द्वारा छः प्राचलों के लिये मानदण्डों के अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट-2.11 में दी गयी है।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय निकायों को नोटिस जारी किये जा रहे थे। स्थिति में सुधार के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. स्तर पर निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। क्योंकि, स्थानीय निकाय शासकीय निकाय हैं, इस मुद्दे को सरकार में उचित स्तर पर ध्यान में लाया गया था।

#### 2.1.12 उद्योगों एवं एच.सी.ई. में प्रदूषण के नियंत्रण के लिये अनुवोक्षण

बी.एम.डब्ल्यू., परिसंकटमय अपशिष्ट और सहमति नियमों के अर्न्तगत जारी प्राधिकार और सहमति की विभिन्न शर्तों के अनुपालन के अनुश्रवण के लिये राज्य बोर्ड को प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना अपेक्षित था। सहमति नियम, 1975 के नियम 6 के अनुसार राज्य में प्रदूषण की निरंतर जांच के क्रम में म.प्र.प्र.नि.बो. को एजेंसियों की आकस्मिक जांच और निरीक्षण भी करना था।

उद्योगों और एच.सी.ई. के निरीक्षण के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं थे

म.प्र.प्र.नि.बो. और क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पता चला कि सहमति/प्राधिकार जारी करने और उनके नवीनीकरण के समय उद्योगों तथा एच.सी.ई. का निरीक्षण किया गया था। अवधि 2009-14 के दौरान किए गए आकस्मिक निरीक्षण को दर्शाने वाला कोई अभिलेख नहीं था।

आर.ओ. ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि शिकायत के मामलों, यदि कोई हो, में भी निरीक्षण किये गये थे।

<sup>37</sup> भोपाल (06), धार (11), इन्दौर (51) और जबलपुर (08)।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि यादृच्छिक निरीक्षण के लिये सतर्कता टीम गठित की गई है।

*म.प्र.प्र.नि.बो. उद्योगों और एच.सी.ई. के निरीक्षण के लिये उनके प्रदूषण संभाव्यता के आधार पर निरीक्षण के लिये मानदण्ड तय कर सकता है और उनका अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।*

### 2.1.13 कार्य-नियमावली तैयार न करना

विभागीय नियमावली, विभाग के प्रशासनिक कार्यों से सम्बंधित विस्तृत मार्गदर्शन के लिये स्थायी निर्देश हैं और किसी भी विभाग के सुचारु संचालन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

म.प्र.प्र.नि.बो. ने कार्य-नियमावली तैयार नहीं की थी

हमने पाया कि, विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर बोर्ड को सौंपे गये उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिये, 1974 में स्थापित होने के बावजूद, म.प्र.प्र.नि.बो. ने कोई नियमावली तैयार नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि कार्य-नियमावली तैयार करने के लिये समिति का गठन किया जा चुका है यह शीघ्र ही तैयार किया जाएगा।

*प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के लिये, प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हुए म.प्र.प्र.नि.बो. कार्य-नियमावली तैयार कर सकता है।*

### 2.1.14 जनशक्ति प्रबंधन

म.प्र.प्र.नि.बो. में जनशक्ति की महत्वपूर्ण कमी थी

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, म.प्र.प्र.नि.बो. में विभिन्न श्रेणियों में, परिशिष्ट 2.12 में दर्शाये अनुसार, 303 कर्मचारियों (स्वीकृत पदों का 39 प्रतिशत) की कमी थी। हमने पाया कि सहमति/प्राधिकार और निरीक्षण के लिये जिम्मेदार तकनीकी सेवाओं में कर्मचारियों की कमी 45 प्रतिशत थी जबकि नमूनों के संग्रहण और परीक्षण तथा अनुसंधान कार्यों के लिये जिम्मेदार वैज्ञानिक सेवाओं में कर्मचारियों की कमी 41 प्रतिशत थी। कमी म.प्र.प्र.नि.बो. के कामकाज को विशिष्टतः नमूनों के संग्रहण और परीक्षण तथा निरीक्षणों के संचालन को प्रतिकूलतः प्रभावित करेगी।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

*म.प्र.प्र.नि.बो. के कुशल संचालन के लिये रिक्त पदों को भरा जा सकता है।*

### 2.1.15 निष्कर्ष

पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (म.प्र.प्र.नि.बो.) की कार्यप्रणाली पर्याप्त नहीं थी जैसा कि निम्न से परिलक्षित है:

- उद्योगों तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों को सहमति/प्राधिकार देने में उल्लेखनीय देरी हुई थी। नमूना जांच किये गये क्षेत्रीय कार्यालयों में, 2190 उद्योग, 280 स्थानीय निकाय और 28 निर्माण परियोजनायें जल अधिनियम/वायु अधिनियम के अन्तर्गत या तो सहमति प्राप्त किये बिना या सहमति के नवीनीकरण के बिना कार्य कर रहे थे। 625 उद्योगों में से 76 उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार के नवीनीकरण के बिना कार्य कर रहे थे।

- प्रदूषण स्तर के अनुवीक्षण के लिये उद्योगों से नमूना संग्रहण और परीक्षण के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. ने अपने मानदण्डों का पालन नहीं किया और मानदण्डों से कम लक्ष्य निर्धारित किए थे।

- चयनित आर.ओ. में 32 जिलों में, घरेलू बहिःस्त्राव/जलमल के उपचार के लिये कोई जलमल उपचार संयंत्र नहीं था। नदी के जल की गुणवत्ता 19 स्थानों पर अवनत हुई थी और आठ स्थानों पर सुधार हुआ था।
- 39 स्वीकृत स्टेशनों में से, 14 परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण स्टेशन कार्यात्मक नहीं थे। कार्यात्मक स्टेशनों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के नमूनों में कमी 34 से 95 प्रतिशत के बीच थी।
- सीमेंट संयंत्र वायु प्रदूषकों का अधिक उत्सर्जन कर रहे थे।
- म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा उद्योगों और एच.सी.ई. के निरीक्षण के लिये निर्धारित मानदण्ड के अभाव में प्रदूषण के नियंत्रण का अनुवीक्षण सीमित रहा। जनवरी 2011 में गठित बी.एम.डब्ल्यू. पर शीर्ष समिति की बैठक 2011 में एक बार को छोड़कर कभी नहीं हुई।

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

### 2.2 मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

#### कार्यपालन सारांश

कम कीमत पर जनता के लिये खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये और साथ ही गरीबों के लिये खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) सरकार की आर्थिक रणनीति का एक प्रमुख साधन है। यद्यपि देश में खाद्यान्न के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के साथ निहित है, राज्य सरकार राज्य में पी.डी.एस. के माध्यम से उसके प्रभावी वितरण के लिये जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया गया। राज्य सरकार ने अवधि 2009-14 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न सब्सिडी पर ₹ 2,055 करोड़ व्यय किया था। अवधि 2009-14 के दौरान मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- अवधि 2013-14 के दौरान निधियों के उपयोग में उल्लेखनीय कमी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियाकलापों को प्रभावित किया जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में उचित मूल्य की दुकानों एवं लीड समितियों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति, गोदामों/कवर्ड एण्ड प्लिन्थ भण्डारण के निर्माण एवं आयोडीनयुक्त नमक का वितरण।

(कंडिका 2.2.6.1)

- जारी किये गये बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. राशनकार्डों की संख्या ऐसे परिवारों की संख्या से अधिक थी जो बोगस कार्डों का प्रचलित होना दर्शाता है। शासन ने बोगस राशनकार्डों की पहचान एवं उन्मूलन के लिये पहल की थी। लेकिन सर्वे सूची से बी.पी.एल./ए.ए.वाई. राशनकार्डों का मिलान नहीं किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण समय सीमा में नहीं हुआ था।

(कंडिका 2.2.7.1 से 2.2.7.3)

- विभाग ने 2009-14 की अवधि में 12.44 लाख एम.टी. गेहूं एवं 1.61 लाख एम.टी. चावल वितरण नहीं किया। 6.84 लाख एम.टी. ए.पी.एल. कोटा गेहूं बी.पी.एल. कार्डधारियों के लिये व्यपवर्तन किये जाने से अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

(कंडिका 2.2.8.1 से 2.2.8.2)

- भारी मात्रा में पी.डी.एस. वस्तुयें उचित मूल्य की दुकानों में अवितरित रहने से अवैध व्यपवर्तन हो सकता है।

(कंडिका 2.2.8.4)

- एकल एवं डबल एल.पी.जी. सिलेन्डर रखने वाले कार्डधारकों की पात्रता सुनिश्चित किये बगैर केरोसिन तेल वितरण किया गया था।

(कंडिका 2.2.8.7)

- ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की उल्लेखनीय कमी थी।

(कंडिका 2.2.9)

- कलेक्टर द्वारा उठाव एवं उचित मूल्य की दुकानों में पी.डी.एस. वस्तुओं के निर्गम की मासिक समीक्षा के आयोजन में कमी थी। खाद्यान्न के आवंटन, वितरण की समीक्षा हेतु सतर्कता समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं हुईं।

(कंडिका 2.2.10.2 एवं 2.2.10.3)

### 2.2.1 प्रस्तावना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) द्वारा गरीबों को कम कीमत पर खाद्यान्न के वितरण के लिये उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) के माध्यम से राशनकार्ड धारकों (उपभोक्ताओं) के लिये आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। भारत सरकार(जी.ओ.आई.) द्वारा जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) की शुरुआत की गई थी जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल.) प्रत्येक परिवार को रियायती दरों पर खाद्यान्न जारी किया जाना था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक केन्द्रित कर भारत सरकार ने देश में अतिगरीब लोगों के लिये अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति के लिये अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) को आरम्भ (दिसम्बर 2000) किया था।

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी.एस.सी.एस.सी.) पी.डी.एस. तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरण हेतु राज्य सरकार की ऐजेंसी के रूप में खाद्यान्न का उपार्जन करता है। जी.ओ.आई. के आवंटन से अधिक उपार्जन को भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को प्रदाय किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं, चावल, मोटा अनाज<sup>1</sup>, शक्कर, केरोसीन तेल और नमक बी.पी.एल, ए.ए.वाई एवं गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) परिवारों को वितरित किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क में कुल 22,165 उचित मूल्य की दुकानें ( ग्रामीण: 18,041 एवं शहरी: 4,124) शामिल थीं। मार्च 2014 की स्थिति में, कुल परिवारों की संख्या 161.28 लाख (बी.पी.एल.: 58.20 लाख, ए.पी.एल.: 85.49 लाख, ए.ए.वाय.: 17.59 लाख) थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एन.एफ.एस.ए.)<sup>2</sup> के अनुसार राज्य ने पी.डी.एस. वस्तुओं को मार्च 2014 से पात्र परिवारों के व्यक्तियों यानी प्राथमिकता परिवार (पी.एच.) तथा अन्त्योदय अन्न योजना को देना शुरू किया। मार्च 2014 की स्थिति में, कुल सत्यापित अन्त्योदय अन्न योजना की परिवार संख्या 16.88 लाख एवं प्राथमिकता परिवार संख्या 74.94 लाख थी।

### 2.2.2 संगठनात्मक संरचना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन का समस्त उत्तरदायित्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) विभाग (विभाग) का होता है जिसका शीर्षस्थ अधिकारी प्रमुख सचिव होता है। आवश्यकताओं के आकलन, जिलेवार कोटे के आवंटन एवं कार्यान्वयन ईकाइयों यानि मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को अनुदान/ऋण/सब्सिडी के भुगतान के लिये आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) नोडल अधिकारी हैं।

यह ईकाइयां खाद्यान्न के उपार्जन, उनका भण्डारण तथा म.प्र.स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (एम.पी.एस.डब्ल्यू.एल.सी.) की सहायता से उपभोक्ताओं को वितरण हेतु उत्तरदायी हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (डी.सी.सी.बी.) पी.डी.एस. संचालन हेतु लीड/लिंग समितियों को वित्तीय सहयोग देता है।

जिला आपूर्ति अधिकारी/जिला आपूर्ति नियंत्रकों (डी.एस.ओ./डी.एस.सी.) की सहायता से जिलों के लिये खाद्यान्न की आवश्यकता का आकलन, और एफ.पी.एस. को पुनः

<sup>1</sup> मक्का एवं ज्वार

<sup>2</sup> अधिनियम में जनसाधारण को कम कीमत पर गुणवत्तापरक खाद्य की पर्याप्त मात्रा की पहुंच सुनिश्चित कर खाद्य तथा पौष्टिकता सुरक्षा के लिये प्रावधान किया गया है।

आवंटन के लिये जिला कलेक्टर जिम्मेदार हैं। वे जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के समग्र नियंत्रण एवं निगरानी के लिये उत्तरदायी हैं। ब्लाक स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) राजस्व एवं तहसीलदार क्रमशः उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन तथा राशनकार्ड जारी करने में डी.एस.ओ./डी.एस.सी. की सहायता करते हैं।

### 2.2.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- हितग्राहियों की पहचान और चयन मानदण्डों के अनुसार किया गया था;
- पी.डी.एस. वस्तुओं की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु वितरण व्यवस्था प्रभावी थी; एवं
- उपयुक्त अनुवीक्षण/निरीक्षण तन्त्र के माध्यम से योजना संचालन की विभिन्न क्रियान्वयन इकाइयों पर प्रभावी सतर्कता बरती गयी थी।

### 2.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखा परीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये:

- राशनकार्डों का जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों का संचालन, वितरण, पी.डी.एस. वस्तुओं का आवंटन एवं भंडारण साथ ही साथ निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 (जी.ओ.आई.) तथा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एम.पी.पी.डी.एस.) (नियंत्रण) आदेश, 2009 के प्रावधान।
- हितग्राहियों की पहचान से संबंधित भारत सरकार के दिशा निर्देश।
- राशनकार्ड जारी करने, फर्जी राशनकार्डों को हटाने एवं उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज पर निगरानी संबंधी भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश/निर्देश।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न की निर्गम पैमाना एवं निर्गम दर।
- राज्य शासन एवं जी.ओ.आई नियंत्रण आदेशों एवं अनुदेशों के तहत निर्धारित निगरानी तन्त्र।

### 2.2.5 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

2009-14 की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की नवम्बर 2013 और अगस्त 2014 के मध्य कार्यालय आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.), एम.पी.एस.सी. एस.सी., मार्कफेड, एम.पी.एस.डब्ल्यू.एल.सी. मुख्यालय एवं चयनित जिला कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच एवं एकत्रित किये गये आंकड़ों का विश्लेषण कर समीक्षा की गई। राज्य के 51 जिलों<sup>3</sup> में से 14 जिलों<sup>4</sup> का चयन प्रतिस्थापन पद्धति के बिना यादृच्छिक परिचयन (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) द्वारा किया गया। प्रत्येक चयनित जिले में तीन विकासखण्ड और प्रत्येक विकासखण्ड में चार उचित मूल्य की दुकानों का चयन जिला स्तर पर किया गया।

<sup>3</sup> एक जिला (आगर-मालवा) अगस्त 2013 में बना था।

<sup>4</sup> बड़वानी, भोपाल, धार, इंदौर, कटनी, खण्डवा, खरगौन, रायसेन, रतलाम, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और उज्जैन।



चयनित जिलों में जिला प्रबंधक (डी.एम.) एम.पी.एस.सी.एस.सी., जिला विपणन अधिकारी (डी.एम.ओ.) मार्कफेड के अभिलेखों के साथ-साथ चयनित विकासखण्ड के वेयर हाउस/गोदाम, लीड/लिंक सोसाइटी, थोक विक्रेता और उचित मूल्य की दुकानों के अभिलेखों की भी नमूना जांच की गई। प्रवेश सम्मेलन 21 मई 2014 को विभाग के प्रमुख सचिव के साथ आयोजित किया गया जिसमें लेखा परीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं पद्धति के बारे में चर्चा की गई। निर्गम सम्मेलन 5 नवम्बर 2014 को प्रमुख सचिव के साथ आयोजित किया गया; विभाग के विचारों को समीक्षा में उपयुक्त स्थानों पर उचित रूप से शामिल किया गया।

## लेखा परीक्षा निष्कर्ष

### 2.2.6 वित्तीय स्थिति

#### 2.2.6.1 बजट प्रावधान और व्यय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान किये गये बजट प्रावधानों एवं व्यय तालिका-1 में और घटकवार विवरण परिशिष्ट 2.13 में दिखाया गया है।

तालिका-1: बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	( ₹ करोड़ में )
			बचत (प्रतिशत)
2009-10	619.45	524.44	95.01 (15.34)
2010-11	718.79	692.44	26.35 (3.67)
2011-12	1,143.52	1,120.66	22.86 (2.00)
2012-13	2,029.47	1,972.74	56.73 (2.80)
2013-14	2,303.69	1,844.60	459.09 (19.93)
<b>योग</b>	<b>6,814.92</b>	<b>6,154.88</b>	<b>660.04(9.69)</b>

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बचत (15 प्रतिशत) अवधि 2009-10 में और 2013-14 में (20 प्रतिशत) थी। 2013-14 में धन के उपयोग में कमी मुख्यतः 'सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न के विक्रय में हानि की प्रतिपूर्ति' (₹ 15 करोड़), 'अन्त्योदय अन्न योजना' (₹ 67.81 करोड़), 'कम्प्यूटरीकरण' (₹ 20.50 करोड़), 'अस्थाई रूप से निर्मित कवर्ड एण्ड प्लिन्थ<sup>5</sup> (कैप) भण्डारण में हानि की प्रतिपूर्ति' (₹ 45 करोड़), 'गोदाम निर्माण' (₹ 67 करोड़) एवं 'आयोडीनयुक्त नमक के वितरण' (₹ 42.22 करोड़) घटकों में हुआ था। यह आयुक्त (एफ.सी. एण्ड सी.पी.) द्वारा बजटीय एवं व्यय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने वित्त विभाग द्वारा आहरणों पर प्रतिबंध लगाने एवं समितियों द्वारा दावे प्रस्तुत न किये जाने के कारण बचत होना बताया।

### 2.2.7 हितग्राहियों की पहचान

भारत सरकार ने सितम्बर 2002 में बी.पी.एल. परिवार जो कि सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न गरीबी विरोधी कार्यक्रमों में सहायता प्राप्त कर सकते हैं, के पहचान के लिये एक बेहतर कार्यप्रणाली निर्धारित की थी। इस प्रयोजन के लिये, हितग्राहियों के

<sup>5</sup> खुले में पॉलीथीन से ढका हुआ भण्डारण।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिये और प्रत्येक परिवार के कुल स्कोर गणना के लिये 13 स्कोरेवल संकेतक निर्धारित किये गये थे। जिन परिवारों के 14 प्राप्तांक (13 संकेतक के कुल 52 प्राप्तांक में से) थे वे बी.पी.एल परिवारों के रूप में पहचान किये गये।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों में निर्धारित था कि राज्यों द्वारा इस तरह से बी.पी.एल. परिवारों की पहचान की जा सकती है कि पहचान किये गये कुल हितग्राहियों की संख्या, योजना आयोग द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिये अनुमानित बी.पी.एल. परिवारों की संख्या और उसके 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। राज्य में वर्ष 2002-03 के दौरान बी.पी.एल./ए.ए.वाई. हितग्राहियों की पहचान ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के स्तरों पर की गयी थी और बी.पी.एल सूची इन स्तरों पर प्रदर्शित की गयी थी।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 37.13 लाख के विरुद्ध, फरवरी 2008 में म.प्र.शासन ने भारत सरकार को राज्य में 'कट ऑफ पाइन्ट' के आधार पर 44.59 लाख बी.पी.एल. परिवारों की संख्या सूचित की थी। बी.पी.एल. सूची में नाम शामिल होना एक सतत प्रक्रिया है और मार्च 2014 के अंत में राज्य में बी.पी.एल सर्वे सूची के अनुसार 75.79 लाख बी.पी.एल. परिवार थे।

### 2.2.7.1 राशनकार्ड जारी करना

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के खण्ड 3 के उपबंध एक के प्रावधान अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ए.पी.एल. राशन कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के नामित अधिकारियों<sup>6</sup> द्वारा जारी किये जाते हैं। अप्रैल 2013 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) जनपद पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कार्ड जारी करने के लिये अधिकृत किया गया था। म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधान अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई कार्ड तहसीलदार द्वारा और शहरी क्षेत्रों के लिये डी.एस.ओ./डी.एस.सी. कार्यालय के सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं।

विभाग द्वारा जारी निर्देशों (दिसम्बर 2009) के अनुसार डी.एस.ओ./डी.एस.सी. द्वारा प्रत्येक माह मौजूदा राशन कार्ड का विवरण स्थानीय निकाय के अधिकारियों को सूचित किया जाना था, जिनके द्वारा राशन कार्ड की संख्या, सर्वेक्षण सूची में दर्शाये गये बी.पी.एल. परिवारों की संख्या से अधिक न हो, यह सुनिश्चित करना था। इसके बाद स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा बी.पी.एल./ए.ए.वाई. कार्डों की संख्या आयुक्त (एफ.सी. एण्ड सी.पी.) को प्रत्येक माह सूचित करनी थी। इसके अलावा, आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टरों को फर्जी कार्ड को कम करने के लिये कार्ड जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों की मासिक बैठक उनके अभिलेखों के मिलान हेतु आयोजित करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया (अक्टूबर 2012) गया था।

हमने देखा कि 2009-14 के दौरान राज्य में जारी राशन कार्डों की संख्या बी.पी.एल. परिवारों की संख्या से भिन्न थी, जोकि तालिका-2 में दिखाया गया है।

<sup>6</sup> पंचायत सचिव, नगर पालिका तथा नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगरपालिका निगम क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी/सहायक आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से नगर पालिका आयुक्त।

तालिका-2: बी.पी.एल. परिवार, जारी किये गये बी.पी.एल तथा ए.ए.वाई. राशनकार्ड की संख्या (संख्या लाख में)

वर्ष	बी.पी.एल. परिवार संख्या	जारी किये गये बी.पी.एल एवं ए.ए.वाई. राशनकार्ड की संख्या	आधिक्य(+)/कमी (-)
2009-10	66.57	68.75	(+)2.18
2010-11	66.57	68.78	(+)2.21
2011-12	66.57	70.48	(+)3.91
2012-13	70.90	70.60	(-)0.30
2013-14	70.90	75.79	(+)4.89

(स्रोत: आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

राज्य में बी.पी.एल./ए.ए.वाई. कार्डधारकों की संख्या बी.पी.एल. परिवारों की संख्या से अधिक थी

राज्य में 2009-10 से 2011-12 और 2013-14 में जारी किये गये राशनकार्ड, बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. परिवारों की संख्या से अधिक होना फर्जी कार्ड के प्रचलन का संकेत देता है। 2012-13 के दौरान जिन परिवारों को कार्ड जारी नहीं किये गये, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पाने से वंचित रहे।

नमूना जांच किये गये जिलों में हमने देखा कि अभिलेखों के मिलान के लिए कार्ड जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों की मासिक बैठकें आयोजित नहीं की गईं। इसके अलावा डी.एस.ओ/डी.एस.सी. द्वारा स्थानीय निकायों के अधिकारियों को राशनकार्ड के बारे में जानकारी नहीं भेजी गई थी। स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा कार्ड प्रचलन का मासिक प्रतिवेदन आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) को नहीं भेजा गया। हमने पुनः देखा कि जनगणना 2011 में उल्लेखित परिवारों की तुलना में राज्य में सभी श्रेणियों के 6.64 लाख (चार प्रतिशत) अतिरिक्त राशनकार्ड प्रचलन में थे। चयनित 14 में से पांच जिलों<sup>7</sup> में अतिरिक्त प्रचलन चार से 22 प्रतिशत था। शासन के दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण विसंगतियां थीं।

म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के तहत आवश्यक रूप में राशनकार्ड का डाटाबेस संचालनालय स्तर और जिला स्तर पर संधारित किया जाना था। जिला कलेक्टरों के द्वारा हर साल जारी किये गये राशनकार्डों के 20 प्रतिशत का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाना था। हमने देखा कि राशनकार्डों का डाटाबेस संधारित नहीं किया गया और कलेक्टरों द्वारा राशनकार्डों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड के अभिलेखों एवं सर्वेक्षण सूची के मिलान हेतु जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा।

### 2.2.7.2 फर्जी राशनकार्डों का उन्मूलन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 इंगित करता है कि राज्य सरकार द्वारा फर्जी राशनकार्ड और राशनकार्ड में फर्जी ईकाइयों को हटाने के लिये सतत प्रयास होना चाहिए।

राज्य में अवधि 2009-14 के दौरान 1,06,911 बोगस राशनकार्ड हटाये गये थे। घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) के अभिलेखों की जांच में पता चला कि बोगस राशनकार्ड हटाने के लिये की गई कार्यवाही से सूचित करवाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी (जून 2008) होने के बावजूद, विभाग द्वारा अगस्त 2009 तक पहल नहीं की गई। भारत सरकार द्वारा एक गहन अभियान चलाकर बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. की सूची एवं राशनकार्ड की समीक्षा कर बोगस राशनकार्ड को समाप्त करने के लिये अगस्त 2009 में जारी निर्देशों के उपरान्त ही राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को अभियान

<sup>7</sup> बड़वानी: 54,665 (22 प्रतिशत), धार: 48,495 (11 प्रतिशत), खण्डवा: 50,246 (19 प्रतिशत), रतलाम: 12,988 (चार प्रतिशत) एवं उज्जैन: 41,290 (11 प्रतिशत)।

चलाने हेतु दिशा निर्देश जारी (सितम्बर 2009) किये थे। आयोजित अभियान (2009-11) के दौरान, 70,168 फर्जी राशनकार्ड राज्य में समाप्त किये गये, जैसा आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) ने राज्य सरकार को सूचित (जुलाई 2012) किया था।

पुनः, समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर विज्ञापन के दो सप्ताह के भीतर बोगस राशनकार्ड समर्पण करने हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश (सितम्बर 2010) के संदर्भ में आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) द्वारा सभी कलेक्टर्स को अक्टूबर 2010 में निर्देशित किया गया था तथा दो सप्ताह पूर्ण होते ही अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। विज्ञापन के बाद (अक्टूबर से दिसम्बर 2010), 35,428 बोगस राशनकार्ड समर्पित तथा निरस्त किये गये थे। उज्जैन जिले को छोड़कर, नमूना जांच किये गये जिलों में हमने देखा कि विज्ञापन के दो सप्ताह समाप्ति के बाद राशनकार्ड की पुनः समीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था।

इसके अलावा, जून और अक्टूबर 2012 में आयुक्त ने जिला आपूर्ति अधिकारी और जिला कलेक्टर्स को रेण्डम आधार पर 40 जिलों<sup>8</sup> में से प्रत्येक के एक उचित मूल्य की दुकान के जांच करने हेतु और बी.पी.एल./ए.ए.वाई. राशनकार्ड अभिलेखों को बी.पी.एल. सर्वेक्षण सूची के साथ एवं 2011 जनगणना के अनुमानित परिवारों के साथ कुल राशनकार्ड धारकों को मिलान कर बोगस कार्डधारकों का पता लगाने हेतु निर्देशित किया था। अन्तर होना यदि पाया जाता, तो घर-घर जाकर राशनकार्डधारियों का भौतिक सत्यापन कर पता लगाया जाना था।

रेण्डम जांच के दौरान 1,315 बोगस राशनकार्ड का पता चला और कार्डधारकों से उनके द्वारा पूर्व में लिये गये राशन के लिये ₹ 14.62 लाख की वसूली अवधि 2012-14 के दौरान की गई।

हमने देखा कि केवल चयनित तीन जिलों यथा खण्डवा, सतना एवं सीधी में इस अवधि में राशनकार्डों का मिलान किया जाना पाया गया। हालांकि, उनके द्वारा मिलान के दौरान पाये गये अन्तर को व्यवस्थित करने हेतु घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इस प्रकार राज्य में फर्जी राशनकार्ड के अस्तित्व की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा शासन के निर्देशों के पालन में ढिलाई बरतना तथा आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) के द्वारा निगरानी की कमी को इंगित करता है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा, कि शासन द्वारा फर्जी राशनकार्ड रद्द करने के लिये पर्याप्त प्रयास किया गया था और बोगस राशनकार्ड हटाने के लिये राशनकार्ड की आवधिक जांच करना सुनिश्चित किया जावेगा।

*अपात्र और फर्जी राशनकार्ड हटाने के लिये राशनकार्ड की आवधिक जांच जारी रखा जाना चाहिए।*

### **2.2.7.3 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण में विलम्ब**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु भारत सरकार ने मार्गदर्शिका तैयार की थी एवं राज्य सरकार को कार्य योजना बनाने हेतु निर्देशित (अक्टूबर 2011) किया था। कम्प्यूटरीकरण के प्रथम घटक में शामिल राशनकार्ड/हितग्राही एवं अन्य डाटाबेस के डिजीटाइजेशन, सप्लाइ चैन मनेजमेंट के कम्प्यूटरीकरण, ट्रांसपेरेंसी पोर्टल एवं शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना वर्ष 2012-13 के दौरान की जानी थी तथा दूसरे घटक (उचित मूल्य दुकान स्तर पर संचालनों का कम्प्यूटरीकरण) को वर्ष 2013-14 में पूर्ण किया जाना था।

<sup>8</sup> 10 जिलों को छोड़कर जहां पर पूर्व में जांच की गई थी।

हमने देखा कि राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2013 में प्रस्तावित मांग ₹ 58.51 करोड़ के विरुद्ध जी.ओ.आई. ने ₹ 57.80 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2013) किये थे एवं ₹ 17.34 करोड़ प्रथम घटक के क्रियाकलापों हेतु अवधि 2012-14 के दौरान जारी किये थे। यद्यपि राज्य सरकार ने ₹ 8.55 करोड़ जिलों में राशनकार्डों के डिजीटाइजेशन एवं सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट के लिये हार्डवेयर उपार्जन इत्यादि हेतु वर्ष 2012-13 (₹ 3.11 करोड़) एवं 2013-14 (₹ 5.44 करोड़) में व्यय किया था। जी.ओ.आई. को भेजे गये प्रगति प्रतिवेदन(जुलाई 2014) के अनुसार हितग्राहियों के डिजीटाइजेशन एवं सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट कार्य प्रगति पर था।

इस प्रकार उचित मूल्य की दुकान से राज्य स्तर तक कम्प्यूटरीकरण के लिए जुलाई 2014 तक प्रथम घटक के अंतर्गत क्रियाकलापों का भी कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा कि हितग्राहियों का डिजीटाइजेशन एक सतत प्रक्रिया है एवं 116 लाख परिवारों का डिजीटाइजेशन किया जा चुका है। सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट का कम्प्यूटरीकरण प्रगति पर है।

### 2.2.8 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं का वितरण

खरीद और भारतीय खाद्य निगम से उठाया गया खाद्यान्न, शक्कर कारखानों से उठाई गई शक्कर एवं खुले बाजार से क्रय किया गया नमक, प्राधिकृत नामित एम.पी.एस.सी. एस.सी. द्वारा किराये पर लिये गये वेयरहाउस में रखा गया था। एम.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा पी.डी.एस. वस्तुओं को वेयरहाउस से लीड/लिंग समितियों<sup>9</sup> के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को वितरण के लिये प्रदाय किया गया। आयुक्त (एफ.सी. एण्ड सी.पी.) के आवंटन आदेश के आधार पर तेल कंपनियों द्वारा थोक व्यापारियों को केरोसिन प्रदाय किया गया था। थोक व्यापारियों ने लीड समितियों/अर्द्ध थोक व्यापारियों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को केरोसिन प्रदाय किया था। कार्ड धारकों को पी.डी.एस. वस्तुओं के वितरण हेतु मार्च 2014 की स्थिति में एम.पी.एस.सी.एस.सी. के 189 निर्गम केन्द्र जिले एवं उपजिले स्तर पर, 5,560 लीड समितियां एवं लिंग समितियां और 22,165 उचित मूल्य की दुकानें थी।

भारत सरकार द्वारा त्रैमासिक/वार्षिक आवंटित किये गये पी.डी.एस. वस्तुओं को आयुक्त (एफ.सी. एण्ड सी.पी.) द्वारा जिले के डी.एस.ओ./डी.एस.सी. को मासिक रूप से पुर्नआवंटित किया गया था। डी.एस.ओ./डी.एस.सी. ने विकासखण्डवार/उचित मूल्य की दुकानवार आवंटन आदेश जारी किये थे। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2002 से ए.पी.एल, बी.पी.एल एवं ए.ए.वाय कार्डधारकों के लिये खाद्यान्न का निर्गम पैमाना प्रति कार्डधारक 35 किलोग्राम निर्धारित किया था। मार्च 2008 में राज्य शासन ने बी.पी.एल. परिवारों के लिये खाद्यान्न की मात्रा कम कर 20 किलोग्राम प्रति कार्डधारक को की थी तथा उपभोक्ता कीमत की दरों<sup>10</sup> को घटाया था। राज्य में ए.पी.एल. कार्डधारकों के लिये कोई निश्चित निर्गम पैमाना नहीं था।

हालांकि, राज्य सरकार ने ए.पी.एल. कार्डधारकों के लिये गेहूं एवं चावल का उपभोक्ता मूल्य बढ़ाया<sup>11</sup> (मई 2011) था। शक्कर का वितरण बी.पी.एल. तथा ए.ए.वाय. परिवारों को रियायती दर ₹ 13.50 प्रति किलोग्राम से किया गया था। भारत सरकार की

<sup>9</sup> "लीड सोसाइटी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी जिसे कलेक्टर द्वारा नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं को निर्गम केन्द्र से उठाव करने तथा उसका परिवहन कर अभिहित उचित मूल्य की दुकान को देने हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है। "लिंग समिति" से अभिप्रेत है, कोई प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, लघु वनोपज सहकारी समिति तथा विपणन या थोक उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उचित मूल्य की दुकान चलाये जाने हेतु विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

<sup>10</sup> गेहूं का उपभोक्ता कीमत ₹ 5 से ₹ 3 प्रति किलोग्राम और चावल ₹ 6.50 से ₹ 4.50 प्रति किलोग्राम कम हुआ।

<sup>11</sup> गेहूं का मूल्य ₹ 7 से ₹ 9 प्रति किलोग्राम और चावल ₹ 9.20 से ₹ 11.00 प्रति किलोग्राम बढ़ा।

सब्सिडी (₹ 18.50 प्रति किलोग्राम) से अधिक वित्तीय बोझ राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था। बी.पी.एल./ए.ए.वाय. परिवारों को एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से नमक वितरित किया गया।

2009-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न के निर्गम मूल्य की सब्सिडी पर बी.पी.एल. के लिये ₹ 1,891.14 करोड़ एवं ए.ए.वाय. के लिये ₹ 163.97 करोड़ का व्यय भारत सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी से अधिक किया गया था।

एन.एफ.एस.ए. 2013 लागू होने से, मार्च 2014 से प्राथमिकता परिवारों को प्रति कार्ड प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मान से एवं ए.ए.वाय. कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम के मान से प्रति माह खाद्यान्न जारी किया जाना था। राज्य स्तर से उचित मूल्य की दुकान तक पी.डी.एस. वस्तुओं का रेखांकित प्रवाह रेखाचित्र में दर्शाया गया है (परिशिष्ट 2.14)।

पी.डी.एस. वस्तुओं का आवंटन, उठाव, वितरण एवं हथालन (handling) में पाई गई कमियों पर आगामी कड़िकाओं में चर्चा की गई है

### 2.2.8.1 बी.पी.एल. हितग्राहियों के लिये ए.पी.एल. कोटे गेहूं का व्यपवर्तन

पी.डी.एस.(नियंत्रण) आदेश, 2001 प्रावधानित करता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत सरकार द्वारा किये गये आवंटन को राज्य सरकार द्वारा अन्य योजनाओं में वितरण करने के लिये व्यपवर्तन नहीं करना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या 75.79 लाख पहचान (मार्च 2014) की गई थी। हालांकि, भारत सरकार द्वारा केवल 41.25 लाख बी.पी.एल. परिवारों<sup>12</sup> के लिये खाद्यान्न आवंटित किया गया था। आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) द्वारा आवंटित किये गये खाद्यान्न के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने देखा कि, 6.84 लाख एम.टी. ए.पी.एल. कोटे के गेहूं बी.पी.एल. परिवारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये व्यपवर्तन किया गया था। नतीजतन, वर्ष 2009-14 के दौरान व्यपवर्तन किये गये कुल खाद्यान्न की मात्रा के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सी.आई.पी.)<sup>13</sup> और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई उपभोक्ता राशि की दशा में ₹ 507.96 करोड़<sup>14</sup> का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ा। इस प्रकार ए.पी.एल. कोटे के गेहूं का व्यपवर्तन कर भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि बी.पी.एल. में कम आवंटन होने के वजह से ए.पी.एल. कोटे के गेहूं का व्यपवर्तन किया गया एवं अधिक वित्तीय बोझ राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया।

### 2.2.8.2 गेहूं एवं चावल के वितरण में कमी

भारत सरकार द्वारा गेहूं एवं चावल का आवंटन तथा राज्य सरकार द्वारा एम.पी.एस.सी. एस.सी. के माध्यम से वितरण, अवधि 2009-14 के दौरान निम्न प्रकार था:


<sup>12</sup> योजना आयोग (जी.ओ.आई.) के द्वारा गणना की गई संख्या अनुसार।

<sup>13</sup> पी.डी.एस. के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु जी.ओ.आई. द्वारा अधिसूचित किये गये कीमत।

<sup>14</sup> सी.आई.पी. में अंतर ₹ 1,950 प्रति एम.टी. (₹ 6,100 ए.पी.एल. गेहूं के लिये - ₹ 4,150 बी.पी.एल. गेहूं के लिये) × 6,83,873 एम.टी. = ₹ 13,335.52 लाख + राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मूल्य में अंतर ₹ 37,460.60 लाख (2009-11, ₹ 4,000 प्रति एम.टी. × 2,80,806 एम.टी. = ₹ 11,232.24 लाख + 2011-13, ₹ 6,000 प्रति एम.टी. × 2,77,800 एम.टी. = ₹ 16,668.00 लाख + 2013-14, ₹ 6,000 प्रति एम.टी. × 23,050 एम.टी. = ₹ 1,383 लाख + ₹ 8,000 प्रति एम.टी. × 1,02,217 एम.टी. = ₹ 8,177.36 लाख)।

ए.पी.एल. काटे में 6.84 लाख एम.टी. गेहूं के बी.पी.एल. कार्डधारियों के लिये व्यपवर्तन से ₹ 507.96 करोड़ अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा

## गेहूं एवं चावल का आवंटन एवं वितरण (लाख मैट्रिक टन में)



अवधि 2009–14 के दौरान विभाग ने 12.44 लाख एम.टी. गेहूं और 1.61 लाख एम.टी. चावल वितरित नहीं किया।

भारत सरकार के आवंटन के विरुद्ध राज्य द्वारा गेहूं वितरण का प्रतिशत, 97 प्रतिशत (2009–10) एवं 86 प्रतिशत (2011–12) के मध्य था। चावल वितरण का प्रतिशत, शत प्रतिशत (2009–10) एवं 85 प्रतिशत (2013–14) के मध्य था। विभिन्न श्रेणी के कार्डधारियों के लिये जी.ओ.आई. आवंटन के विरुद्ध खाद्यान्न वितरण का विवरण परिशिष्ट 2.15 में दर्शाया गया है।

विभिन्न श्रेणी के कार्डधारियों के लिये जी.ओ.आई. आवंटन के विरुद्ध गेहूं एवं चावल का वितरण 2009–14 की अवधि में तालिका-3 में दर्शाया गया है

तालिका-3: ए.पी.एल./बी.पी.एल./ए.ए.वाई. कार्डधारियों को जी.ओ.आई. आवंटन के विरुद्ध गेहूं एवं चावल का वितरण

वर्ष	श्रेणी	(लाख मैट्रिक टन में)					
		ए.पी.एल.		बी.पी.एल.		ए.ए.वाई.	
		वस्तुएं	आवंटन	वितरण (प्रतिशत)	आवंटन	वितरण (प्रतिशत)	आवंटन
2009–10	गेहूं	9.33	8.65(93)	11.48	11.48(100)	5.60	5.60(100)
	चावल	0	0	1.19	1.19(100)	1.04	1.04(100)
2010–11	गेहूं	10.98	7.35(67)	10.01	10.92(109)	5.60	5.49(98)
	चावल	0.66	0.33(50)	3.54	3.54(100)	1.04	1.02(98)
2011–12	गेहूं	9.99	6.33(63)	12.74	12.95(102)	5.92	5.46(92)
	चावल	0.19	0	3.88	3.93(101)	1.16	1.01(87)
2012–13	गेहूं	10.04	6.90(69)	12.95	14.20(110)	6.23	5.94(95)
	चावल	0	0	3.68	3.36(91)	1.16	1.11(96)
2013–14	गेहूं	9.20	5.95(65)	9.78	10.34(106)	5.14	5.14(100)
	चावल	0	0	2.73	2.15(79)	0.95	0.94(99)

(स्रोत: एम.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा दी गई जानकारी)

तालिका से यह सिद्ध होता है कि जी.ओ.आई. आवंटन के विरुद्ध ए.पी.एल. गेहूं का वितरण 63 से 93 प्रतिशत के मध्य था। अवधि 2010–11 से 2013–14 के दौरान बी.पी.एल. गेहूं का वितरण आवंटन से अधिक था। ए.ए.वाई. गेहूं का 92 से शत प्रतिशत और चावल का 87 से शत प्रतिशत के मध्य वितरण था।

एन.एफ.एस.ए. 2013 के अंतर्गत हितग्राहियों को माह मार्च 2014 में आवंटन के विरुद्ध 92 प्रतिशत गेहूं और 91 प्रतिशत चावल प्रदाय किया गया।

एम.पी.एस.सी.एस.सी. ने गेहूं एवं चावल के वितरण में कमी के कारण नहीं बताये।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने ए.पी.एल. कार्डधारकों को खाद्यान्न का कम वितरण, बाजार मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में कम अंतर के कारण उपभोक्ताओं द्वारा नहीं पहुंचने को जिम्मेदार ठहराया।

ए.पी.एल. कार्डधारकों को खाद्यान्न का कम वितरण करने का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ए.पी.एल. गेहूं बी.पी.एल. कार्डधारकों को संचालनालय स्तर पर व्यपवर्तित किया गया और ए.पी.एल. कार्डधारकों को कम मात्रा में गेहूं का आवंटन किया गया।

गरीबों के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवंटित पी.डी.एस. वस्तुओं की पूरी मात्रा उठाव करने के लिये प्रयास किया जाना चाहिए।

### 2.2.8.3 लीड समितियों को वितरण हेतु कम दरों पर गेहूं का विक्रय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एम.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा केरोसीन को छोड़कर अन्य वस्तुओं का शासन द्वारा निर्धारित दरों पर लीड/लिनक समितियों को विक्रय किया जाता है तथा इन समितियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों को उनके लिये निर्धारित विक्रय दरों पर वस्तुओं का विक्रय किया जाता है।

लीड समितियों को कम दरों पर गेहूं की बिक्री होने से ₹ 1.78 करोड़ की हानि हुई

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2010) लागत पत्रक<sup>15</sup> के अनुसार लीड समितियों के लिये तदर्थ/अतिरिक्त गेहूं का बिक्री मूल्य शहरी क्षेत्रों के लिये ₹ 930 प्रति क्विंटल एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ₹ 921 प्रति क्विंटल था। अक्टूबर 2010 में दरें संशोधित कर कमशः ₹ 963 एवं ₹ 957 की गयी थीं। हालांकि यह स्पष्ट किया गया (अक्टूबर 2010) था कि यदि गेहूं पुरानी दरों पर वितरित कर दिया गया हो, तो दरों में अंतर संबंधित लीड समितियों से वसूल किया जाना चाहिये।

हमने पाया कि नमूना जांच किये गये जिलों में एम.पी.एस.सी.एस.सी. ने 87,902 एम.टी. आवंटन के खिलाफ, 51,479 एम.टी. गेहूं (शहरी 24,442 एम.टी. और ग्रामीण 27,037 एम.टी.) संशोधित दरों के स्थान पर पुरानी दरों से लीड समितियों को बिक्री किया था। कम दरों पर बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 1.78 करोड़ की हानि हुई (परिशिष्ट 2.16)।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा कि लीड समितियों से वसूली करने के लिये निर्देश जिला कार्यालयों को जारी कर दिये गये हैं।

### 2.2.8.4 उचित मूल्य की दुकान में पीडीएस वस्तुओं का अवितरित रहना

भारी मात्रा में पी.डी.एस. वस्तुओं का उचित मूल्य की दुकान स्तर पर अवितरित रहने से अवैध व्यपवर्तन हो सकता है

म.प्र. पी.डी.एस. (नियंत्रण) आदेश, 2009 प्रावधानित करता है कि डी.एस.ओ./डी.एस.सी. को उचित मूल्य की दुकान पर पिछले महीने की शेष मात्रा को घटाने के बाद उचित मूल्य की दुकान को वस्तुओं का आवंटन करना चाहिये। लेकिन, डी.एस.ओ./डी.एस.सी. द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर पिछले महीने के अंतिम स्टॉक को हिसाब में न लेते हुए खाद्यान्न आवंटित किया गया। नमूना जांच किये गये नौ जिलों में आवंटन एवं उचित मूल्य की दुकान द्वारा किये गये वितरण का मासिक प्रतिवेदन (एम-1) में देखा गया कि 31 मार्च 2014 की स्थिति में, उचित मूल्य की दुकान स्तर पर 3,693 किलो लीटर (के.एल.) केरोसिन और 20,971 एम.टी. खाद्यान्न/शक्कर तथा नमक मूल्य ₹ 10.56 करोड़ अवितरित पड़ा था (परिशिष्ट 2.17)। इनमें 1,575 एम.टी., ए.पी.एल. खाद्यान्न शामिल था जो एन.एफ.एस.ए. 2013 लागू होने से वितरित नहीं किया गया था।

भारी मात्रा में पी.डी.एस. वस्तुओं का स्टाक उचित मूल्य की दुकान स्तर पर अवितरित रहने से रियायती वस्तुओं का अवैध व्यपवर्तन हो सकता है।

<sup>15</sup> लीड समितियों और उपभोक्ताओं के लिये निर्धारित बिक्री मूल्य दर्शाने वाला पत्रक।



निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि अवितरित ए.पी.एल. स्टॉक 4,181.7 एम.टी. का आवंटन ए.पी.एल. दर पर कैंदियों के लिये कारागारों को किया गया और वर्तमान में संचालनालय स्तर से खाद्यान्न का आवंटन उचित मूल्य की दुकान पर बचे मात्रा को समायोजित करते हुए जारी किया जा रहा है।

### 2.2.8.5 पी.डी.एस. के लिये क्षतिग्रस्त/निम्न गुणवत्ता का चावल स्वीकार करना

भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट चावल की गुणवत्ता पी.डी.एस. में वितरण से पहले सुनिश्चित की जानी थी। डी.एम., एम.पी.एस.सी.एस.सी. खण्डवा के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया कि रैक मूवमेन्ट प्लान(मालगाड़ी से) के अनुसार जबलपुर से 49,756 बैग (24,224.84 क्विंटल) चावल केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) खण्डवा में फरवरी 2013 में प्राप्त हुआ। प्रबंधक सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा (फरवरी 2013) डी. एम. खण्डवा को सूचित किया गया था कि प्राप्त 250 बैग चावल पानी से प्रभावित, क्षतिग्रस्त स्टॉक और 215 बैग में कोयला, सीमेन्ट और धूल मिला हुआ चावल है जो कि मानव उपभोग के लिये उपयोगी नहीं था। चूंकि, वैगन को बिना साफ किये एवं फर्श पर पॉलिथीन बिछाये बिना चावल के बैगों को रखा गया था। जिला प्रबंधक, खण्डवा द्वारा भी डी.एम. जबलपुर को निम्नतर गुणवत्ता के चावल प्राप्ति के संबंध में सूचित (फरवरी 2013) किया गया था तथा ₹ 4.24 लाख मूल्य के 465 बैग (229.80 क्विंटल) चावल स्वीकार किया गया।

इसी प्रकार, दिसम्बर 2013 में रैक मूवमेन्ट के तहत सी.डब्ल्यू.सी. खण्डवा में प्राप्त 161 बैग (70.78 क्विंटल) चावल मूल्य ₹ 1.38 लाख सीमेन्ट मिश्रित होना पाया गया। जिला प्रबंधक खण्डवा द्वारा कहा गया (मई 2014) कि मुख्यालय स्तर पर निम्नतर गुणवत्ता के चावल के निपटान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा कि आवश्यक कार्यवाही करने के बाद लेखा परीक्षा को सूचित किया जावेगा।

### 2.2.8.6 शक्कर कारखानों द्वारा शक्कर आपूर्ति न किया जाना

शक्कर के आवंटन और उठाव के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि म.प्र. के पांच शक्कर कारखानों को भारत सरकार द्वारा पी.डी.एस. के तहत 3,936.6 एम.टी. अवधि जून से अगस्त 2012 के लिये प्रदाय करने हेतु निर्देशित (अप्रैल से जून 2012) किया गया था। 2,746.40 एम.टी. की लेवी शक्कर कम प्रदाय होने से, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्कर जब्त करने और आवश्यक वस्तु (ई.सी.) अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी (जनवरी एवं जून 2013) किये गये थे। अगस्त 2014 की स्थिति में चार कारखानों द्वारा 2,398.40 एम.टी. शक्कर की आपूर्ति नहीं की गई।

इसी तरह, 12 शक्कर कारखानों द्वारा 23,114.40 एम.टी. शक्कर की कम आपूर्ति संबंधी एम.पी.एस.सी.एस.सी. के प्रतिवेदन (अप्रैल 2013) के आधार पर भारत सरकार द्वारा संबंधित शक्कर कारखानों के स्टॉक जब्त करने के लिये निर्देश जारी (अप्रैल 2013) किये गये थे। अगस्त 2014 की स्थिति में, म.प्र. के चार कारखानों (328.90 एम.टी.) और महाराष्ट्र के आठ कारखानों (11,671.72 एम.टी.) द्वारा 12,000.62 एम.टी. शक्कर की कम आपूर्ति की गई।

जिले के अधिकारियों द्वारा शक्कर जब्ती के लिये की गई कार्यवाही दिखाने के लिये कोई अभिलेख नहीं था।

शक्कर कारखानों द्वारा शक्कर प्रदाय न करने से गरीबों को शक्कर वितरण किया जाना प्रभावित हुआ।

2012-14 अवधि में 14,399 एम.टी. शक्कर प्रदाय न करने वाले चूककर्ता शक्कर कारखानों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि संबंधित शक्कर कारखानों से शक्कर प्रदाय न करने के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी जिला कलेक्टरों से प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा को सूचित किया जायेगा।

### 2.2.8.7 केरोसिन तेल का वितरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बी.पी.एल. कार्डधारियों के लिये प्रति माह पांच लीटर एवं ए.पी.एल. कार्डधारियों के लिये चार लीटर केरोसीन पाने की पात्रता है, यदि इनके पास तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) कनेक्शन न हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एल.पी.जी. डबल बॉटल कनेक्शन (डी.बी.सी.) कार्डधारकों को केरोसीन पाने की पात्रता नहीं थी एवं सिंगल बॉटल कनेक्शन (एस. बी.सी.) कार्डधारकों को पात्रता से आधा प्राप्त होगा। इसके अलावा जिला कलेक्टरों को शासन द्वारा जारी किये गये निर्देश अनुसार अपात्र कार्डधारकों को केरोसीन के वितरण को रोकने के लिये डी.बी.सी. या एस.बी.सी. के रूप में राशन कार्ड में मुहर लगी होनी चाहिये।

केरोसीन का वितरण दो/एक एल.पी.जी. सिलेंडर रखने वाले कार्डधारकों के लिये प्रतिबंधित नहीं किया गया

हमने देखा कि मार्च 2014 की स्थिति में 35.01 लाख डी.बी.सी. और 35.03 लाख एस. बी.सी. थे। हालांकि, एक या दो एल.पी.जी. सिलेंडरों वाले कार्डधारकों के बारे में और मुहर लगी या बिना मुहर लगी राशन कार्ड की जानकारी संचालनालय में उपलब्ध नहीं थी। नमूना जांच किये गये 14 जिलों में से, छः<sup>16</sup> के पास गैस कनेक्शनों की जानकारी थी। केवल खरगौन जिले के पास मुहर लगी/मुहर नहीं लगी कार्डधारकों की जानकारी थी। हालांकि, सभी डी.एस.ओ./डी.एस.सी. ने कार्डधारकों की वास्तविक पात्रता सुनिश्चित किये बगैर केरोसीन आवंटित किया था। परिणामस्वरूप, डी.बी.सी. कार्डधारकों एवं सिंगल कनेक्शन धारकों को उनकी पात्रता से अधिक केरोसीन के वितरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि तेल कंपनियों से एल.पी.जी. कनेक्शन धारकों का डाटा प्राप्त किया गया है एवं परिवारों की पात्रता के अनुसार केरोसीन का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

शासन को अपात्र कार्ड धारकों को केरोसीन की आपूर्ति को खत्म करने के लिये राशन कार्ड में एल.पी.जी. कनेक्शन विवरण के मुद्रांकन में तेजी लाने की जरूरत है।

### 2.2.8.8 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयोडिन मात्रा को सुनिश्चित किये बिना नमक का वितरण

नमूना जांच किये गये जिलों में निर्धारित आयोडीन मात्रा को सुनिश्चित किये बगैर नमक वितरित किया गया

आयुक्त (एफ.सी. एण्ड सी.पी.) ने 89 आदिवासी विकास खण्डों में प्रत्येक परिवार को प्रति किलोग्राम 1 रूपये के मान से प्रति माह नमक वितरण हेतु निर्देश जारी (नवम्बर 2006) किये थे। मई 2013 में, विभाग ने ए.पी.एल. कार्डधारकों को छोड़कर सभी जिलों में नमक वितरण करने का निर्णय किया। अवधि 2009-14 के दौरान 2.10 लाख एम.टी. नमक आवंटन के विरुद्ध 1.68 लाख एम.टी. (80 प्रतिशत) वितरित किया गया था। नमूना जांच किये गये जिलों में 0.74 लाख एम.टी. में से 0.66 लाख एम.टी. नमक अवधि 2009-14 के दौरान वितरित हुआ।

एम.पी.एस.सी.एस.सी. ने प्रीवेन्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट (पी.एफ.ए.एक्ट) 1954 में निर्धारित 30 पी.पी.एम. आयोडिन मात्रा नमक में सुनिश्चित करने हेतु कार्डधारकों को वितरण हेतु नमक में से रेण्डम सेम्पल लेकर जांच किट के माध्यम से आयोडीन की मात्रा की नियमित जांच हेतु निर्देश जारी (फरवरी 2008) किये थे। जिला प्रबंधक एवं खाद्य नियंत्रक के प्रतिनिधि के माध्यम से संयुक्त रूप से रेण्डम सेम्पल माह में दो बार

<sup>16</sup> धार, खण्डवा, खरगौन, सतना, सीधी और उज्जैन।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि को भेजना थे। विश्लेषण प्रतिवेदन एम.पी.एस.सी.एस.सी. मुख्यालय को भेजा जाना था। नमूना जांच किये गये 13 जिलों में पाया गया कि नमक का कोई भी सेम्पल नहीं लिया गया था और प्रयोगशाला को विश्लेषण हेतु नहीं भेजा गया था। यह प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किये गये नमक में आयोडीन की मात्रा को सुनिश्चित किये बगैर पी.डी.एस. में वितरित होना इंगित करता है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कमी को ए.पी.एल. हितग्राहियों द्वारा क्रय न करने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता जांच किट प्रदाय किये जायेंगे एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिलों को निर्देश जारी किये जायेंगे।

### 2.2.9 लीड समितियों और उचित मूल्य की दुकानों का कार्यकलाप

सभी लीड समितियां और उचित मूल्य की दुकानें जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत हैं, सहकारी समितियों द्वारा चलायी जा रही हैं। उचित मूल्य की दुकानों का संचालन मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 में निर्धारित प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हर ग्राम पंचायत (जी.पी.) में एक उचित मूल्य की दुकान होना चाहिए, दूसरी उचित मूल्य की दुकान वहाँ खोली जा सकेगी जहां कार्डधारकों के लिये तीन किलोमीटर के भीतर उचित मूल्य की दुकान नहीं है और कम से कम 200 कार्डधारक हों। शहरी क्षेत्रों में हर 5,000 की आबादी के लिये एक उचित मूल्य की दुकान होना चाहिए।

ब्लाक स्तर पर उचित मूल्य की दुकान का आवंटन एस.डी.ओ. (राजस्व) द्वारा जिला मुख्यालय पर डी.एस.ओ. द्वारा किया जाता है। एफ.पी.एस. के लिये आवंटन किये गये खाद्यान्न का एफ.पी.एस.स्तर पर सतर्कता समिति के दो सदस्यों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और एफ.पी.एस. द्वारा आवंटन एवं वितरण की मासिक रिपोर्टिंग आगामी माह के सातवीं तारीख तक लीड समितियों को भेजा जाना था।

मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, राज्य में 2.01 करोड़ शहरी आबादी (40.13 लाख परिवार) के लिये 4,124 उचित मूल्य की दुकानें शहरी क्षेत्रों में थी। इसी प्रकार 23,006 ग्राम पंचायतों में 1.11 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिये 18,041 उचित मूल्य की दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में थी।

नमूना जांच किये गये जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में 982 उचित मूल्य की दुकानों एवं शहरी क्षेत्रों में 295 उचित मूल्य की दुकानों की कमी थी

नमूना जांच किये गये जिलों में हमने पाया कि, ग्रामीण क्षेत्रों में 982 उचित मूल्य की दुकानों और शहरी क्षेत्रों में 295 उचित मूल्य की दुकानों की कमी थी। जिले-वार विवरण **परिशिष्ट 2.18** में दिया गया है। नमूना जांच की गई 168 उचित मूल्य की दुकानें तथा 54 लीड/लिंक समितियों में हमने म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 में विहित नियम और शर्तों के अनुपालन न होने का दृष्टान्त पाये जो कि **परिशिष्ट 2.19** और **2.20** में दिखाये गये हैं। महत्वपूर्ण आक्षेप निम्नानुसार है:

- प्राप्त पी.डी.एस. वस्तुओं का भौतिक सत्यापन सतर्कता समितियों के सदस्यों द्वारा 146 उचित मूल्य की दुकानों में नहीं किया गया।
- 2009-14 की अवधि में 133 उचित मूल्य की दुकानों द्वारा रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया।
- कोई भी उचित मूल्य की दुकान ने बेचे जाने वाले खाद्यान्न का सीलड सेम्पल प्रदर्शित नहीं किया था।
- पचपन उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता ने सूचित किया कि वे एक सप्ताह में छः दिन से कम दुकान खोलते हैं।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने कहा कि कम परिवार संख्या वाली पंचायतों में आर्थिक व्यवहार्यता के कारण उचित मूल्य की दुकान संचालित करने में सक्षम नहीं होने की वजह से प्रत्येक पंचायत में उचित मूल्य की दुकान संचालित नहीं की जा सकी है और द्वार प्रदाय प्रणाली पूरे राज्य में लागू करने के बाद ही कमियों का निराकरण हो जायेगा।

### 2.2.9.1 लीड समितियों और उचित मूल्य की दुकान को हानि की प्रतिपूर्ति न होना

लीड समितियों एवं उचित मूल्य की दुकान को राशि ₹ 8.51 करोड़ को हानि की प्रतिपूर्ति न होना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति लीड समितियों एवं उचित मूल्य की दुकान को करने के लिये सहकारिता विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने दरें निर्धारित (सितम्बर 2000) की थीं। उचित मूल्य की दुकानों को प्रतिपूर्ति राशि प्रति उचित मूल्य की दुकान प्रति वर्ष ₹ 6,500 और लीड समिति के लिये यह ₹ 1.00 लाख या उनके व्यवसायिक लेनदेन का एक प्रतिशत जो भी कम हो निर्धारित किया गया। आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 29 जिलों में 220 लीड समितियों को (₹ 2.13 करोड़) एवं 30 जिलों में 10,102 उचित मूल्य की दुकानों को (₹ 6.38 करोड़) अवधि 2006-13 के दौरान राशि ₹ 8.51 करोड़ हानि की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी थी, यद्यपि इस उद्देश्य के लिये ₹ 15 करोड़ 2013-14 के दौरान प्रावधानित थे।

आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) ने वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाने से भुगतान न होना बताया (मई 2014)।

### 2.2.10 निगरानी एवं सर्तकता तंत्र

#### 2.2.10.1 पी.डी.एस. वस्तुओं के परिवहन वाहन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम<sup>17</sup> (जी.पी.एस.) का परिचालन

राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 में संशोधन (जनवरी 2012) किया और जिला कलेक्टर और प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.सी.एस.सी. को छः माह के भीतर पी.डी.एस. वस्तुओं के परिवहन में लगे सभी वाहनों में जी.पी.एस. उपकरण संस्थापित करने हेतु निर्देशित (फरवरी 2012) किया। पुनः, एक संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई जनहित याचिका के उत्तर में सरकार ने मार्च 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि जी.पी.एस. उपकरण की संस्थापना का कार्य प्रगति पर था।

आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि म.प्र.राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.एस.ई.डी.सी.) को जिले स्तर पर वाहन मालिकों द्वारा लगाये गये जी.पी.एस. उपकरणों की निगरानी के लिये साफ्टवेयर विकसित करना था। आयुक्त ने अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 के मध्य ₹ 1.22 करोड़ का भुगतान एम.पी.एस.ई.डी.सी. को किया। हालांकि, आयुक्त द्वारा बताया गया (अगस्त 2014) कि मुख्यमंत्री के साथ 23 मई 2014 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जी.पी.एस. प्रणाली को न अपनाने के लिए निर्णय लिया गया।

<sup>17</sup> रेडियो तरंगों पर आधारित मार्ग-निर्देशन की ऐसी प्रणाली है जिससे भूमि, समुद्र और वायु वाहित में इस्तेमाल करने वाली विश्व के किसी भी भाग में, सभी मौसम में उसकी स्थिति, वेग(गति) और दिन के 24 घंटे की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

इस प्रकार, जी.पी.एस. के माध्यम से परिवहन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के लीकेज एवं व्यपवर्तन की निगरानी के उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए। शपथ पत्र के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिले का पालन नहीं किया गया।

### 2.2.10.2 वितरण एजेसियों का निरीक्षण

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 के खण्ड आठ के अनुसार, जिले का कलेक्टर खाद्य, सहकारिता और राजस्व विभाग के कार्यपालिक अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों की तीन माह में कम से कम एक बार निरीक्षण एवं लीड समितियों का एक माह में कम से कम दो बार निरीक्षण हेतु रोस्टर तैयार करेगा। कलेक्टर प्रतिमाह उठाव एवं उचित मूल्य की दुकान को आपूर्ति किये जाने वाले पी.डी.एस. सामग्री की समीक्षा करेगा।

नमूना जांच किये गये जिलों में, हमने पाया कि उचित मूल्य की दुकानों एवं लीड समिति के निरीक्षण हेतु रोस्टर क्रमशः छः<sup>18</sup> जिलों और एक जिला (खरगौन) में तैयार किया गया। इसके अलावा केवल पांच<sup>19</sup> नमूना जांच किये गये जिलों में कलेक्टर द्वारा मासिक समीक्षा की गई। आयोजित समीक्षा का प्रतिवेदन भी संधारित नहीं किया गया। तथापि संचालनालय में जिलों में किये गये निरीक्षण संबंधी कोई जानकारी नहीं थी।

आगे, हमने देखा कि एम.पी.एस.सी.एस.सी. मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा जिला कार्यालयों के निरीक्षण में 2009-10 से 2013-14 के दौरान निर्धारित रोस्टर/मानदंड की तुलना में 25 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कमी थी। जिला प्रबंधक द्वारा किये गये निरीक्षण का मासिक प्रतिवेदन एम.पी.एस.सी.एस.सी. मुख्यालय को निरन्तर नहीं भेजे जाने से जिला प्रबंधकों द्वारा वास्तव में किये गये निरीक्षण एम.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा सुनिश्चित नहीं किये गये। यह जिलों के अधिकारियों द्वारा की गयी पी.डी.एस. गतिविधियों पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। एम.डी., एम.पी.एस.सी.एस.सी. ने बताया कि मुख्यालय में कर्मचारियों की कमी थी।

साथ ही, विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों में निरीक्षण के दौरान पी.डी.एस. वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल एवं केरोसीन इत्यादि के भण्डार में दुर्विनियोजन/कमी पाई गयी। निर्धारित अभिलेख जैसे स्टॉक पंजी, विक्रय पंजी निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं था। विवरण परिशिष्ट 2.21 में दिखाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण एवं निगरानी को शिकायत निवारण तंत्र एवं अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण द्वारा मजबूत किया जायेगा।

*अपात्र व्यक्तियों को वस्तुओं का वितरण एवं खाद्यान्न का व्यपवर्तन, यदि हो, को रोकने के लिये विभाग को उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज पर निरीक्षण तंत्र को मजबूत करना चाहिए।*

### 2.2.10.3 सतर्कता समिति की बैठकों का आयोजन

राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समिति (वी.सी.)<sup>20</sup>के गठन एवं बैठक के आयोजन हेतु फरवरी 2004 में अनुदेश जारी किये थे। जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठक और ब्लाक एवं उचित मूल्य की दुकान स्तर पर मासिक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये।

<sup>18</sup> धार, खण्डवा, खरगौन, रायसेन, रतलाम और सतना।

<sup>19</sup> खण्डवा, रीवा, सतना, सीधी और उज्जैन।

<sup>20</sup> विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष, सदस्य सचिव और अन्य सदस्य, उचित मूल्य की दुकान स्तर पर अध्यक्ष, समन्वयक तथा अन्य सदस्य।

उचित मूल्य की दुकान स्तर पर निगरानी समिति के गठन में कमी रही एवं सभी स्तरों पर आवश्यक संख्या में बैठकें आयोजन नहीं की गईं

हमने पाया कि राज्य स्तरीय वी.सी मई 2009 में गठित की गईं और 2009-14 के दौरान प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली चार बैठकों के विरुद्ध केवल दो बैठकें आयोजित की गईं। 301 उचित मूल्य की दुकानों में (7,259 में से) सतर्कता समितियां गठित नहीं की गईं और बैठकें नियमित आयोजित नहीं की गईं जो परिशिष्ट 2.22 में दिखाया गया है। उचित मूल्य की दुकान स्तर पर 47 प्रतिशत, ब्लाक स्तर पर 48 प्रतिशत और जिला स्तर पर 58 प्रतिशत बैठकों में कमी पाई गई। यह भी देखा गया कि जिला प्राधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने से समीक्षा अवधि में वी.सी. से संबंधित जानकारी भारत सरकार को नहीं भेजी गई।

संचालनालय ने इस उद्देश्य के लिए विकसित आनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मासिक प्रतिवेदन भेजने के लिये निर्देश जारी (मार्च और अक्टूबर 2009) किये। हमने पाया कि डी.एस.ओ./डी.एस.सी. द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आयुक्त (एफ.सी. एण्ड सी.पी.) स्तर पर संकलित नहीं किये गये। आयुक्त ने बताया (अगस्त 2014) कि जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन भविष्य में संकलित किये जायेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से निगरानी की गयी थी।

इस प्रकार, सभी स्तरों पर निगरानी और सतर्कता समिति अप्रभावी थी और पी.डी.एस. के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण/निरीक्षण ढीला था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि एन.एफ.एस.ए. 2013 के अधीन नई वी.सी. के गठन के पश्चात वी.सी. की नियमित बैठकें होना सुनिश्चित किया जायेगा।

*विभाग को सभी स्तरों पर खाद्यान्न वितरण की निगरानी हेतु सतर्कता समितियों के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए।*

### 2.2.11 निष्कर्ष

- जारी किये गये बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. कार्डों की संख्या उनके परिवारों की संख्या से अधिक होना बोगस कार्ड जारी होना इंगित करता है। यद्यपि विभाग ने 1.07 लाख बोगस राशनकार्ड 2009-14 की अवधि के दौरान पहचान एवं उन्मूलित किये थे, परन्तु बी.पी.एल./ए.ए.वाई. राशनकार्ड को सर्वे सूची से एवं कुल राशन कार्डधारियों को 2011 जनगणना के अंतर्गत अनुमानित परिवारों के साथ मिलान न किये जाने से किये गये प्रयास प्रभावी नहीं थे।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में टी.पी.डी.एस. का कम्प्यूटरीकरण नहीं हुआ था और इस उद्देश्य के लिये प्रदाय निधि अनुपयोगी रही।
- विभाग ने 2009-14 की अवधि में 12.44 लाख एम.टी. गेहूं एवं 1.61 लाख एम.टी. चावल वितरण नहीं किया। 6.84 लाख एम.टी. ए.पी.एल. कोटा गेहूं बी.पी.एल. कार्डधारियों के लिये व्यपवर्तन किये जाने से अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। भारी मात्रा में पी.डी.एस. वस्तुयें उचित मूल्य की दुकानों में अवितरित रहने से अवैध व्यपवर्तन हो सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 982 उचित मूल्य की दुकानों की एवं शहरी क्षेत्रों में 295 उचित मूल्य की दुकानों की, नमूना जांच किये गये जिलों में कमी थी।
- कलेक्टर द्वारा उठाव एवं उचित मूल्य की दुकानों में पी.डी.एस. वस्तुओं के निर्गम की मासिक समीक्षा के आयोजन में कमी थी। खाद्यान्न के आवंटन, वितरण की समीक्षा हेतु सतर्कता समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं हुईं।

## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

### 2.3 समग्र स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन

#### कार्यपालन सारांश

उचित स्वच्छता सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा महिलाओं को निजता तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत शासन ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया। भारत सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में 1999 में संशोधन करते हुए योजना को "समग्र स्वच्छता अभियान" (टी.एस.सी.) नाम दिया। समग्र स्वच्छता अभियान का नाम 1 अप्रैल 2012 से पुनः परिवर्तित कर "निर्मल भारत अभियान" (एन.बी.ए.) कर दिया गया। एन.बी.ए. में निर्मल ग्राम पंचायतों के निर्माण की दृष्टि से संतृप्तीकरण परिणाम के लिए सम्पूर्ण समुदाय का समावेशन विहित है।

- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) को राज्यांश जारी करने में 81 दिन तक का अत्यधिक विलम्ब हुआ। टी.एस.सी. की निधियों को एन.बी.ए. की निधियों में अंतरित नहीं किया गया था तथा निधियाँ जनपद पंचायतों के बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी हुई थीं।

(कड़िका 2.3.6.2 तथा 2.3.6.3)

- वार्षिक कार्यान्वयन योजना बनाने में सामुदायिक संतृप्तीकरण दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया तथा नीचे स्तर से प्रस्ताव प्राप्त कर उनका विभिन्न स्तरों पर संकलन (बॉटमअप एप्रोच) नहीं किया गया। राज्य स्तरीय मिशन तथा जिला स्तरीय मिशन की बैठकों का आयोजन पर्याप्त नहीं था।

(कड़िका 2.3.7.2)

- संतृप्तीकरण तथा खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या वर्ष 2022 तक निर्मल भारत बनाने के दृष्टिकोण की प्राप्ति के अनुरूप नहीं थी। वर्ष 2012-14 की अवधि में संतृप्तीकरण हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों की तुलना में मात्र 13 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का संतृप्तीकरण किया जा सका।

(कड़िका 2.3.8.3)

- योजना के विभिन्न घटकों में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की गई थी। वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (11 से 69 प्रतिशत) तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (66 से 90 प्रतिशत) के निर्माण में लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यधिक कमी रही।

(कड़िका 2.3.8.1)

- सूचना शिक्षा तथा सम्प्रेषण क्रियाकलाप पूरे वर्ष भर नहीं किये गए तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों हेतु ग्राम पंचायतों को कोई राशियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

(कड़िका 2.3.9.1)

- नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में स्वच्छता दिवस तथा ग्राम स्वच्छता सभा का आयोजन नहीं किया गया था जिससे योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा प्रभावित हुई।

(कड़िका 2.3.10.2 तथा 2.3.10.3)

### 2.3.1 प्रस्तावना

उचित स्वच्छता सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा महिलाओं को निजता तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत शासन ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया। भारत सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में 1999 में संशोधन करते हुए योजना को "समग्र स्वच्छता अभियान" (टी.एस.सी.) नाम दिया। समग्र स्वच्छता अभियान का नाम 1 अप्रैल 2012 से "निर्मल भारत अभियान" (एन.बी.ए.) कर दिया गया था।

समग्र स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन ग्राम पंचायतों, विकास खण्डों एवं जिलों को प्रदान किया गया था जो पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं।

टी.एस.सी./एन.बी.ए. का उद्देश्य स्वच्छता दायरे में तेजी लाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन के स्तर में सुधार लाना है ताकि वर्ष 2022 तक सभी ग्राम पंचायतों के लिए निर्मल स्थिति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण (आई.ई.सी.), आरंभिक गतिविधियाँ तथा क्षमता निर्माण, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आई.एच.एच.एल.) का निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, विद्यालयों सहित संस्थागत शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के प्रमुख घटक हैं।

### 2.3.2 संगठनात्मक संरचना

समग्र स्वच्छता अभियान/एन.बी.ए. योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2005 में एक पंजीकृत संस्था राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) का गठन किया गया था। एस.डब्ल्यू.एस.एम. की शीर्ष समिति के प्रमुख, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री होते हैं तथा विकास आयुक्त सदस्य सचिव होते हैं। कार्यकारी समिति के प्रमुख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव होते हैं। राज्य कार्यक्रम अधिकारी एन.बी.ए. राज्य में समग्र स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन हेतु सम्पूर्ण रूप से उत्तरदाई हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां हैं।

इन समितियों में, राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम अधिकारी, जिला स्तर पर जिला समन्वयक, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समन्वयक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदाई हैं।

### 2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना था कि:

- विभिन्न स्तरों पर योजना कार्यान्वयन हेतु आयोजना पर्याप्त तथा प्रभावी थी;
- योजना की मार्गदर्शिका के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा निधियों को जारी किया गया, लेखांकन किया गया तथा उपयोग किया गया;
- योजना के विभिन्न घटकों में निर्धारित लक्ष्य योजना के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त थे;
- योजना के अन्तर्गत सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से टी.एस.सी./एन.बी.ए. सेवाओं की मांग के सृजन हेतु सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण कार्यनीति प्रभावशाली थी; और



- योजना के अनुवीक्षण हेतु समुचित व्यवस्था थी तथा कार्यक्रम के परिणामों का मूल्यांकन किया गया था।

### 2.3.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु मानदण्ड निम्न स्त्रोतों से लिए गए थे:-

- भारत सरकार द्वारा जारी की गई टी.एस.सी. योजना की मार्गदर्शिका, एन.बी.ए. योजना की मार्गदर्शिका, सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण की मार्गदर्शिका तथा निर्मल ग्राम पुरस्कार की मार्गदर्शिका;
- टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देश।

### 2.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

कुल 51 जिलों में से 13 जिलों<sup>1</sup> के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से 2009-14 की अवधि के लिए टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई (जून से अगस्त 2014), जिसका विवरण परिशिष्ट 2.23 में दिया गया है। हमने निम्न स्तरों पर लेखापरीक्षा की :-

राज्य स्तर	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.)
जिला स्तर	13 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.)
विकासखण्ड स्तर	27 विकास खण्ड स्त्रोत समन्वय केन्द्र/जनपद पंचायत
ग्राम स्तर	231 ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ दिनांक 2 जून 2014 को लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड तथा लेखापरीक्षा क्षेत्र पर चर्चा हेतु प्रवेश सम्मेलन किया गया था। दिनांक 5 नवम्बर 2014 को निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई तथा शासन के अभिमत को निष्पादन लेखापरीक्षा में यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 2.3.6 वित्तिय प्रबंधन

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना निधि में घटकवार केन्द्रांश, राज्यांश तथा पारिवारिक/पंचायत का अंश (वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर हेतु) होता है। टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधि पर अर्जित ब्याज की राशि योजना निधि का ही हिस्सा है।

#### 2.3.6.1 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) द्वारा उपलब्ध राशियों का उपयोग

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा डी.डब्ल्यू.एस.एम. को जारी राशि, डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा किए गए व्यय तथा अव्ययित शेष का विवरण तालिका-1 में दिया गया है-

<sup>1</sup> अनुपपुर, बालाघाट, बडवानी, छिन्दवाडा, देवास, धार, खण्डवा, रतलाम, सागर, सतना, शहडोल, उज्जैन तथा विदिशा।

तालिका-1 : राज्य में टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों के प्रवाह का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	कुल प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	व्यय का प्रतिशत	अन्तिम शेष
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7
2009-10	96.80	135.51	232.31	148.12	64	84.19
2010-11	84.19	246.85	331.04	145.73	44	185.31
2011-12	185.31	223.29	408.60	245.68	60	162.92
2012-13	162.92	367.30	530.22	317.37	60	212.85
2013-14 <sup>#</sup>	212.85	804.16	1017.01	544.05	54	472.96
योग		1777.11	1873.91	1400.95		472.96

(स्रोत-एस.डब्ल्यू.एस.एम.भोपाल के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे 2009-10 से 2012-13)

<sup>#</sup>एस.डब्ल्यू.एस.एम. भोपाल द्वारा प्रदत्त जानकारी (आंकड़े लेखापरीक्षित नहीं हैं)

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना की अत्यधिक मात्रा में राशि अव्ययित रही

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता था कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि में डी.डब्ल्यू.एस.एम.के पास उपलब्ध कुल राशि का उपयोग 44 प्रतिशत से 64 प्रतिशत के मध्य रहा तथा ₹ 84.19 करोड़ से लेकर ₹ 472.96 करोड़ डी.डब्ल्यू.एस.एम. के बैंक खातों में वर्ष के अंत तक अव्ययित रहे। योजना निधि का कम उपयोग होने के कारण योजना के विभिन्न घटकों में प्रगति धीमी रही। हमने देखा कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लक्ष्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय कमी रही जैसा कि कंडिका 2.3.8.1 में चर्चा की गई है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर में बताया कि राशियां वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होने के कारण राशियों का उपयोग उस वित्त वर्ष में नहीं किया जा सका। यह कार्यक्रम मानव व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है, अतः प्रगति धीमी रही।

योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

**2.3.6.2 एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा राशि जारी करने में विलंब**

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्राप्त केन्द्रीय अनुदानों के साथ राज्यांश को डी.डब्ल्यू.एस.एम. को जारी करना था।

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को राज्यांश जारी करने में छः दिन से लेकर 81 दिन का विलंब हुआ

हमने देखा कि 2009-14 की अवधि में डी.डब्ल्यू.एस.एम. को राज्यांश जारी करने में छः दिन से लेकर 81 दिन का विलंब हुआ, विवरण परिशिष्ट 2.24 में दिया गया है।

कार्यान्वयन अभिकरणों को राशियां जारी करने में विलम्ब के फलस्वरूप योजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति हुई।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने स्वीकार किया कि वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्ति में विलंब के कारण तथा राज्य बजट में राशि उपलब्ध न होने के कारण राज्यांश जारी करने में विलंब हुआ।

**2.3.6.3 जनपद पंचायतों में राशियों का अप्रयुक्त पड़े रहना।**

टी.एस.सी. योजना के वित्तीय प्रबन्धन के अनुसार डी.डब्ल्यू.एस.एम. ने जनपद पंचायतों को राशियां जारी की जिसे जनपद पंचायत ने योजना कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को जारी किया। अप्रैल 2012 से टी.एस.सी. योजना का नाम एन.बी.ए. कर दिया गया। एन.बी.ए. योजनान्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के अनुसार एस.डब्ल्यू.एस.एम. से प्राप्त राशियों को डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों को जारी किया जाना था।

एन.बी.ए. योजना प्रारंभ होने के उपरांत जनपद पंचायतों पर रखी राशियों को डी.डब्ल्यू.एस.एम. को समर्पित किया जाना था ताकि एन.बी.ए. योजनान्तर्गत राशियां ग्राम पंचायतों को जारी की जा सकें।

22 जनपदों में योजना की बड़ी राशि अप्रयुक्त पड़ी रही

हमने देखा कि नमूना जांच की गई 27 जनपद पंचायतों में से 22 जनपद पंचायतों में टी.एस.सी. योजना की राशि ₹ 6.58 करोड़ मार्च 2014 की स्थिति में बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी। इस प्रकार योजना निधि को दो वर्षों से अधिक समय तक अवरुद्ध रखा गया। विवरण परिशिष्ट-2.25 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि जनपद पंचायतों के पास रखी राशियों को डी.डब्ल्यू.एस.एम.को वापस कर दिया जाएगा ताकि उन्हें एन.बी.ए. के पुनरीक्षित वित्तीय मानदण्ड अनुसार ग्राम पंचायतों को जारी किया जा सके।

#### 2.3.6.4 योजना निधियों को सावधि जमा के रूप में रखना

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कड़िका 13.2.2 के अनुसार डी.डब्ल्यू.एस.एम. को एस.डब्ल्यू.एस.एम. से राशियां प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर राशियों को सीधे ग्राम पंचायतों को अंतरित करना था। राशियों को स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण हेतु उपयोग किया जाना था तथा सावधि जमा के रूप में अवरुद्ध नहीं रखा जाना था।

नमूना जांच की गई दो जनपदों में योजना राशि ₹ 81.50 को सावधि जमा के रूप में रखा गया

जिला उज्जैन के जनपद बड़नगर तथा जिला बालाघाट के जनपद बालाघाट के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि ₹ 81.50 लाख<sup>2</sup> की राशि सावधि जमा के रूप में रखी गई थी (अगस्त 2014)।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि जनपद पंचायतों के पास रखी राशियों को एन.बी.ए. के पुनरीक्षित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायतों को जारी करने हेतु डी.डब्ल्यू.एस.एम. को वापिस किया जाएगा। यदि कोई जिला/जनपद पंचायत द्वारा एन.बी.ए. योजना की राशि को सावधि जमा के रूप में रखा जा रहा था, तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जनपद पंचायतों के पास रखी राशियों को एन.बी.ए. के पुनरीक्षित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायतों को जारी करने हेतु डी.डब्ल्यू.एस.एम. को वापिस किया जाना चाहिये।

#### 2.3.6.5 विकास खण्ड स्तर पर टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि का लेखांकन न किया जाना

टी.एस.सी. तथा एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज राशि को एन.बी.ए. संसाधन के भाग के रूप में समझा जायेगा। डी.डब्ल्यू.एस.एम. को अनुवर्ती किशतों के लिये दावे/दावों के साथ एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज के उपयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। इन राशियों में जनपद पंचायत स्तर पर अर्जित ब्याज की राशि को सम्मिलित किया जाना चाहिये तथा कुल राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों में दर्शाया जाना चाहिये था।

टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि का जनपद पंचायत स्तर पर लेखांकन नहीं किया गया

हमने देखा कि नमूना जांच की गई 23 जनपद पंचायतों में 2009-10 से 2012-13 की अवधि में टी.एस.सी./एन.बी.ए. पर अर्जित ब्याज ₹ 74.17 लाख का लेखांकन नहीं किया गया। इस प्रकार डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा एस.डब्ल्यू.एस.एम. को भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्रों में जनपद पंचायत स्तर पर टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर

<sup>2</sup> जिला बालाघाट की जनपद बालाघाट में दिनांक 31.03.2014 को ₹ 70.00 लाख तथा जिला उज्जैन की जनपद बड़नगर में दिनांक 14.03.2014 को ₹ 10.00 लाख तथा दिनांक 31.03.2013 को ₹ 1.50 लाख जमा किये गये।

अर्जित ब्याज की राशि को नहीं दर्शाया गया। विवरण परिशिष्ट-2.26 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर जनपद पंचायत स्तर पर अर्जित ब्याज को डी.डब्ल्यू.एस.एम. के खाते में लेखांकित किया जायेगा।

### 2.3.6.6 ग्रामीण स्वच्छता बाजार को प्रदान किये गये ऋण की वसूली न होना

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कड़िका 5.5.1 के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता बाजार एक ऐसा केन्द्र है जिसमें स्वच्छ शौचालयों, सोखता तथा कम्पोस्ट पिट्स, वर्मी कम्पोस्टिंग, आदि के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्रियाँ, हार्डवेयर एवं डिजाइन उपलब्ध होती है। ग्रामीण स्वच्छता बाजार बनाने का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न प्रकार के शौचालय बनाने के लिये आवश्यक सामग्रियाँ, सेवाएं तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना तथा स्वच्छ पर्यावरण के लिये अन्य स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना था।

ग्रामीण स्वच्छता बाजार की स्थापना हेतु जिले पर उपलब्ध परिक्रामी निधि से ₹ 3.50 लाख का ब्याज रहित ऋण दिया जा सकता था। ऋण की, ऋण भुगतान की दिनांक से एक वर्ष बाद 12-18 किशतों में वसूली की जानी थी।

ग्रामीण स्वच्छता बाजार के स्थापना हेतु दिये गये ऋण राशि ₹ 14.25 लाख वसूली हेतु बकाया (अगस्त 2014) था

अनुपपुर, देवास, सागर तथा शहडोल जिलों के डी.डब्ल्यू.एस.एम. के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि 16 ग्रामीण स्वच्छता बाजारों की स्थापना हेतु स्वयं सहायता समूहों को राशि ₹ 16.50 लाख का ऋण दिया गया था। इनमें से मात्र एक ग्रामीण स्वच्छता बाजार (शक्ति स्वयं सहायता समूह, टोंकखुर्द जिला देवास) क्रियाशील था (अगस्त 2014) तथा मात्र दो ग्रामीण स्वच्छता बाजार ने ऋण स्वीकृति के दिनांक से 9 वर्षों बाद ₹ 2.25 लाख का पुनर्भुगतान किया। शेष राशि ₹ 14.25 लाख वसूली हेतु बकाया थी (अगस्त 2014 तक)। विवरण परिशिष्ट -2.27 में दिया गया है।

चूँकि ग्रामीण स्वच्छता बाजार अक्रियाशील थे तथा विभिन्न प्रकार के शौचालयों तथा अन्य स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण हेतु सामग्री, सेवायें तथा मार्गदर्शन देने में असमर्थ थे, ग्रामीण स्वच्छता बाजार की स्थापना पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि ग्रामीण स्वच्छता बाजार की स्थापना हेतु प्रदान किये गये ऋण की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

### 2.3.6.7 उपयोगिता प्रमाण पत्र में व्यय को बढ़ाकर दर्शाया जाना

डी.डब्ल्यू.एस.एम., शहडोल के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि वर्ष 2010-11 में डी.डब्ल्यू.एस.एम. ग्वालियर को राशि ₹ 2.00 करोड़ अग्रिम के रूप में अंतरित किये गये थे, जिसे मई 2014 में वापस कर दिया गया था, परंतु डी.डब्ल्यू.एस.एम. शहडोल द्वारा इसे वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखों में अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि डी.डब्ल्यू.एस.एम. ग्वालियर द्वारा जिला शहडोल से प्राप्त राशि को केन्द्रांश के रूप में (अंतर जिला अन्तरण) दर्शाया तथा उसके विरुद्ध 2010-11 में सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र में व्यय दर्शाया गया।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 के लिए सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्रों में ₹ 2.00 करोड़ का अधिक व्यय दर्शाया गया।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया कि भविष्य में अंतर जिला अन्तरण की राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्रों में अग्रिम/ऋण के रूप में दर्शाया जाएगा।

### 2.3.6.8 विद्यालय शौचालयों में फोर्स लिफ्ट पम्प की स्थापना पर अलाभकारी व्यय

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एन.बी.ए. अन्तर्गत विद्यालय शौचालय के निर्माण की इकाई लागत ₹ 35,000 थी। पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार (फरवरी 2011), विद्यालय शौचालय निर्माण की इकाई लागत ₹ 27,000 निर्धारित की गई। शेष ₹ 8,000 का उपयोग विद्यालय शौचालयों में पानी की उपलब्धता हेतु फोर्स लिफ्ट पम्प की स्थापना हेतु किया जाना था।

जिला शहडोल की डी.डब्ल्यू.एस.एम. तथा 23 नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि इन ग्राम पंचायतों की 43 विद्यालय-शौचालयों में स्थापित 43 फोर्स लिफ्ट पम्प अक्रियाशील थे जिसके परिणामस्वरूप इनकी स्थापना पर किया गया व्यय ₹ 2.91 लाख अलाभकारी रहा।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने उत्तर दिया कि फोर्स लिफ्ट पम्प के सुचारु रूप से संचालन तथा रख रखाव तथा सुरक्षा हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किये जाएंगे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि फोर्स लिफ्ट पम्प के अक्रियाशील रहने से इन विद्यालय शौचालयों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

### 2.3.7 योजना

#### 2.3.7.1 परियोजना कार्यान्वयन योजना का पुनरीक्षण

योजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) लम्बी अवधि की योजना है। टी.एस.सी./निर्मल भारत अभियान के दिशानिर्देशों के अनुसार जिले पर प्रत्येक परियोजना अधिकारी को परियोजना कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) को पुनरीक्षित करना था एवं वित्तीय मानदण्डों में परिवर्तन के उपरान्त एक पुनरीक्षित परियोजना तैयार करनी थी। प्रस्ताव की शुरुआत ग्राम पंचायत से होनी थी, जिसका संकलन ब्लॉक स्तर पर तत्पश्चात डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा जिले स्तर पर किया जाना था।

2009-14 की अवधि के दौरान वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वित्तपोषण मानदण्डों को तीन<sup>3</sup> बार परिवर्तन किया गया था। हमने देखा कि जिला छिंदवाड़ा के अतिरिक्त जहाँ पी.आई.पी. में चार बार पुनरीक्षण किया गया, अन्य 12 जिलों द्वारा वित्तपोषण संबंधी मानदण्डों में परिवर्तन के उपरान्त पी.आई.पी. में पुनरीक्षण नहीं किया गया। जिला खण्डवा में पी.आई.पी. का दो बार पुनरीक्षण किया गया तथा 2009-14 की अवधि के दौरान आठ<sup>4</sup> जिलों की परियोजना कार्यान्वयन योजना में मात्र एक बार पुनरीक्षण किया गया। शेष तीन जिलों द्वारा पुनरीक्षण नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट-2.28 में दिया गया है।

पी.आई.पी. में पुनरीक्षण न होने के कारण पी.आई.पी. में निर्धारित लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्मल स्थिति प्राप्त करने के अनुरूप नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने बताया कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जब कभी भी मानदण्ड बदले थे, राज्यवार परियोजना लागत एवं परियोजना कार्यान्वयन योजना को पुनरीक्षित कर दिया गया था एवं तदनुसार परियोजना कार्यान्वयन योजना स्वतः अद्यतन हो गयी थी।

वित्त पोषण संबंधी मानदण्ड परिवर्तन के उपरान्त परियोजना कार्यान्वयन योजना में पुनरीक्षण नहीं किया गया

<sup>3</sup> 2008-09, 2011-12 एवं 2012-13।

<sup>4</sup> अनुपपुर, देवास, धार, रतलाम, सागर, सतना शहडोल एवं उज्जैन।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन योजना में पुनरीक्षण ग्राम पंचायत स्तर से होने थे एवं डी.डब्ल्यू.एस.एम. एवं एस.डब्ल्यू.एस.एम. से गुजरने के पश्चात भारत सरकार द्वारा अभिपुष्टि की जानी थी। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा परियोजना कार्यान्वयन योजना के स्वतः अद्यतन होने का कोई प्रावधान नहीं था।

*वित्तपोषण संबंधी मानदण्डों में परिवर्तन के उपरांत पी.आई.पी. में पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ताकि पी.आई.पी. में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की वास्तविक आवश्यकता को दर्शाया जा सके।*

### **2.3.7.2 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) द्वारा वार्षिक कार्यान्वयन योजना (ए.आई.पी.) को तैयार किया जाना**

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एस.डब्ल्यू.एस.एम. को जिलों द्वारा दी गई प्रगति के अनुसार प्रत्येक जिले के लिये वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार करना, लाइन विभागों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना, विशिष्ट परियोजना जिलों के लिये निर्धारित केन्द्र से सहायता अनुदान प्राप्त करना और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को निधियों का संवितरित करना था। एस.डब्ल्यू.एस.एम. की बैठकों में पूर्व वर्ष एवं वर्तमान आगामी वर्ष के लिये योजना कार्यान्वयन की समीक्षा करनी थी।

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्यान्वयन योजना को परियोजना गतिविधियाँ प्राप्त करने के लिये समर्पित होने वाली ग्राम पंचायतों का निर्धारण करके तैयार किया जाना चाहिये था। इन ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना को संकलित कर ब्लॉक कार्य योजना तत्पश्चात जिला कार्यान्वयन योजना तैयार की जानी चाहिये। राज्य कार्यान्वयन योजना तैयार करने हेतु एस.डब्ल्यू.एस.एम. को डी.डब्ल्यू.एस.एम. की कार्ययोजना को संकलित करना चाहिये। इस हेतु एस.डब्ल्यू.एस.एम. की बैठकें छः माह में कम से कम एक बार होनी चाहिये।

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार डी.डब्ल्यू.एस.एम. को जिला परियोजना का आयोजन तथा कार्यान्वयन करना चाहिये। इसे कार्यक्रम कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करनी चाहिये ताकि जिला वार्षिक कार्य योजनाओं के उद्देश्य को हासिल किया जा सके और इसके परिणामस्वरूप निर्मल ग्राम पंचायतें बन सकें। डी.डब्ल्यू.एस.एम.की बैठक कम से कम हर तीसरे महीने में होनी चाहिये थी। बैठकों के दौरान, पूर्व वर्ष में योजना की प्रगति का मूल्यांकन तथा आगामी वर्ष हेतु कार्ययोजना तैयार की जानी थी।

- हमने देखा कि वार्षिक कार्यान्वयन योजना ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर तैयार न करके केवल जिला स्तर पर तैयार की गई थी।

- ग्राम पंचायतों को चिन्हित करते हुए सामुदायिक संतृप्तीकरण दृष्टिकोण को जो वर्ष के दौरान अथवा आगामी वर्षों में "निर्मल" स्थिति का निर्माण कर सके, को नहीं अपनाया गया था जैसा कि पैरा 2.3.8.3 में उल्लेख किया गया है।

- 2009-14 की अवधि में एस.डब्ल्यू.एस.एम. की निर्धारित 10 बैठकों के विरुद्ध मात्र चार बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 में एस.डब्ल्यू.एस.एम. की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। यह राज्य स्तर पर योजना के अनुवीक्षण व आयोजन में कमी को दर्शाता है।

वार्षिक कार्ययोजना बनाने में ग्राम पंचायतों के योजना को जनपद एवं जिला स्तर पर संकलन (बाटमअप एप्रोच) एवं सामुदायिक संतृप्तीकरण का दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया

<sup>5</sup> बैठकें दिनांक 19.05.2009, 06.02.2010, 06.09.2010 तथा 18.06.2012 को आयोजित की गई थी।

- 2009-14 की अवधि में डी.डब्ल्यू.एस.एम. की निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की गई थी। अनुपपुर, बालाघाट तथा रतलाम जिलों में वर्ष 2010-11 में डी.डब्ल्यू.एस.एम. की मात्र एक बैठक आयोजित की गई थी तथा धार जिले में वर्ष 2011-12 में मात्र दो बैठकें आयोजित की गईं। विवरण परिशिष्ट-2.29 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने स्वीकार किया कि ए.आई.पी. तैयार करने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्ययोजना का संकलन 2014-15 से किया गया है। बैठकों के आयोजन के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं। हालांकि अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि एस.डब्ल्यू.एस.एम. तथा डी.डब्ल्यू.एस.एम. की नियमित बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

वर्ष 2022 तक निर्मल भारत की स्थिति को प्राप्त करने हेतु ए.आई.पी. तैयार करने हेतु संतुष्टीकरण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये तथा कार्ययोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर संकलन किया जाना चाहिये।

### 2.3.8 योजना कार्यान्वयन

#### 2.3.8.1 लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

एन.बी.ए. का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना तथा देश में सभी पंचायतों द्वारा निर्मल स्थिति प्राप्त करने के साथ 2022 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिये स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना है। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं विद्यालयों में शौचालय का निर्माण किया जाना था।

हमने देखा कि योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत ए.आई.पी. में निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को पूरी तरह नहीं प्राप्त किया गया था जिसकी चर्चा नीचे की गई है :-

#### (अ) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण

राज्य में योजना के विभिन्न घटकों में निर्धारित लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया गया

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत रूप से पूरा किए गये पारिवारिक स्वच्छता शौचालय में ऊपरीढांचा सहित एक मूल निम्न लागत शौचालय इकाई होगी। शौचालय पूर्ण होने तथा इस्तेमाल होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान बी.पी.एल. तथा ए.पी.एल. परिवारों हेतु वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी निम्नानुसार रही:-

तालिका- 2 : वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण के लक्ष्यों की पूर्ति में कमी

वर्ष	बी.पी.एल. परिवारों के लिये वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति में कमी			ए.पी.एल. परिवारों के लिये वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति में कमी		
	लक्ष्य	कमी	प्रतिशत	लक्ष्य	कमी	प्रतिशत
2009-10	10,64,259	4,50,715	42	14,09,582	6,20,780	44
2010-11	6,98,278	76,535	11	8,67,482	3,23,209	37
2011-12	7,44,240	2,71,719	37	7,16,461	2,60,281	36
2012-13	7,76,638	4,37,356	56	7,87,842	5,68,935	72
2013-14	9,07,293	6,27,448	69	9,92,368	7,56,630	76

(स्रोत: एस.डब्ल्यू.एस.एम. का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (2009-14))

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि बी.पी.एल. परिवारों हेतु वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण में लक्ष्यों के विरुद्ध कमी 11 से 69 प्रतिशत के मध्य तथा ए.पी.एल. परिवारों हेतु लक्ष्य के विरुद्ध कमी 36 से 76 प्रतिशत के मध्य रही।

**(ब) सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण**

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों जिनमें उपयुक्त संख्या में शौचालय सीट, स्नान घर, कपड़े आदि धोने के लिये चबूतरा, वाश बेसिन आदि शामिल है को गांव में ऐसी जगह पर बनाया जाना था जो महिलाओं/पुरुषों/भूमिहीन परिवारों को स्वीकार्य हो एवं वे वहाँ पहुँच सकें। परिसरों के रखरखाव हेतु ग्राम पंचायतें उत्तरदाई होगी।

लेखापरीक्षा अवधि 2009-14 के दौरान, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी निम्नानुसार थी:-

**तालिका- 3: सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी**

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लक्ष्य	490	114	412	412	1123
लक्ष्य प्राप्ति में कमी	373	कोई कमी नहीं	272	324	1,011
प्रतिशत	76	निरंक	66	79	90

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण में 66 से 90 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

**(स) विद्यालय शौचालयों का निर्माण**

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी शासकीय विद्यालयों में लड़के एवं लड़कियों के लिये पृथक शौचालय निर्मित किये जाने हैं। शौचालयों की संख्या विद्यालय में सभी छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त होनी चाहिये।

विद्यालय शौचालयों के निर्माण में लक्ष्य के विरुद्ध कमी की स्थिति निम्नानुसार थी:-

**तालिका- 4: विद्यालय शौचालयों के निर्माण में लक्ष्यों के विरुद्ध कमी**

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लक्ष्य	15,128	12,994	12,290	10,644	लक्ष्य निर्धारित नहीं
लक्ष्य पूर्ति में कमी	4,333	कोई कमी नहीं	कोई कमी नहीं	9,611	निरंक
प्रतिशत	29	निरंक	निरंक	90	निरंक

इस प्रकार, वर्ष 2009-10 तथा 2012-13 में विद्यालय शौचालयों के निर्माण में लक्ष्यों के विरुद्ध कमी क्रमशः 29 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत रही। हालांकि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में विद्यालय शौचालय के निर्माण के लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई थी।

योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्तियों का विवरण परिशिष्ट-2.30 में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त हमने देखा कि 2011-14 की अवधि में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण में लक्ष्य प्राप्ति में कमी की प्रतिशतता ने बढ़त की प्रवृत्ति दर्शाई। वर्ष 2013-14 में विद्यालय शौचालयों का निर्माण स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित होने के कारण पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि भविष्य में विभिन्न घटकों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।

वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये।



### 2.3.8.2 ग्राम पंचायतों के माध्यम से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण

निर्मल भारत अभियान के दिशानिर्देशों की कंडिका 5.4.1 के अनुसार वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण कार्य परिवार द्वारा स्वयं ही किया जायेगा और शौचालय बन जाने तथा उपयोग प्रारंभ हो जाने पर नकद वित्तीय प्रोत्साहन परिवार की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाना था।

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई "मर्यादा अभियान" के दिशानिर्देशों के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराया जाना अनुमत्त नहीं था।

नमूना जांच की गई 231 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि 13 जिलों की 221 ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि अंतरित करने के बजाए शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया गया।

221 ग्राम पंचायतों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा कराया गया

निर्गम सम्मेलन में, सरकार ने बताया कि राज्य ने वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि जारी करने हेतु दो तरीके अपनाये अर्थात् यदि हितग्राही एन.बी.ए. की राशि का अनुरोध करता है तो उन्हें शौचालय निर्माण के उपरांत प्रोत्साहन की राशि सीधे जारी कर दी जाएगी। परंतु यदि हितग्राही मनरेगा योजना के अभिसरण से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय चाहता है तो ग्राम पंचायत को शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी।

उत्तर योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि हितग्राहियों को निर्माण सामग्री का स्वयं क्रय करना था तथा स्वयं की पसंद के अनुसार शौचालय निर्माण करना था जिससे उन्हें वंचित रखा गया था।

### 2.3.8.3 संतृप्तीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति न होना

एन.बी.ए. के दिशानिर्देशों की कंडिका 2.1 के अनुसार, एन.बी.ए. योजना का मुख्य उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों का संतृप्तीकरण करना था ताकि वर्ष 2022 तक निर्मल भारत के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

एस.डब्ल्यू.एस.एम. के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2012-14 की अवधि में संतृप्तीकरण हेतु लक्षित राज्य की ग्राम पंचायतों की संख्या तथा लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि निम्नानुसार थी:-

तालिका-5 : संतृप्तीकरण हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों तथा उपलब्धि का विवरण

वर्ष	राज्य की ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	संतृप्तीकरण हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	संतृप्त ग्राम पंचायत की संख्या	संतृप्त ग्राम पंचायत का प्रतिशत
2012-13	23,006	5,800	772	13
2013-14	23,006	1,815	228	13
योग		7,615	1,000	

(स्रोत- एस.डब्ल्यू.एस.एम. भोपाल द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एन.बी.ए. योजना प्रारम्भ होने के उपरांत वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में संतृप्तीकरण तथा खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या वर्ष 2022 तक निर्मल भारत बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं थी। हमने देखा कि खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु लक्षित 7,615 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध मात्र 1,000 (13 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों का संतृप्तीकरण किया जा सका। इस प्रकार एन.बी.ए. आरंभ होने के उपरांत मार्च 2014 की स्थिति में राज्य की कुल ग्राम पंचायतों (23,006) का मात्र चार प्रतिशत ग्राम पंचायतों का संतृप्तीकरण किया जा सका था।

योजना कार्यान्वयन की इस गति के साथ वर्ष 2022 तक राज्य को "निर्मल" बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्भावना सुदूर है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि इस कार्यक्रम में गति तभी लायी जा सकती है जब व्यवहार परिवर्तन हो तथा समुदाय द्वारा मांग की जाये। चूंकि यह धीमी तथा कठिन प्रक्रिया है, इसलिये योजना की प्रगति धीमी है।

#### 2.3.8.4 निर्मल ग्राम पुरस्कार की द्वितीय किस्त जारी न किया जाना तथा पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों का स्लिप बैंक होना

निर्मल ग्राम पुरस्कार (एन.जी.पी.) की मार्गदर्शिका 2010 के अनुसार, चयनित ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार की राशि दो समान किस्तों में जारी की जायेगी। ग्राम पंचायत का पुरस्कार हेतु चयन होने के तत्काल बाद प्रथम किस्त जारी की जायेगी। एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों की छः माह बाद यादृच्छिक जांच की जानी थी। यदि निर्मल ग्राम एवं खुले में शौच से मुक्त स्थिति निरन्तर पाई गई हो तो डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा द्वितीय किस्त जारी की जायेगी। अन्यथा राज्य से पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों को निर्मल स्थिति में लाने हेतु आवश्यक उपाय किए जाएंगे। बार-बार निर्मल स्थिति बनाये रखने में असफल होने वाली ग्राम पंचायतों से निर्मल ग्राम पुरस्कार की राशि वसूली जानी थी।

निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु चयनित 212 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त की राशि जारी की गई परंतु इन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार की द्वितीय किस्त की राशि जारी नहीं की गई

ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुसार पुरस्कार की राशि ₹ 0.50 लाख से पांच लाख के मध्य है। निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों द्वारा पुरस्कार राशि का उपयोग खुले में शौच से मुक्त स्थिति बनाये रखने, ग्राम में अतिरिक्त स्वच्छता सुविधाओं का सृजन करने, ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) एवं एस.एल.डब्ल्यू.एम. के लिये भूमि क्रय करने हेतु किया जाना था।

एस.डब्ल्यू.एस.एम. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य की 212 ग्राम पंचायतों का चयन एन.जी.पी. हेतु हुआ था जिन्हें प्रथम किस्त की राशि ₹ 1.35 करोड़ (मई 2012) में जारी की गई थी परंतु उन्हें द्वितीय किस्त की राशि जारी नहीं की गई (सितम्बर 2014)। लेखापरीक्षा द्वारा प्रश्न करने पर एस.डब्ल्यू.एस.एम. ने बताया कि डी.डब्ल्यू.एस.एम. से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण द्वितीय किस्त जारी नहीं की गई। यह भी देखा गया कि निर्मल एवं खुले में शौच से मुक्त स्थिति को अभिनिश्चित करने हेतु एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा उन ग्राम पंचायतों की यादृच्छिक जांच नहीं की गई थी।

पुरस्कार की सम्पूर्ण राशि जारी न होने से स्वच्छता की वर्तमान सुविधाओं के रख रखाव पर विपरीत प्रभाव पड़ा एवं अतिरिक्त स्वच्छता सुविधाओं का सृजन प्रभावित हुआ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने बताया कि एन.जी.पी. पुरस्कार राशि के प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने एवं पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में निर्मित शौचालयों की संख्या में अंतर होने के कारण द्वितीय किस्त जारी नहीं की गई।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि एस.डब्ल्यू.एस.एम. ने निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण सुनिश्चित नहीं किया तथा समय पर द्वितीय किस्त जारी नहीं की।

शहडोल जिले की निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त 32 ग्राम पंचायतों ने निर्मल स्थिति नहीं बनाये रखी

- डी.डब्ल्यू.एस.एम. शहडोल के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि जनवरी 2008 से दिसम्बर 2011 के अवधि में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त 33 ग्राम पंचायतों में से मात्र एक ग्राम पंचायत (पोंगरी जनपद सोहागपुर) को एन.जी.पी. की द्वितीय किस्त जारी की गई एवं शेष 32 ग्राम पंचायतों को द्वितीय किस्त की राशि ₹ 17.50 लाख इन ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल स्थिति बनाये न रखने के कारण जिलों द्वारा (अगस्त 2014)

जारी नहीं की गई। इससे यह दर्शित हुआ कि इन ग्राम पंचायतों में निर्मल ग्राम स्थिति निरंतर बनाये रखना सुनिश्चित करने हेतु डी.डब्ल्यू.एस.एम. ने पर्याप्त सर्वेक्षण नहीं किये। इस प्रकार, ग्राम पंचायतों में निर्मल स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, सरकार ने बताया कि एन.जी.पी. पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में नियमित सर्वेक्षण/अनुवीक्षण/मूल्यांकन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि इन ग्राम पंचायतों ने खुले में शौच से मुक्त स्थिति को बनाए रखा था।

*निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों में नियमित अंतराल से सर्वेक्षण किये जाने चाहिये ताकि इन ग्राम पंचायतों में निर्मल स्थिति को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।*

### **2.3.8.5 ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम) का कार्यान्वयन न किया जाना।**

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) योजना का एक प्रमुख घटक है। इस घटक के अंतर्गत कम्पोस्टपिट, वर्मी कम्पोस्टिंग, कम लागत वाली निकासी, सोकेज चैनल/गड्ढा अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली, घरेलू कचरे के संग्रहण अलग-अलग करना तथा उसका निपटान करने की प्रणाली इत्यादि जैसे क्रियाकलाप किये जाने थे। निर्मल स्थिति हेतु चयनित ग्राम पंचायत तथा एन.जी.पी. प्राप्त ग्राम पंचायतों में एस.एल.डब्ल्यू.एम. परियोजना को प्राथमिकता दी जानी थी।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया गया

एस.डब्ल्यू.एस.एम. के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा 2009-14 की अवधि में एस.एल.डब्ल्यू.एम. के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया गया, यहाँ तक कि इस हेतु न तो ग्राम पंचायतों की पहचान की गई और न ही उन्हें कोई धन राशि आवंटित की गई।

एस.एल.डब्ल्यू.एम. का कार्यान्वयन न होने के फलस्वरूप ग्रामीण जनता के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि प्रथम चरण के अंतर्गत 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली 31 ग्राम पंचायतों की एस.एल.डब्ल्यू.एम. कार्यान्वयन हेतु पहचान की गई है। कुशल एजेन्सियों के माध्यम से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाये जा रहे थे एवं शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि अवधि 2009-14 के दौरान एस.एल.डब्ल्यू.एम. का कोई कार्य नहीं किया गया। यहाँ तक कि एन.जी.पी. पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में भी एस.एल.डब्ल्यू.एम. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विचार नहीं किया गया।

*एन.जी.पी. पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये।*

### **2.3.9 सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई.ई.सी.) क्रियाकलाप**

#### **2.3.9.1 सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई.ई.सी.) क्रियाकलापों में कमी होना**

आई.ई.सी. क्रियाकलापों का लक्ष्य व्यावहारिक बदलाव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में स्वच्छता सुविधाएँ एवं मांग पैदा करना है। आई.ई.सी. क्रियाकलापों को निरंतर वर्ष भर सभी तीनों स्तरों यथा जिला, विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायतों पर किया जाना चाहिये। दिशानिर्देशों के अनुसार आई.ई.सी. सामग्रियों का प्रभावी तरीके से प्रसार करने के लिये ब्लॉकों तथा

ग्राम पंचायतों को कार्यों के निष्पादन के लिये इन घटक के तहत धन राशि दी जानी चाहिये।


आई.ई.सी.  
क्रियाकलापों को वर्ष  
भर जारी नहीं रखा  
गया। आई.ई.सी.  
क्रियाकलापों हेतु ग्राम  
पंचायतों को राशि  
प्रदाय नहीं की गई  
थी

हमने देखा कि आई.ई.सी. क्रियाकलाप डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा किये गये थे। नमूना जांच किये गये विकास खण्डों अथवा ग्राम पंचायतों को आई.ई.सी. घटक में पृथक से धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

नमूना जांच किये गये 231 ग्राम पंचायतों के सचिवों से प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण में पाया गया कि:-

- 218 ग्राम पंचायतों (94 प्रतिशत) के सचिवों ने बताया कि आई.ई.सी. क्रियाकलाप निरन्तर पूरे वर्ष नहीं किये गये।
- सभी 231 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया कि आई.ई.सी. क्रियाकलापों हेतु ग्राम पंचायतों को कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई।
- 224 ग्राम पंचायतों (97 प्रतिशत) के सचिवों ने बताया कि विकास खण्ड समन्वयकों को ग्राम पंचायत हेतु आई.ई.सी. क्रियाकलापों की रणनीति बनाने हेतु सम्मिलित नहीं किया गया था।
- 225 ग्राम पंचायतों (97 प्रतिशत) ने बताया कि आई.ई.सी. कर्मियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में आई.ई.सी. गतिविधियों की कमी रही। जिसके फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका। संयुक्त भौतिक सत्यापन में हमें शौचालयों को ईंधन की लकड़ियों एवं अन्य सामग्रियों को रखने हेतु उपयोग किये जाने के उदाहरण देखने में आये जैसा कि निम्न फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:-



राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन.बी.ए. ने बताया कि राज्य स्तर पर ग्रामीण जनता पर आई.ई.सी. गतिविधियों के मूल्यांकन के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया।

डी.डब्ल्यू.एस.एम.  
शहडोल द्वारा आई.ई.  
सी. निधि से ₹ 12.92  
लाख मुद्रण कार्य हेतु  
व्यय किये गये

इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि डी.डब्ल्यू.एस.एम. शहडोल द्वारा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के कार्रवाई विवरण रजिस्टर, अनुवीक्षण रजिस्टर, माप पुस्तिका, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के प्रारूपों के मुद्रण हेतु आई.ई.सी. की राशि से ₹ 12.92 लाख का भुगतान किया गया।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि पूरे वर्ष नियमित एवं गहन आई.ई.सी., आपसी बातचीत, व्यवहार परिवर्तन संचार, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण गतिविधियों हेतु योजना

तैयार की गई थी एवं जिसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। शासन ने यह भी बताया कि भविष्य में आई.ई.सी. निधियों का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के नए दिशानिर्देशों के अनुरूप केवल आई.ई.सी. क्रियाकलापों हेतु किया जायेगा।

*आई.ई.सी. गतिविधियां वर्ष भर निरंतर की जानी चाहिए तथा ग्राम पंचायतों को आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए।*

### 2.3.10 अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

#### 2.3.10.1 राज्य समीक्षा मिशन

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 16.1 के अनुसार राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में शासन के अन्य संबद्ध विभागों के कम से कम तीन सदस्यों तथा स्वच्छता के क्षेत्र में नामी संगठनों से स्वतंत्र प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर राज्य समीक्षा मिशन का गठन किया जाना था। राज्य को विभिन्न एन.बी.ए. जिलों के आवधिक समीक्षा करने के लिये राज्य स्तर पर एक विशेषज्ञों का पैनल भी गठित करना था।

राज्य स्तर पर राज्य समीक्षा मिशन तथा विशेषज्ञों का पैनल गठित नहीं किया गया था

एस.डब्ल्यू.एस.एम. के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा कि राज्य स्तर पर राज्य समीक्षा मिशन तथा विशेषज्ञों का पैनल गठित नहीं किया गया था। इस प्रकार योजना कार्यान्वयन के मूल्यांकन एवं सुधारात्मक उपाय करने हेतु जिला परियोजना की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि राज्य समीक्षा मिशन के गठन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

#### 2.3.10.2 स्वच्छता दिवस

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 17.2.1 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को पिछले महीने की उपलब्धियों को रिकार्ड करने, मांग आधारित वैयक्तिक स्वच्छता सुविधाओं का निर्धारण करने, ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण, शुरु की गई आई.ई.सी., प्रशिक्षण हेतु मासिक कार्ययोजना तैयार करने, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के अंतर्गत निचली श्रेणी में लौट आई बसाहटों की पहचान करने, विगत माह में विभिन्न गतिविधियों में हुए व्यय की समीक्षा हेतु महीने के किसी विशेष दिवस को स्वच्छता दिवस के रूप में निर्धारित करना था।

नमूना जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता दिवस आयोजित नहीं किया गया

सभी नमूना जांच की गई 231 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया कि 2009-14 की अवधि में किसी भी ग्राम पंचायत में स्वच्छता दिवस का आयोजन नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने उत्तर में बताया कि ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से स्वच्छता दिवस आयोजित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे।

#### 2.3.10.3 सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु ग्राम स्वच्छता सभा का संचालन

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 17.3.1 के अनुसार विभिन्न मासिक योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति तथा ग्राम पंचायत में आयोजित किए गए स्वच्छता दिवस की कार्रवाइयों की समीक्षा करने के लिए सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक छः महीनों में "ग्राम स्वच्छता सभा" के रूप में ग्राम सभा का आयोजन किया जाना था। डी.डब्ल्यू.एस.एम./जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाई थे कि समय सारणी के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा समीक्षा समय पर हुई थी।

सभी नमूना जांच की गई 231 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया कि 2009-14 की अवधि में नमूना जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम स्वच्छता सभा का आयोजन नहीं किया गया था।

नमूना जांच की गई  
ग्राम पंचायतों में  
किसी में भी ग्राम  
स्वच्छता सभा  
आयोजित नहीं गई  
थी

ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता दिवस तथा ग्राम स्वच्छता सभा का आयोजन न होने के कारण योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से ग्राम स्वच्छता सभा आयोजित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये थे।

योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छता दिवस एवं ग्राम स्वच्छता सभा का नियमित आयोजन किया जाना चाहिये।

### 2.3.10.4 राज्य स्तर पर डाटा की विश्वसनीयता का सत्यापन करने हेतु प्रणाली का न होना

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 19.1 के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने निर्मल भारत अभियान के लिए एक ऑन लाईन अनुवीक्षण प्रणाली विकसित की थी। एन.बी.ए. वेबसाईट पर अपलोड किये गये डाटा की विश्वसनीयता के सत्यापन हेतु राज्य शासन के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता थी।

एन.बी.ए. वेबसाईट  
पर अपलोड किये गये  
डाटा का वार्षिक  
प्रतिवेदन के डाटा से  
मिलान हेतु व्यवस्था  
नहीं थी

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन.बी.ए. ने बताया कि डाटा की विश्वसनीयता के सत्यापन हेतु कोई प्रणाली नहीं थी तथा वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन के डाटा एवं एन.बी.ए. वेबसाईट पर लोड किये गये डाटा की दुतरफा जांच नहीं की गई थी। यद्यपि डाटा की विश्वसनीयता हेतु प्रणाली विकसित की जा रही थी।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि वर्ष 2014-15 से राज्य स्तर पर आउटपुट (निर्मित शौचालयों की संख्या) तथा आउटकम (शौचालयों का उपयोग) आधारित अनुवीक्षण प्रारंभ कर दिया गया था। राज्य में "समग्र" डाटाबेस तैयार किया गया था जिसमें शौचालय युक्त परिवारों की प्रविष्टि की गयी थी। भविष्य में, इस डाटाबेस को भारत सरकार के डाटाबेस से जोड़ दिया जायेगा।

डाटा के मिलान की व्यवस्था न होने के कारण डाटा की विश्वसनीयता अभिनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

### 2.3.11 निष्कर्ष

- एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा डी.डब्ल्यू.एस.एम. को राज्यांश जारी करने में 81 दिवस तक का अत्यधिक विलंब हुआ था। टी.एस.सी. योजना की धन राशि को एन.बी.ए. योजना निधि में अंतरित नहीं किया था एवं यह राशि जनपद पंचायतों के बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।
- वार्षिक कार्यान्वयन योजना बनाने में सामुदायिक संतृप्तीकरण दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया तथा विभिन्न स्तरों पर संकलन (बॉटमअप एप्रोच) नहीं किया गया।
- संतृप्तीकरण तथा खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या वर्ष 2022 तक निर्मल भारत बनाने के दृष्टिकोण की प्राप्ति के अनुरूप नहीं थी।
- योजना के विभिन्न घटकों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की गई थी। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यधिक कमी थी।
- स्वच्छता सुविधाओं की मांग सृजित करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण क्रियाकलाप पूरे वर्ष भर नहीं किये गये तथा सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण क्रियाकलापों हेतु ग्राम पंचायतों को राशियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

## महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग

### 2.4 बालिकाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

#### कार्यपालन सारांश

पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने एवं आत्मविकास के द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार ने किशोरी शक्ति योजना एवं राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) (15 जिलों में) कार्यान्वित की। बालिकाओं में साक्षरता दर बढ़ाने एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर शिक्षा हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की गई।

- किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य जांच प्रदान करने हेतु पृथक से सर्वेक्षण किए बिना बालिकाओं की पहचान की गई थी। इस प्रकार, किशोरी शक्ति योजना में बालिकाओं को शामिल करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। तथापि, चयनित बालिकाओं की पात्रता संबंधी जांच भी ग्राम सभा द्वारा नहीं कराई गई थी। सबला योजनान्तर्गत बालिकाओं की पहचान हेतु सर्वेक्षण किया गया।

(कंडिका 2.4.7.1 एवं 2.4.8.2)

- किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था एवं सबला के अंतर्गत, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण तथा जीवन कौशल शिक्षा पर मार्गदर्शन एवं परामर्श उपलब्ध कराने में कमी थी।

(कंडिका 2.4.7.2 एवं 2.4.8.4)

- किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी, सबला के अंतर्गत नमूना जांच किए गए 79 आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी एवं नमूना जांच किए गए 68 आंगनवाड़ी केन्द्रों में आयरन फौलिक एसिड (आई.एफ.ए.) का सम्पूर्ण उपलब्ध नहीं कराया गया था। अन्य विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण भी नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.4.7.3, 2.4.8.6 एवं 2.4.8.8)

- किशोरी शक्ति योजना एवं सबला के अंतर्गत अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था क्योंकि जिला एवं परियोजना स्तर पर अनुवीक्षण समिति की आवश्यक बैठकों की अत्यधिक कमी थी, जिसका प्रभाव योजना के कार्यान्वयन पर पड़ा।

(कंडिका 2.4.7.4 एवं 2.4.8.10)

- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, प्रोत्साहन राशि छात्राओं को पात्रता मानदण्ड सुनिश्चित किए बिना उपलब्ध कराई गई थी। पात्र प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि के वितरण में 18 माह तक का विलम्ब था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हुई थी। योजना का किसी भी स्तर पर अनुवीक्षण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.4.9.2, 2.4.9.3, 2.4.9.5 एवं 2.4.9.6)

### 2.4.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश में, जनगणना 2001 के अनुसार महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत तथा जनगणना 2011 के अनुसार 60 प्रतिशत थी, यह जनगणना 2011 के राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत से कम थी। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, शिक्षा एवं आत्म-विकास हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की। 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर प्रतिवेदन में *लाड़ली लक्ष्मी योजना*<sup>1</sup>, *गांव की बेटी योजना*<sup>2</sup> तथा *प्रतिभा किरण योजना*<sup>3</sup> के कार्यान्वयन पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किए गए थे। इन्हीं उद्देश्यों के साथ राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया:

#### किशोरी शक्ति योजना (के.एस.वाई.) एवं राजोव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला):

भारत सरकार ने (वर्ष 2000 में) एकीकृत बाल विकास सेवायें (आई.सी.डी.एस.) के घटक के रूप में किशोरी बालिकाओं को आत्म-विकास, पोषण के बारे में जागरूकता, स्वास्थ्य एवं परिवार देखभाल तथा जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु "किशोरी शक्ति योजना" प्रारंभ की। इन्हीं उद्देश्यों के साथ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) राज्य के 15 जिलों<sup>4</sup> में किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर दिसम्बर 2010 से प्रारंभ की गई। किशोरी शक्ति योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सबला अंतर्गत, पोषण की लागत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन की जाती है। गैर पोषण घटक पर भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं को दिया जाता है।

#### कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (के.एस.पी.वाई.):

राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा छठवीं की अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की बालिकाओं के नामांकन एवं महिला साक्षरता दर में वृद्धि के उद्देश्य से कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ (1986-87) की गई। वर्ष 2003 से, शासन द्वारा कक्षा नौवीं एवं कक्षा ग्यारहवीं की अ.जा./अ.ज.जा. की छात्राओं को भी उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिये योजना में सम्मिलित किया गया था। इस योजनान्तर्गत अ.जा./अ.ज.जा. की छात्राओं को विद्यालय में नामांकन के समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

### 2.4.2 कार्यान्वयन व्यवस्था

किशोरी शक्ति योजना एवं सबला का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके शीर्ष अधिकारी प्रमुख सचिव हैं। आयुक्त विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है जिसकी जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन आदिम जाति विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके शीर्ष अधिकारी प्रमुख सचिव हैं। आयुक्त, आदिम जाति विकास एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रशासकीय प्रमुख हैं। सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास द्वारा 26 जिलों में एवं

1 शैक्षणिक स्तरों में प्रोत्साहन, परिवार नियोजन एवं बाल विवाह पर रोक

2 गांव की मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

3 शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

4 बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, दमोह, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, नीमच, राजगढ़, सीवा, सागर, श्योपुर, सीधी एवं टीकमगढ़



जिला संयोजक आदिवासी कल्याण द्वारा 24 जिलों में योजना का कार्यान्वयन माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से करते हैं।

### 2.4.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन एवं पहचान योजना के दिशानिर्देश के अनुसार किया गया;
- योजनाओं का वित्तीय प्रबंधन दक्षतापूर्ण था;
- योजनाओं का कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया एवं बालिकाओं का आत्म-विकास, पोषण के बारे में जागरूकता, स्वास्थ्य एवं परिवार देखभाल एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का विकास के अर्न्तनिहित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था; और
- योजनाओं का अनुवीक्षण पर्याप्त एवं प्रभावी था।

### 2.4.4 लेखा परीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षा हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में दिए गए मानक, मानदण्ड एवं प्रक्रिया को अपनाया गया:

- योजनाओं के दिशानिर्देश;
- योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश;
- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता, भाग-1 (एमपीटीसी वोल्यूम 1); और
- निर्धारित अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन तंत्र।

### 2.4.5 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखा परीक्षा में, 2009-14 की अवधि के लिए किशोरी शक्ति योजना एवं कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन को शामिल किया गया है एवं जनवरी 2011 से वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए सबला योजना को सम्मिलित किया गया है। राज्य के 51 जिलों<sup>5</sup> में से 13 जिलों<sup>6</sup> जिनमें 4 जिले<sup>7</sup> जहां सबला योजना कार्यान्वित की जा रही थी, का चयन प्रतिस्थापन पद्धति के बिना यादृच्छिक परिचयन (एस.आर.एस. डब्ल्यू.ओ.आर.) द्वारा किया गया।

प्रत्येक चयनित जिले में 4 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं तथा प्रत्येक परियोजना में 10 आंगनवाडी केन्द्र जहां सबला योजना लागू है, का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया था। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 5 माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों की नमूना जांच की गई थी। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित इकाइयों की सूची परिशिष्ट 2.31 में दी गई है।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड एवं लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र पर विचार विमर्श हेतु प्रवेश सम्मेलन मार्च 2014 में प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव, आदिम

<sup>5</sup> एक जिला (आगर-मालवा) अगस्त 2013 से निर्मित हुआ।

<sup>6</sup> बालाघाट, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिण्डौर, ग्वालियर, होशंगाबाद, झाबुआ, मंडला, मंदसौर, नीमच, सागर, सिवनी एवं उमरिया।

<sup>7</sup> बालाघाट, झाबुआ, नीमच एवं सागर।

जाति कल्याण विभाग एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग के साथ आयोजित हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ नवम्बर एवं दिसम्बर 2014 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई; विभाग के विचार समीक्षा में सम्मिलित कर लिए गए हैं।

## 2.4.6 बजट एवं व्यय

वर्ष 2009-14 की अवधि में विभिन्न योजनाओं में बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1: 2009-14 की अवधि के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना	आवंटन	व्यय
किशोरी शक्ति योजना (के.एस.वाई.)	21.54	19.82
राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला)	418.64	403.57
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (अ.जा.)	135.51	122.00
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (अ.ज.जा.)	120.43	119.70
<b>योग</b>	<b>696.12</b>	<b>665.09</b>

(स्रोत-विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार बजट आवंटन, व्यय एवं बचत का विवरण कड़िका 2.4.7, 2.4.8.1 एवं 2.4.9 में दिया गया है।

## योजनाओं का कार्यान्वयन

### 2.4.7 किशोरी शक्ति योजना (के.एस.वाई.)

किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत, 11 से 18 वर्ष के समूह की बालिकाओं को संतुलित भोजन, स्वास्थ्य चेतना एवं आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना था। इसके अतिरिक्त, बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच एवं उन्हें आयरन फौलिक एसिड की गोलियों का प्रदाय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहायक नर्स दाई द्वारा किया जाना था। वर्ष 2010-11 तक योजना 51 जिलों में तथा वर्ष 2011-12 से 36 जिलों में कार्यान्वित की गई थी।

योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष ₹ 1.10 लाख प्रत्येक एकीकृत बाल विकास सेवाएं परियोजना को दिए गए। वर्ष 2009-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत जारी कुल राशि ₹ 21.54 करोड़ के विरुद्ध ₹ 19.82 करोड़ व्यय किए गए। इस तरह, ₹ 1.72 करोड़ की बचत मुख्यतः 'प्रशिक्षण' के अंतर्गत हुई। वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका-2: 2009-14 की अवधि के दौरान वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
आवंटन	4.98	4.98	4.98	3.30	3.30	21.54
व्यय	4.24	4.68	4.67	3.12	3.11	19.82
बचत	0.74	0.30	0.31	0.18	0.19	1.72

(स्रोत-विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

#### 2.4.7.1 पात्र बालिकाओं की पहचान एवं चयन

किशोरी शक्ति योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 11 से 18 वर्ष के समूह की बालिकाओं की पहचान के लिये आंगनवाड़ीवार सर्वेक्षण पृथक से किया जाना था। सर्वेक्षित बालिकाओं की सूची आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं परियोजना कार्यालयों में रखी जानी थी। यह देखा गया कि किशोरी शक्ति योजना हेतु आंगनवाड़ी स्तर पर पृथक से सर्वेक्षण नहीं किया गया था एवं न ही पृथक से सूची तैयार की गई थी। इस प्रकार, परियोजना कार्यालयों में योजना के लिये पहचान की गई बालिकाओं की सूची नहीं थी। इस तरह सर्वेक्षण के माध्यम से हितग्राहियों का चयन, जैसा कि योजना के दिशानिर्देशों में निहित है, नहीं किया गया।

किशोरी शक्ति योजना के उद्देश्य हेतु पृथक से सर्वेक्षण का आयोजन तथा बालिकाओं की सूची तैयार नहीं की गई

इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए बालिकाओं का चयन, गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाले परिवारों से तथा विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं को उनके उम्र के घटते क्रम में प्राथमिकता दी जानी थी। चयनित किशोरी बालिकाओं की सूची परियोजना कार्यालयों द्वारा पर्यवेक्षकों एवं ग्राम सभा की स्वास्थ्य समिति को पात्रता की पुष्टि करने हेतु प्रेषित की जानी थी। परन्तु चयनित परियोजना कार्यालयों ने सूचित किया कि प्रशिक्षण के लिये चयनित बालिकाओं की सूची पात्रता की जांच हेतु ग्राम सभा को नहीं भेजी गई थी।

बालिकाओं के चयन के लिए मानकों के अनुवर्तन को सुनिश्चित नहीं किया गया था

हमने देखा कि वर्ष 2009-14 के दौरान, 34 परियोजनाओं में 1.97 लाख बालिकाओं का चयन (नमूना जांच किए गए 36 परियोजना कार्यालयों के 2.10 लाख बालिकाओं में से) तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मापदण्डों का अनुवर्तन सुनिश्चित किए बिना किया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र बालिकाओं की प्राथमिकता के संबंध में परियोजना कार्यालयों द्वारा अथवा ग्राम सभा की स्वास्थ्य समिति के द्वारा कोई अभिलेख संधारित नहीं किये गए थे। उनमें से, 21 परियोजना कार्यालयों में पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण 395 ऐसी बालिकाओं को दिया गया जो 11 से 18 वर्ष समूह की नहीं थीं।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण आंगनवाड़ी एवं परियोजना कार्यालयों पर बालिकाओं की सर्वेक्षण सूची उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 2014-15 से सर्वेक्षण डाटा रजिस्टर में संधारित किया जाएगा।

*योजनान्तर्गत हितग्राहियों की पात्रता अभिनिश्चित करने के लिये विभाग एवं परियोजना कार्यालयों को 11 से 18 वर्ष समूह की बालिकाओं का डाटाबेस संधारित करना चाहिए।*

#### 2.4.7.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

किशोरी शक्ति योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, संतुलित भोजन, स्वास्थ्य चेतना एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर दो दिवसीय खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण बाल विकास परियोजना अधिकारियों, महिला चिकित्सक, सहायक परियोजना अधिकारी/जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षकों, सहायक नर्स दाई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र से दो किशोरी बालिकाओं को मास्टर्स ट्रेनर्स बनाने के लिए दिया जाना था।

इन मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण पंचायत स्तर पर बालिका हितग्राहियों को उपरोक्त विषयों पर तीन माह के अंतराल में दिया जाना था (प्रत्येक तीन माह में एक दिन)। बालिकाओं के लिए ग्राम पंचायतवार प्रशिक्षण कार्यक्रम का रोस्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक तथा स्वास्थ्य विभाग के सहायक नर्स दाई द्वारा तैयार कर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया जाना था।

हमने देखा कि योजना के अंतर्गत बालिकाओं को सम्मिलित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। फिर भी, वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 14.21 लाख बालिकाओं को संतुलित भोजन, स्वास्थ्य चेतना एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित बालिकाओं की संख्या कम होकर वर्ष 2011-12 के दौरान 9.39 लाख तथा अगले दो वर्षों में 2012-13 एवं 2013-14 में 9.42 लाख थी। इन वर्षों में कमी का कारण 15 जिलों में किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर सबला योजना का लागू होना था।

वर्ष 2009-14 के दौरान नमूना जांच किए गए परियोजना कार्यालयों में सम्मिलित की गई पंचायतों एवं हितग्राहियों की संख्या को **तालिका-3** में दर्शाया गया है।

तालिका-3 चयनित परियोजनाओं में पंचायत स्तरीय प्रशिक्षणों की संख्या तथा प्रशिक्षित बालिकाओं की संख्या

वर्ष	चयनित परियोजना कार्यालयों के पंचायतों की संख्या	पंचायतों की संख्या जहां पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ	बालिकाओं की संख्या जिनको प्रशिक्षण दिया गया
2009-10	2,206	1,967	39,678
2010-11	2,290	2,075	41,658
2011-12	2,293	2,139	43,809
2012-13	2,246	2,092	42,483
2013-14	2,246	2,092	41,903
योग	<b>11,281</b>	<b>10,365</b>	<b>2,09,531</b>

(स्रोत:—परियोजना कार्यालयों के द्वारा प्रदत्त जानकारी)

हमने निम्नानुसार पाया:

- नमूना जांच किए गए 36 परियोजना कार्यालयों में से 26 परियोजना कार्यालयों<sup>8</sup> द्वारा प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम के रोस्टर तैयार नहीं किए गए तथा न ही जिला कार्यक्रम अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रेषित किए गए।

- खण्ड स्तर पर मास्टर्स ट्रेनर्स तैयार करने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण नमूना जांच किए गए सभी परियोजना कार्यालयों में दिया गया था। परन्तु, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा नमूना जांच किए गए 36 परियोजना कार्यालयों में से किसी भी खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए 36 परियोजना कार्यालयों में से केवल 8 परियोजना कार्यालयों<sup>9</sup> में महिला चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य चेतना संबंधी प्रशिक्षण दिया गया था।

- वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान, पंचायत स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण बालिकाओं को नमूना जांच किए गए 36 परियोजना कार्यालयों में से 33 परियोजना कार्यालयों में दिया गया। परियोजना कार्यालय डिण्डौरी में, वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि राशि का विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण में उपयोग कर लिया गया। इसी प्रकार, सीतामऊ (2009-10) एवं मल्हारगढ़ (2009-11 एवं 2012-14) जिला मंदसौर में बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण आंगनवाडी केन्द्रों से बालिकाओं की सूची प्राप्त न होने के कारण आयोजित नहीं किया गया। अतः सम्पूर्ण राशि समर्पित कर दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, तीन दिवसीय पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के उपरांत पर्यवेक्षक द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाई गई बालिकाओं की सूची तैयार करनी थी एवं उनके नाम परियोजना कार्यालय को अग्रेषित करने थे। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा बालिकाओं की सूची संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से आयुक्त को भेजी जानी थी।

हमने पाया कि किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत, नमूना जांच किए गए किसी भी परियोजना कार्यालयों में पर्यवेक्षकों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु बालिकाओं का चयन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसा कि योजना में निहित था प्रदान नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया कि मैदानी अधिकारियों को कार्रवाई करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

<sup>8</sup> अमरपुर, बजाग, बिछुआ, बीजाडांडी, बुरहानपुर ग्रामीण, छिंदवाडा ग्रामीण, डिण्डौरी, ग्वालियर शहरी एक, ग्वालियर शहरी तीन, घुघरी, होशंगाबाद शहरी, होशंगाबाद ग्रामीण, इटारसी, करंजिया, केसला, खकनार, मानपुर, मंडला, मल्लहारगढ़, मोहगोंव, मोहखेड, नेपानगर, पाली, सीतामऊ, तामिया एवं उमरिया एक।

<sup>9</sup> बुरहानपुर शहरी, ग्वालियर शहरी दो, होशंगाबाद शहरी, इटारसी, खकनार, मल्लहारगढ़, सीतामऊ एवं उमरिया दो।

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों ने ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया

किशोरी शक्ति योजना अंतर्गत बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया

किशोरी शक्ति योजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का रोस्टर तैयार करना तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों का खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित किया जाए।

### 2.4.7.3 स्वास्थ्य जांच एवं आयरन फौलिक एसिड का सम्पूरण

योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आयरन फौलिक एसिड का सम्पूरण सहायक नर्स दाई के द्वारा किया जाना था एवं यदि कोई बालिका गंभीर बीमार प्रतीत होती है, तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा जाना था।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच नहीं की गई

हमने देखा कि नमूना जांच किए गए किसी भी जिले, जहां किशोरी शक्ति योजना लागू की जा रही थी, में न तो स्वास्थ्य जांच की गई एवं न ही आयरन फौलिक एसिड का सम्पूरण दिया गया। लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर, बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम के आयोजन की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को नहीं दी गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

### 2.4.7.4 अनुवीक्षण

किशोरी शक्ति योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में एवं प्रत्येक खण्ड में एक 'समीक्षा समिति' का गठन किया जाना था, जो योजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा प्रति तिमाही एक बार करेगी। तथापि, योजना कार्यान्वयन के सम्पूर्ण अनुवीक्षण के लिये राज्य स्तर पर समिति के गठन का कोई प्रावधान दिशानिर्देशों में नहीं किया गया था।

अनुवीक्षण समितियों की बैठकें आयोजित नहीं की गई

हमने देखा कि नमूना जांच किए गए नौ जिलों में केवल जिला कार्यक्रम अधिकारी, उमरिया द्वारा केवल वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में बैठकें आयोजित की। अन्य आठ जिलों में कोई बैठक नहीं की गई। इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए 36 परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाओं<sup>10</sup> में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान बैठकों का आयोजन किया गया।

इस तरह, योजना के अनुवीक्षण में सभी स्तरों पर कमी थी जिसका प्रतिकूल प्रभाव योजना के कार्यान्वयन पर पड़ा।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तथ्य स्वीकार किया एवं बताया कि दिशानिर्देशों के अनुसार अनुवीक्षण समितियों के बैठकों का आयोजन करने के निर्देश दिए जाएंगे।

## 2.4.8 राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला)

योजना का उद्देश्य किशोरियों को आत्म-विकास के लिए शक्तिशाली बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ए.आर.एस.एच) और परिवार एवं बाल देख-रेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, उनके घरेलू कौशलों एवं जीवन कौशलों का उन्नयन करना, पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की ओर वापस लाना एवं विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त पात्र किशोरियों को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाना है। सबला योजना का कार्यान्वयन राज्य के 15 जिलों में किया जा रहा है।

<sup>10</sup> होशंगाबाद ग्रामीण (जिला-होशंगाबाद), अमरपुर (जिला-डिण्डौर), खकनार (जिला-बुरहानपुर) एवं तामिया (जिला-छिन्दवाडा)।

### 2.4.8.1 निधियों का उपयोग

सबला योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष ₹ 3.80 लाख प्रति एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं को गैर पोषण घटक हेतु दिए गए। इस घटक के लिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-14 में जारी कुल राशि ₹ 15.75 करोड़ के विरुद्ध ₹ 12.51 करोड़ का उपयोग किया गया। इसी तरह, पोषण घटक में, आयुक्त द्वारा ₹ 402.89 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹ 391.06 करोड़ का उपयोग किया गया; बचत मुख्यतः वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में हुई, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका-4: 2009-14 की अवधि के दौरान वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन			व्यय			बचत
	गैर पोषण घटक	पोषण घटक	योग	गैर पोषण घटक	पोषण घटक	योग	
2010-11	0.00	10.00	10.00	0.00	9.95	9.95	0.05
2011-12	4.13	100.00	104.13	4.10	99.99	104.09	0.04
2012-13	5.81	145.00	150.81	5.55	141.08	146.63	4.18
2013-14	5.81	147.89	153.70	2.86	140.04	142.90	10.80
योग	15.75	402.89	418.64	12.51	391.06	403.57	15.07

(स्रोत-विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान पोषण एवं गैर पोषण घटक दोनों में ही अत्यधिक बचत थी।

हमने देखा कि 11 नमूना जांच किये गये परियोजना कार्यालयों<sup>11</sup> द्वारा सबला के गैर पोषण घटक की विभिन्न गतिविधियों जैसे-किशोरी दिवस आयोजन, जीवन कौशल शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवंटित राशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया। इन गतिविधियों के लिये कुल आवंटित राशि ₹ 31.90 लाख में से वास्तविक व्यय ₹ 24.52 लाख था (परिशिष्ट 2.32)।

इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 28 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2013 में सबला प्रशिक्षण किट एवं सबला पंजी की अधिप्राप्ति हेतु राशि क्रमशः ₹ 3.06 करोड़ एवं ₹ 0.48 करोड़ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित कर सिविल जमा में रखा गया। इसमें से, वर्ष 2012-13 में ₹ 3.06 करोड़ व्यय किए गए जबकि ₹ 0.48 करोड़ नवम्बर 2014 तक सिविल जमा में रखे गए। योजना की राशि को अवरुद्ध रखने से योजना का कार्यान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति प्रभावित हुआ।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया कि आयरन फौलिक एसिड गोलियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदाय की जाती हैं एवं कुछ जिलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वी.टी.पी.) का चयन न होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सिविल जमा में रखी राशि का उपयोग शीघ्र ही कर लिया जाएगा।

### 2.4.8.2 हितग्राहियों का समावेशन

सबला योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न घटकों के लिये किशोरी बालिकाओं के चयन हेतु सभी 15 जिलों में बेस लाइन सर्वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। सबला योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत शामिल की गई हितग्राहियों की संख्या एवं कमी निम्नानुसार थी:

11 परियोजना कार्यालयों द्वारा कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए आवंटित निधि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.48 करोड़ सिविल जमा में थे

<sup>11</sup> जावद, झाबुआ, लालबर्वा, मनासा, मेघनगर, नीमच शहरी, नीमच ग्रामीण, पेटलाबद, सागर शहरी एक, सागर शहरी दो एवं थान्दला।

## तालिका-5: सबला अंतर्गत बालिकाओं के समावेशन में घटकवार कमी

घटक	बेस लाईन सर्वे के अनुसार किशोरी बालिकाओं की संख्या	2011-12		2012-13		2013-14	
		लाभान्वित बालिकाएं	कमी (प्रतिशत में)	लाभान्वित बालिकाएं	कमी (प्रतिशत में)	लाभान्वित बालिकाएं	कमी (प्रतिशत में)
आयरन फौलिक एसिड (आई.एफ.ए.)	3,36,081 <sup>12</sup>	2,01,506	1,34,575 (40)	2,05,850	1,30,231 (39)	2,15,850	1,20,231 (36)
स्वास्थ्य जांच	3,36,081	98,329	2,37,752 (71)	1,12,305	2,23,776 (67)	1,14,850	2,21,231 (66)
सबला अंतर्गत बालिकाओं को दिया गया प्रशिक्षण <sup>13</sup>	3,36,081	1,10,100	2,25,981 (67)	1,15,090	2,20,991 (66)	1,15,800	2,20,281 (66)
सबला अंतर्गत बालिकाओं को दिया गया पोषण	10,07,594 <sup>14</sup>	8,00,758	2,06,836 (21)	8,92,666	1,14,928 (11)	8,97,000	1,10,594 (11)

(स्रोत-विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े एवं भारत सरकार को प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन)

सबला अंतर्गत बालिकाओं को सेवाएं प्रदाय करने में अत्यधिक कमी पाई गई

सात परियोजनाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया

सबला योजना के विभिन्न घटकों में अत्यधिक कमी का विश्लेषण पैरा 2.4.8.4, 2.4.8.6 एवं 2.4.8.9 में किया गया है। विभाग द्वारा बताया गया कि योजना के कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों में होने से योजना के अंतर्गत समावेशन में कमी थी एवं हितग्राहियों एवं सेवा प्रदाता में जागरूकता आवश्यक थी।

### 2.4.8.3 व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन

सबला दिशानिर्देशों की कड़िका 6.8 के अनुसार, 16 से 18 वर्ष समूह की बालिकाओं को उनके कौशल विकास एवं रोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वी.टी.पी.) द्वारा प्रदान किया जाना था। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रति परियोजना ₹ 30,000/- की राशि व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु दी गई। हमने देखा कि नमूना जांच की गई 36 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं<sup>15</sup> में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने टिप्पणियों को स्वीकार किया।

### 2.4.8.4 मार्गदर्शन/परामर्श उपलब्ध कराना

सबला के अंतर्गत, विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को 'पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा' पर प्रति तिमाही में न्यूनतम दो सत्र, 'परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य' (ए.आर.एस.एच) पर प्रति तिमाही कम से कम तीन सत्र तथा 'जीवन कौशल शिक्षा' पर प्रति तिमाही न्यूनतम दो सत्र मार्ग दर्शन/परामर्श दिया जाना था।

वर्ष 2011-14 के दौरान चार चयनित जिलों के नमूना जांच किए गए 160 आंगनवाड़ी केन्द्रों में मार्गदर्शन/परामर्श सत्र आयोजन की स्थिति तालिका-6 में दी गई है।

तालिका-6: चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन एवं परामर्श की स्थिति

जिले का नाम	नमूना जांच की गई आंगनवाड़ियों की संख्या	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा		परिवार कल्याण एवं अर्थ		जीवन कौशल शिक्षा	
		आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिया गया मार्गदर्शन	कमी (प्रतिशत)	आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिया गया मार्गदर्शन	कमी (प्रतिशत)	आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिया गया मार्गदर्शन	कमी (प्रतिशत)
बालाघाट	40	40	0(0)	36	4(10)	31	9(23)
झाबुआ	40	27	13(33)	04	36(90)	11	29(73)
नीमच	40	24	16(40)	01	39(97)	21	19(47)
सागर	40	19	21(53)	17	23(57)	25	15(38)
योग	160	110	50(31)	58	102(64)	88	72(45)

(स्रोत-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

नमूना जांच किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों में मार्गदर्शन एवं परामर्श सत्र के आयोजन में कमी पाई गई

<sup>12</sup> 11-18 वर्ष के समूह की विद्यालय न जाने वाली बालिकाएं।

<sup>13</sup> तीन प्रकार के दिए गए प्रशिक्षण (i)पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (एन.एच.ई.) (ii) परिवार कल्याण एवं बच्चों की देखभाल एवं (iii) जीवन कौशल शिक्षा।

<sup>14</sup> 11-14 वर्ष के समूह की विद्यालय न जाने वाली बालिकाएं तथा 15-18 वर्ष के समूह की सभी बालिकाएं।

<sup>15</sup> झाबुआ (2011-12), जावद (2012-13), लालबर्सा (2013-14), मनासा (2011-12 एवं 2013-14), नीमच शहरी (2012-13), नीमच ग्रामीण (2013-14) एवं पेटलाबद (2012-13)।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि केवल बालाघाट जिले में कमी न्यूनतम (0 से 23 प्रतिशत) थी, जबकि अन्य नमूना जांच किए गए जिलों में मार्गदर्शन और परामर्श में कमी 33 प्रतिशत (एन.एच.ई.) से 97 प्रतिशत (परिवार कल्याण एवं अर्श) थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि प्रारंभिक वर्षों में होने से योजनान्तर्गत समावेशन में कमी थी।

*दिशानिर्देशों के अनुसार, बालिकाओं को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया जाए।*

#### **2.4.8.5 प्रशिक्षण किटों का वितरण**

सबला दिशानिर्देशों की कंडिका 5.2 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण किट की अधिप्राप्ति करने हेतु प्रत्येक वर्ष ₹ 1,000/- प्रति संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालिकाओं को विभिन्न स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों को समझाने के लिये दिया गया था। हमने देखा कि संचालनालय द्वारा वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान प्रशिक्षण किट उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वर्ष 2012-13 के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रशिक्षण किट दो बार उपलब्ध कराई गई जो वर्तमान वर्ष एवं विगत वर्ष की थी क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2011-12 में विलम्ब से दी गई थी। जिला कार्यालयों को विलम्ब से आवंटन दिए जाने के कारण वर्ष 2013-14 में भी प्रशिक्षण किट आंगनवाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

हमने यह भी देखा कि नमूना जांच किए गए सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण राशि (₹ 60.06 लाख<sup>16</sup>) समर्पित की गयी थी, क्योंकि राशि वर्ष के अंत में प्राप्त हुई थी। परिणामस्वरूप बालिकाएं विभिन्न स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों के व्यावहारिक ज्ञान से वंचित रहीं, जो उन्हें किट के माध्यम से प्राप्त हो सकता था।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति में विलम्ब के कारण प्रशिक्षण किट आंगनवाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

#### **2.4.8.6 स्वास्थ्य जांच एवं आयरन फौलिक एसिड सम्पूरण**

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच एवं आयरन फौलिक एसिड का सम्पूरण सहायक नर्स दार्ड के द्वारा किया जाना था और यदि किशोरियों को किसी विशेष उपचार की आवश्यकता है, तो चिकित्सा अधिकारी उनको जिला अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अभिनिर्देशित करेंगे।

चयनित 4 जिलों, जहां सबला योजना लागू थी, के नमूना जांच किए गए 160 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 79 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच एवं 68 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालिकाओं को आयरन की गोलियों का सम्पूरण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

*परियोजना कार्यालय स्तर पर बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच एवं आयरन फौलिक एसिड की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।*

#### **2.4.8.7 किशोरी कार्ड का संधारण**

सबला योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 5.4 के अनुसार, प्रत्येक बालिका हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किशोरी कार्ड संधारित किए जाने थे। कार्ड में वजन, बॉडी मास सूचकांक, आयरन फौलिक एसिड सम्पूरण तथा सेवाएं जैसे-परामर्श सत्र, प्राप्त किया

आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रशिक्षण किट प्रदाय नहीं की गई

आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच नहीं की गई

<sup>16</sup> बालाघाट (₹ 16.50 लाख), झाबुआ (₹ 12.00 लाख), नीमच (₹ 9.57 लाख) एवं सागर (₹ 21.99 लाख)।



गया टेक होम राशन (टी.एच.आर.) इत्यादि के बारे में जानकारी होती है। हमने देखा कि 15.44 लाख किशोरी कार्डों<sup>17</sup> की आवश्यकता के विरुद्ध आयुक्त द्वारा जुलाई 2011 में 12.00 लाख कार्डों की आपूर्ति के आदेश दिए। आपूर्ति जिलों को अक्टूबर 2012 में की गई थी।

आंगनवाडी केन्द्रों में किशोरी कार्डों का कम वितरण (40 प्रतिशत)

हमने देखा कि नमूना जांच किए गए 4 जिलों में, आवश्यक 3.89 लाख किशोरी कार्ड के विरुद्ध 2.34 लाख कार्ड (60 प्रतिशत) की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

तालिका-7: उपलब्ध किशोरी कार्ड की उपलब्धता की स्थिति

जिले का नाम	नामांकित बालिकाएँ	आपूर्ति किए गए किशोरी कार्ड	कमी (प्रतिशत)
सागर	1,51,419	75,350	76,069 (50)
नीमच	49,960	44,595	5,365 (11)
बालाघाट	1,07,447	66,871	40,576 (38)
झाबुआ	80,395	47,515	32,880(41)
योग	3,89,221	2,34,331	1,54,890 (40)

(स्रोत-जिला कार्यालयों एवं संचालनालय द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, नमूना जांच किए गए 160 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 31 आंगनवाड़ी केन्द्रों ने कोई किशोरी कार्ड प्राप्त नहीं किए, 86 आंगनवाड़ी केन्द्रों ने अपेक्षित किशोरी कार्ड प्राप्त नहीं किए तथा केवल 43 आंगनवाड़ी केन्द्रों को उनकी आवश्यकता अनुसार किशोरी कार्ड प्राप्त हुए थे। किशोरी कार्डों के कम वितरण करने से आयरन फौलिक एसिड सम्पूरण, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सत्रों में उपस्थिति एवं प्रत्येक बालिका को टेक होम राशन उपलब्ध कराने से संबंधित जानकारी आंगनवाड़ी केन्द्रों में संधारित नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2011-12 के लिए जिलों को किशोरी कार्ड बेस लाईन डाटा के आधार पर उपलब्ध कराए गए।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि किशोरी कार्डों के लिये दिया गया आदेश जिलों के बेसलाईन सर्वे डाटा के अनुसार आवश्यकता से कम था।

#### 2.4.8.8 विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण

सबला योजना के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं को एकीकृत रूप से देना था जिसे विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न स्तर पर संभालना था। योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन हेतु जिला/परियोजना अधिकारियों द्वारा इस योजना की सेवाओं के साथ शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, युवा मामले विभाग, श्रम विभाग तथा पंचायती राज संस्थानों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का अभिसरण किया जाना था।

विभिन्न विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों का अभिसरण जिला/परियोजना स्तर पर नहीं किया गया

जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों से अभिसरण के कोई अभिलेख, यदि कोई हो, लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। तथापि, जिला कार्यक्रम अधिकारी नीमच द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभागों से अभिसरण किया गया। इस तरह, बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावशाली समन्वय एवं कार्यान्वयन को प्राप्त करने का सबला का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तथ्य स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ अभिसरण के अभिलेख रखने के निर्देश दिए जाएंगे।

<sup>17</sup>

15 जिलों के बेसलाईन डाटा के अनुसार जहां सबला कार्यान्वित थी।

योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सभी स्तरों पर विभिन्न सेवाओं को एकीकृत रूप देना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाए।

#### 2.4.8.9 बालिकाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना

भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार, 11 से 14 वर्ष की आयु समूह की 'विद्यालय न जाने वाली' बालिकाओं तथा 15 से 18 वर्ष की आयु समूह की सभी बालिकाओं को टेक होम राशन पूरक पोषण आहार के रूप में वर्ष में 300 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाना था। योजनान्तर्गत, 900 ग्राम की सोया बर्फी/खिचड़ी के टेक होम राशन पैकेट बालिकाओं को प्रति सप्ताह दिए गए थे। वर्ष में 300 दिन टेक होम राशन उपलब्ध कराने के लिए, प्रत्येक बालिका को वर्ष में कम से कम 50 पैकेट (6 दिन के लिये एक पैकेट) दिया जाना था।

पोषक आहार घटक के अंतर्गत लाभार्थियों का समावेशन कम था

हमने पाया कि राज्य में सबला योजना के अंतर्गत टेक होम राशन उपलब्ध कराने में 11 प्रतिशत से 21 प्रतिशत की कमी थी, जैसा कि तालिका-5 में दर्शाया गया है। टेक होम राशन की भंडार पंजी, पूरक पोषण आहार अभिलेख तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी नीमच द्वारा प्रदत्त बालिकाओं के पूरक पोषण आहार हेतु दर्ज आंकड़ों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान टेक होम राशन सभी नामांकित बालिकाओं को उपलब्ध कराने के लिए कुल आवश्यक मात्रा 42.07<sup>18</sup> लाख पैकेट के स्थान पर 30.08 लाख पैकेट (72 प्रतिशत) आपूर्ति की गई थी। परिणामस्वरूप 23,957 बालिकाएं (28 प्रतिशत) या तो पूरक पोषण आहार से वंचित रहीं या 84,131 बालिकाओं को 300 दिनों से कम टी.एच.आर उपलब्ध कराया गया, जैसा कि तालिका-8 में दर्शाया गया है।

तालिका-8: नीमच जिले में टेक होम राशन उपलब्ध कराने में कमी

वर्ष	पूरक पोषण आहार हेतु नामांकित बालिकाएं	आवश्यक टी.एच.आर. पैकेट	प्राप्त टी.एच.आर. पैकेट्स	टी.एच.आर. की कमी	टी.एच.आर.कम होने से वंचित बालिकाओं की संख्या	वंचित बालिकाओं का प्रतिशत
2011-12	28,753	14,37,650	9,37,460	5,00,190	10,004	37
2012-13	26,754	13,37,700	11,03,800	2,33,900	4,678	17
2013-14	28,624	14,31,200	9,67,440	4,63,760	9,275	32
योग	84,131	42,06,550	30,08,700	11,97,850	23,957	28

(स्रोत:-जिला कार्यक्रम अधिकारी नीमच द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

लेखा परीक्षा में अन्य चयनित जिलों में कमी नहीं देखी गई एवं वजन, लागत, मात्रा तथा पोषण गुणवत्ता भारत सरकार के दिशानिर्देशों के समान थे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि शत प्रतिशत बालिकाओं को टी.एच.आर. से लाभान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि बालिकायें जो सभ्रांत परिवार से थी, उनके द्वारा टी.एच.आर. नहीं लिया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि सबला योजना के पोषण घटक अंतर्गत नामांकित सभी बालिकाओं को मानक के अनुरूप पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाना था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

#### 2.4.8.10 अनुवीक्षण

सबला अंतर्गत, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक राज्य स्तरीय अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जाना था जिनकी तिमाही रूप से या जब आवश्यक हो, बैठक आयोजित की जानी थी। राज्य स्तरीय समिति का गठन मार्च 2011 में किया गया था। तथापि, जुलाई 2014 तक कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई।

अनुवीक्षण  
समिति की  
बैठकों का  
आयोजन नहीं  
किया गया था

जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति एवं परियोजना स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाना था। जिनकी क्रमशः प्रत्येक त्रैमासिक एवं एक मास में एक बैठक आयोजित की जानी थी। हमने देखा कि सागर जिले में परियोजना स्तर एवं जिला स्तर पर अनुवीक्षण समिति का गठन नहीं किया गया। नीमच एवं झाबुआ जिलों में यद्यपि दोनों स्तरों पर समितियों का गठन (क्रमशः मार्च 2011 एवं मई 2011 में) किया गया, लेकिन पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण के लिये त्रैमासिक बैठक आयोजित नहीं की गई थी। बालाघाट जिले में, वर्ष 2011-14 के दौरान जिला स्तर पर निर्धारित 12 बैठकों के स्थान पर केवल 4 बैठकों का आयोजन किया गया। 16 नमूना जांच किए गए परियोजनाओं में से, केवल वारासिवनी एवं कटंगी परियोजनाओं में मासिक बैठकें आयोजित की गईं।

इस प्रकार, सभी स्तरों पर अनुवीक्षण अपर्याप्त था जिससे योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तथ्य स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि दिशानिर्देश में निर्धारण के अनुसार अनुवीक्षण समितियों को बैठकों का आयोजन करने हेतु निर्देश दिए जाएंगे।

*दिशानिर्देशों के अनुसार योजना की प्रगति की समीक्षा एवं सुधारक कदम उठाने के लिये, यदि आवश्यक हो, तो सभी स्तरों पर अनुवीक्षण समितियों का गठन एवं नियमित बैठकों का आयोजन किया जाए।*

#### 2.4.9 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (के.एस.पी.वाई.)

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, राज्य प्रवर्तित योजना, राज्य के सभी 51 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को, विद्यालयों में उनके नामांकन के समय जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं, कक्षा छठवीं के लिये ₹ 500, कक्षा नौवीं के लिये ₹ 1000 एवं कक्षा ग्यारहवीं के लिये ₹ 3000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। प्रोत्साहन राशि हितग्राही के बैंक खाते में भुगतान की जानी थी। तथापि, प्रोत्साहन राशि के नगद में भुगतान हेतु उन्हीं संस्थाओं को अनुमति दी गई थी, जहां बैंक उपलब्ध नहीं थे।

योजना के अंतर्गत, 2009-14 की अवधि के दौरान आवंटित ₹ 255.94 करोड़ में से ₹ 241.70 करोड़ व्यय किए गए, जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका-9: 2009-14 की अवधि के दौरान वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
आवंटन	34.75	41.71	51.72	60.74	67.02	255.94
व्यय	34.24	40.18	51.45	57.26	58.57	241.70
बचत	0.51	1.53	0.27	3.48	8.45	14.24

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास/  
विकास खण्ड शिक्षा  
अधिकारियों/प्राचार्यों  
के बैंक खातों में ₹ 1.  
25 करोड़ प्रोत्साहन  
राशि पड़ी हुई थी

2009-14 की अवधि के दौरान, नमूना जांच किए गए 13 जिलों में, प्रावधानित ₹ 67.98 करोड़ के विरुद्ध ₹ 65.60 करोड़ व्यय किए गए थे। हमने देखा कि जिला कार्यालयों द्वारा जारी किए गए ₹ 65.60 करोड़ में से ₹ 1.25 करोड़ की कुल राशि छः जिलों में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्यों के बैंक खातों में पड़ी हुई थी, जैसा कि परिशिष्ट 2.33 में दर्शाया गया है और जो कि शासकीय खाते में जमा नहीं कराई गई थी।

#### 2.4.9.1 हितग्राहियों का समावेशन

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के लिये पहचान की गई बालिकाओं की संख्या या संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का कोई अभिलेख नहीं था। इस योजना के अंतर्गत शामिल हुए हितग्राहियों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार थी:

## तालिका-10: कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उपलब्धियों की स्थिति

(आंकड़े लाख में)

कक्षा	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा छठवीं, नौवीं एवं ग्यारहवीं में सम्मिलित हुई विद्यार्थियों की संख्या														
	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
	अ. जा	अ.ज. जा.	योग	अ. जा	अ.ज. जा.	योग	अ. जा	अ.ज. जा.	योग	अ. जा	अ.ज. जा.	योग	अ. जा	अ.ज. जा.	योग
6	1.19	1.23	2.42	1.33	1.46	2.79	1.42	1.78	3.20	1.62	1.83	3.45	1.40	1.87	3.27
9	0.57	0.38	0.95	0.67	0.51	1.18	0.92	0.75	1.67	1.06	0.93	1.99	0.91	1.01	1.92
11	0.18	0.14	0.32	0.25	0.20	0.45	0.30	0.25	0.55	0.30	0.28	0.58	0.28	0.36	0.64
योग	1.94	1.75	3.69	2.25	2.17	4.42	2.64	2.78	5.42	2.98	3.04	6.02	2.59	3.24	5.83

(स्रोत-विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

योजनान्तर्गत, नमूना जांच किए गए 13 जिलों में, 2.79 लाख अनुसूचित जाति एवं 4.19 लाख अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की पहचान की गई थी, इनमें से 2.76 लाख अनुसूचित जाति (99 प्रतिशत) एवं 4.13 लाख अनुसूचित जनजाति (99 प्रतिशत) छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया था।

## 2.4.9.2 अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त किये बिना लाभ दिए गए

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की स्वीकृति के लिये पात्रता मानदंड अनुसार ही योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।

राज्य छात्रवृत्ति नियम (1972) एवं आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा जारी निर्देश (जुलाई 2011) के अनुसार, पात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि जारी करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र एवं माता-पिता के आयकर दाता न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

हमने देखा कि चयनित 13 जिलों में से 9 जिलों में बालिकाओं की पात्रता सुनिश्चित किए बिना 9,189 बालिकाओं को ₹ 1.48 करोड़ प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया गया। 8 जिलों<sup>19</sup> की 7,354 बालिकाओं को (13 विद्यालयों के) आवेदन पत्र एवं आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना लाभ दिया गया जबकि 2009-14 की अवधि के दौरान 3 जिलों<sup>20</sup> में 1,835 छात्राओं को (चार विद्यालयों की) जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना लाभ दिया गया, जैसा कि परिशिष्ट 2.34 में दर्शाया गया है। अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में बालिकाओं की पात्रता लेखा परीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा तथ्य स्वीकार किया एवं बताया कि आवेदन-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए जा सके थे एवं भविष्य में प्राप्त किए जाएंगे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिवों, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि जिला अधिकारियों को मानदण्डों के अनुसार अभिलेखों को संधारित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

## 2.4.9.3 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का विलंब से वितरण किया जाना

हमने देखा कि जिला प्राधिकारियों के पास राशि उपलब्ध होने के बावजूद विद्यालयों को 02 से 15 माह तक के विलंब से राशि जारी की गई थी। चयनित 62 माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 34 विद्यालयों (12 जिलों) में 10,332 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं से संबंधित प्रोत्साहन राशि ₹ 1.25 करोड़ का 02 से 18 माह तक के विलंब से भुगतान किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 2.35 में दर्शाया गया है। विलंब का कारण संस्था प्रमुखों द्वारा स्वीकृतियां/प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत न करना एवं जिला कार्यालयों द्वारा विलंब से राशि जारी करना था।

पात्रता के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये बिना बालिकाओं को लाभान्वित किया गया

प्रोत्साहन राशि के वितरण में 2 से 18 माह का विलंब था

19 बालाघाट, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, होशंगाबाद, नीमच, सागर एवं सिवनी।

20 बुरहानपुर, डिण्डौरी एवं ग्वालियर।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिवों, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि प्रोत्साहन राशि के विलम्ब से वितरण का मुख्य कारण बालिकाओं के बैंक खाता न खुल पाना, जिला कार्यालयों द्वारा आवंटन का देरी से आहरण करना तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से वास्तविक मांग के अनुसार अतिरिक्त राशि प्रदाय करने में विलम्ब था।

*विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन एवं प्रतिधारण पर प्रतिकूल प्रभाव को टालने के लिए विभाग को प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।*

#### 2.4.9.4 प्रोत्साहन राशि का नगद भुगतान

नमूना जांच किए गए 13 जिलों के अंतर्गत भुगतान प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि 2009-14 की अवधि के दौरान, 6 जिलों<sup>21</sup> के 841 विद्यालयों<sup>22</sup> में 69,348 छात्राओं को ₹ 6.82 करोड़ नगद भुगतान किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-2.36** में दर्शाया गया है। इन प्रकरणों में राशि का दुरुपयोग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। 7 अन्य जिलों में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर, शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों ने बताया कि छात्राओं के बैंक खाते न खुल पाने के कारण प्रोत्साहन राशि का नगद में भुगतान किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिवों, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014-15 से प्रोत्साहन राशि स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्राओं/उनके माता-पिता के बैंक खाते में भुगतान की जावेगी।

#### 2.4.9.5 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में बालिकाओं की संख्या में कमी होना

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की साक्षरता में सुधार एवं उनकी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में निरंतर शिक्षा के लिए प्रारम्भ की गई थी।

हमने पाया कि 2009-14 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के नामांकन में सुधार हुआ था। हितग्राहियों की संख्या में वर्ष 2009-10 में 1.94 लाख (अ.जा.) एवं 1.75 लाख (अ.ज.जा.) से वर्ष 2013-14 तक 2.59 लाख (अ.जा.) एवं 3.24 लाख (अ.ज.जा.) क्रमिक वृद्धि हुई थी (जैसा विवरण **तालिका-10** में दिया गया है)।

इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि वर्ष 2009-10 के दौरान छठवीं कक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्राओं की संख्या 2.42 लाख थी। वर्ष 2012-13 के दौरान नौवीं कक्षा में बालिकाओं की समान संख्या उपलब्ध होनी चाहिए थी। हमने पाया कि वर्ष 2012-13 के दौरान नौवीं कक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की वास्तविक संख्या 1.99 लाख थी अर्थात् 18 प्रतिशत की कमी हुई।

वर्ष 2010-11 में छठवीं कक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या (2.79 लाख) के विरुद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान नौवीं कक्षा में बालिकाओं की संख्या (1.92 लाख) काफी कम थी जो 31 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है।

इसी प्रकार, वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान नौवीं कक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या क्रमशः 0.95 लाख, 1.18 लाख

<sup>21</sup> छिंदवाड़ा (3), झाबुआ (4), मंडला (825+5), नीमच (1), सिवनी (1) एवं उमरिया (2)।

<sup>22</sup> नमूना जांच किए गए 65 विद्यालयों में से सम्मिलित 16 विद्यालयों एवं मंडला जिले के 825 अन्य विद्यालयों (902 विद्यालयों में से) जिनके भुगतान प्रमाणक की पृथक से जांच की गई।

हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का नगद में भुगतान किया गया

एवं 1.67 लाख थी। वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान 11 वीं कक्षा में बालिकाओं की संख्या समान उपलब्ध होनी चाहिए थी। हमने देखा कि इन वर्षों के दौरान 11 वीं कक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या क्रमशः 0.55 लाख, 0.58 लाख एवं 0.64 लाख थी जो 11 वीं कक्षा में बालिकाओं की 42 प्रतिशत, 51 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

इस तरह, यद्यपि राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के कुल नामांकन में वृद्धि हुई थी, परन्तु माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्राओं की संख्या में कमी हुई।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने बताया कि बालिकाओं द्वारा विद्यालय छोड़ने को कम करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग ने बताया कि योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हुई थी। परन्तु, उच्चतर कक्षाओं में छात्राओं की संख्या में कमी के संदर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

तथ्य यह है कि योजना के उद्देश्य की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हुई थी।

#### 2.4.9.6 अनुवीक्षण

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देश (अक्टूबर 1986) के अनुसार, जनपद के विकास खण्ड अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से योजना की प्रगति की समीक्षा के लिये उत्तरदाई हैं एवं योजना का मूल्यांकन आदिम जाति विकास एवं अनुसंधान संस्था द्वारा किया जाना था। हमने पाया कि वर्ष 2009-14 के दौरान योजना का किसी भी स्तर पर अनुवीक्षण नहीं किया गया था। निर्धारित स्तरों पर अनुवीक्षण नहीं किए जाने से छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का विलम्ब से वितरण, सभी स्तरों पर राशि का अवरूद्ध रहना ध्यान में नहीं आया।

इसके अतिरिक्त, योजना का मूल्यांकन आदिम जाति विकास एवं अनुसंधान संस्था द्वारा नहीं किया गया था।

शासन द्वारा बताया गया कि योजना का मूल्यांकन आदिम जाति विकास एवं अनुसंधान संस्था के माध्यम से कराया जाएगा।

*योजना के प्रभावकारी असर के लिये, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यान्वयन का अनुवीक्षण किया जाए।*

#### 2.4.10 निष्कर्ष

- किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत, आंगनवाड़ीवार सर्वेक्षण के माध्यम से बालिकाओं की पहचान नहीं की गई थी। चयनित बालिकाओं की सूची भी पात्रता की जांच हेतु ग्राम सभा को नहीं भेजी गई थी। किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं के समावेशन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य जांच कहीं भी नहीं की गई।

- सबला के अंतर्गत, बालिकाओं के लिये 'पोषण' घटक के लागू होने से कार्यक्रम में सुधार हुआ; 79 प्रतिशत से 89 प्रतिशत चयनित बालिकाएं लाभान्वित हुईं। फिर भी, सबला के अंतर्गत प्रारम्भ किए गए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण एवं जीवन कौशल शिक्षा पर 'मार्गदर्शन एवं परामर्श' घटक का समावेशन लक्ष्य की तुलना में काफी कम था। चयनित 160 आंगनवाड़ियों में से 79 में स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी।

- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर अध्ययन हेतु

अनुवीक्षण तंत्र का अभाव

प्रोत्साहित करने का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि बालिकाएं उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर में और आगे उच्चतर माध्यमिक स्तर में कम हुईं। छात्राओं को वित्तीय सहायता देने में 18 महीनों तक का विलम्ब हुआ था।

- किशोरी शक्ति योजना एवं सबला कार्यक्रमों का अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अनुवीक्षण समितियों की बैठकों की अत्यधिक कमी थी। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का अनुवीक्षण किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था।

## लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

### 2.5 आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन

#### 2.5.1 परिचय

आदिवासी उप योजना (टी.एस.पी.) भारत सरकार द्वारा आदिवासी (अनुसूचित जन जाति) एवं अन्य लोगों के बीच विकास के अंतर को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या, कुल जनसंख्या (7.26 करोड़) का 21 प्रतिशत है। योजना आयोग द्वारा विकसित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों को वार्षिक योजना प्रस्तावों में टी.एस.पी. के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में (स्वास्थ्य क्षेत्र सहित) उचित निधि का प्रावधान सुनिश्चित करना था। तथापि टी.एस.पी. निधि के लिए पृथक लेखा संधारण हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत टी.एस.पी. की निधियों का प्रवाह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) की 21 योजनाओं एवं गैर एन.आर.एच.एम. की सात योजनाओं में था। दो गैर एन.आर.एच.एम. योजनाएं यथा— राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात रोकथाम—नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) एवं राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.) का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2011-14 के लिए किया गया।

असंचारी रोगों यथा— कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात की घटनाओं को कम करने की दृष्टि से एन.पी.सी.डी.सी.एस. वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2010 में प्रारंभ किए गए एन.पी.एच.सी.ई. का उद्देश्य राज्य की विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों पर वरिष्ठ नागरिकों को पृथक एवं विशिष्टीकृत व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इन कार्यक्रमों को राज्य के पांच आदिवासी जिलों<sup>2</sup> में लागू किया गया।

राज्य स्तर पर विभाग के प्रमुख सचिव कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदाई हैं, जिनकी सहायता संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा मिशन संचालक, राज्य स्वास्थ्य समिति (रा.स्वा.स.) के द्वारा की जाती है। दोनों कार्यक्रमों के समग्र कार्यान्वयन व निगरानी के लिए राज्य स्तर पर राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ, जिसके प्रमुख उप संचालक तथा जिला स्तर पर जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ, जिसके प्रमुख मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्थापित किए गए थे।

#### 2.5.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा के व्यापक उद्देश्य यह देखना था कि:

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना अच्छी तरह डिजाइन की गई थी;
- टी.एस.पी. अंतर्गत समुचित वित्तीय प्रावधान निर्धारित किया गया था;
- कार्यक्रमों के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं कुशलता पूर्वक प्रदाय की गई थी; और
- प्रभावी निगरानी तंत्र उपलब्ध था।

<sup>1</sup> (i) राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात रोकथाम—नियंत्रण कार्यक्रम (ii) राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (iii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (iv) ट्रॉमा केयर की क्षमता निर्माण हेतु राज्यों को सहायता (v) स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (vi) राज्य औषध नियामक पद्धति का सुदृढीकरण (vii) राज्य खाद्य नियामक पद्धति का सुदृढीकरण।

<sup>2</sup> छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, झाबुआ तथा रतलाम।



### 2.5.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

इन कार्यक्रमों को राज्य के 21 आदिवासी जिलों में से पांच जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा था। हमने समीक्षा के लिए चयनित राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ के अतिरिक्त छिंदवाड़ा, धार और रतलाम जिलों में स्थापित तीन जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ, 32 में से नौ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र<sup>3</sup> (सी.एच.सी.), 138 में से 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) तथा 858 में से 34 उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एच.एस.सी.) के अभिलेखों की नमूना जांच की।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (डी.एच.एस.)/संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के साथ जून 2014 में आयोजित प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं पद्धति पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव तथा संबंधित अधिकारियों के साथ नवम्बर 2014 में निर्गम सम्मेलन किया गया था। विभाग के मतों को संबंधित कडिकाओं में सम्मिलित किया गया है।

### 2.5.4 वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2011-14 के दौरान राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन का मात्र सात प्रतिशत टी.एस.पी. (स्वास्थ्य क्षेत्र) हेतु आवंटित किया गया था। एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. कार्यक्रमों के अंतर्गत टी.एस.पी. के अंतर्गत आवंटन कुल आवंटन का क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत था।

एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2011-14 की अवधि में उपलब्ध निधि एवं व्यय का वर्षवार ब्यौरा तालिका-1 के अनुसार थे-

तालिका-1: एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत उपलब्ध निधियां एवं किया गया व्यय  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	केन्द्रीय अंश			राज्य अंश	ब्याज एवं अन्य प्राप्तियां	राज्य असंचारी रोग सेल स्तर पर उपलब्ध कुल निधियां	वर्ष के दौरान किया गया व्यय <sup>4</sup>	अंतिम शेष (प्रतिशत)
		सामान्य एवं अनुसूचित जाति उप योजना	आदिवासी उप योजना	कुल					
<b>एन.पी.सी.डी.सी.एस.</b>									
2011-12	1.27	6.75	1.70	8.45	1.92	0.13	11.77	0.03	11.74 (100)
2012-13	11.74	0.07	0	0.07	0.32	0.43	12.56	2.93	9.63 (77)
2013-14	9.63	3.68	0.94	4.62	0.09	0.12	14.46	3.18	11.28 (78)
<b>कुल</b>		<b>10.5</b>	<b>2.64</b>	<b>13.14</b>	<b>2.33</b>	<b>0.68</b>	<b>17.42</b>	<b>6.14</b>	<b>11.28</b>
<b>एन.पी.एच.सी.ई.</b>									
2011-12	1.04	1.68	0	1.68	0.68	0.27	3.67	0.20	3.47 (94)
2012-13	3.47	3.78	0.79	4.57	1.14	0.20	9.38	1.51	7.87 (84)
2013-14	7.87	0	0	0	0	0	7.87	2.37	5.50 (70)
<b>कुल</b>		<b>5.46</b>	<b>0.79</b>	<b>6.25</b>	<b>1.82</b>	<b>0.47</b>	<b>9.58</b>	<b>4.08</b>	<b>5.50</b>

(स्रोत : राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ)

- एन.पी.सी.डी.सी.एस. के अंतर्गत क्रमशः 77 से 100 प्रतिशत तथा एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत 70 से 94 प्रतिशत निधियों का अल्प उपयोग हुआ था। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न गतिविधियां यथा-वृद्धावस्था क्लीनिक एवं वार्ड की स्थापना,

<sup>3</sup> दमुआ, धनौरा, हरई, जमई, कुक्षी, नामली, पिथमपुर, सैलाना तथा तामिया।

<sup>4</sup> राज्य एवं जिला स्तर पर।

मशीनरी, उपकरण, औषधियों की अधिप्राप्ति, मानव संसाधन की तैनाती, प्रशिक्षण तथा जन जागरुकता संचालित नहीं की गई, जैसा कि पैरा 2.5.6 एवं 2.5.7 में उल्लिखित है।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान एन पी सी डी सी एस एवं एन पी एच सी ई में क्रमशः 77 से 100 प्रतिशत एवं 70 से 97 प्रतिशत निधियों का उपयोग नहीं किया गया था

- भारत सरकार द्वारा तीन घटकों यथा-सामान्य शीर्ष, आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाति उप योजना में निधियां जारी की गई थी। तथापि इन तीन घटकों की राशियों को एक समूह कोष में मिला दिया गया तथा राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा टी.एस.पी. निधि चिन्हित किए बिना जिलों को उसमें से राशि ₹ 3.43 करोड़ (₹ 2.64 करोड़ एन.पी.सी.डी.सी.एस. के अंतर्गत एवं ₹ 0.79 करोड़ एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत) जारी की गई थी। इसके साथ ही किसी भी स्तर पर व्यय के पृथक अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे और ना ही टी.एस.पी. अंतर्गत भारत सरकार को पृथक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए थे।

- वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत टी.एस.पी. घटक के अंतर्गत निधि क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत, जारी कुल केन्द्रांश में से थी। हमने पाया कि जिन पांच जिलों, में ये कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे थे, उनमें आदिवासी जनसंख्या 44 प्रतिशत थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि निधियों का अनुपयोगी रहने का मुख्य कारण मानव संसाधन की कमी थी। यह भी बताया कि टी.एस.पी. के लिए पृथक से योजना नहीं बनाई गई थी तथा न ही टी.एस.पी. के लिए पृथक लेखा संधारण के लिए भारत सरकार से कोई निर्देश प्राप्त हुए थे।

*उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*

### 2.5.5 योजना

कार्यक्रम को दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में दोनों कार्यक्रमों की विभिन्न गतिविधियों की समग्र योजना, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन तथा निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य एवं जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ उत्तरदायी थे। हमने पाया कि:

राज्य एवं जिला कार्य योजना तथा भौतिक, वित्तीय एवं महामारी प्रोफाइल पर डाटाबेस तैयार नहीं किया गया

- वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान राज्य कार्य योजना या जिला कार्य योजना तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के लिए डाटाबेस तैयार नहीं किए गए थे। वर्ष 2013-14 के लिए राज्य कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी गई थी, जिसका अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त नहीं (जुलाई 2014) हुआ था। दिशा निर्देश के अनुसार, कार्य योजना में प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए वित्तीय, भौतिक एवं महामारी प्रोफाइल के आंकड़े राज्य एवं जिला स्तर पर संधारित करने थे। तथापि, इस प्रकार के कोई आंकड़े राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ अथवा नमूना परीक्षित जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा संधारित नहीं किए गए थे।

- दिशानिर्देश के अनुसार प्रभावकारी रोकथाम, जांच, रेफरल एवं उपचार रणनीति के लिए समुदायों के बीच व्यापक ज्ञान आधार के लिए एन.आर.एच.एम., एन.टी.सी.पी.<sup>5</sup> तथा आयुष<sup>6</sup> इत्यादि योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर राज्य असंचारी रोग सेल द्वारा बताया गया कि एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. की गतिविधियों का अन्य संबंधित कार्यक्रमों से अभिसरण करने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की गई थी।

<sup>5</sup> राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम।

<sup>6</sup> आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं हौम्योपैथी।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण हेतु आगामी वर्ष के कार्य योजना तैयार करते समय ध्यान रखा जाएगा।

### 2.5.6 एन.पी.सी.डी.सी.एस. का कार्यान्वयन

एन.पी.सी.डी.सी.एस. के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाकर रोकथाम, शीघ्र निदान, उपचार, मानव संसाधन क्षमता निर्माण, निगरानी एवं अनुवीक्षण के लिए रणनीतियां अपनाई जानी थी।

#### 2.5.6.1 असंचारी रोग के बारे में जन जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां

असंचारी रोगों के जोखिम वाले कारकों की रोकथाम के लिए, असंचारी रोगों के बारे में समूह माध्यम (mass media), सामुदायिक शिक्षा एवं अंतर्व्यक्तिक संवाद के द्वारा जन जागरुकता लाते हुए व्यवहार परिवर्तन किया जाना था। दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय असंचारी रोग प्रकोष्ठ को असंचारी रोगों के बारे में जनसमुदाय को जोखिम वाले कारकों को बताने तथा उपलब्ध सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट माध्यम से सूचित करने के लिए आदर्श सूचना (prototype information), शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) सामग्री तैयार करना था। ये सामग्री राज्यों को प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा प्रदाय की जानी थी। इसके साथ राज्य, जिला एवं सी.एच.सी. स्तर पर स्वास्थ्य उन्नयन एवं असंचारी रोगों की रोकथाम के लिए संचार संदेश, मुद्रित सामग्री वितरण तथा सामाजिक गतिशीलता के द्वारा जन जागरुकता लाई जानी थी।

जन-जागरुकता के लिए आई ई सी गतिविधियां आयोजित नहीं की गई

- जैसा कि राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अवधि 2011-14 के दौरान कोई आई.ई.सी. सामग्री केन्द्रीय असंचारी रोग प्रकोष्ठ से प्राप्त नहीं हुई। इसके साथ राज्य एवं सी.एच.सी. स्तर पर कोई आई.ई.सी. गतिविधियां आयोजित नहीं की गई थी। तथापि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान जिला स्तर पर कुछ गतिविधियां आयोजित की गई थीं, जिन पर उपलब्ध कुल निधि ₹ 6.13 लाख के विरुद्ध ₹ 1.86 लाख का व्यय हुआ। हमने पाया कि चयनित जिलों में नर्स, परामर्शदाता, देखभाल समन्वयक की अनुपलब्धता/कमी के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान कोई अंतर्व्यक्तिक संवाद अभियान आयोजित किया गया था। तथापि नमूना परीक्षित जिलों में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान मात्र दो अभियान आयोजित किए गए थे, जिनमें 403 प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे।

- जिला स्तर पर जन जागरुकता के लिए जन-संचार एवं सामुदायिक शिक्षा हेतु बैनर्स, पोस्टर्स इत्यादि राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ से प्राप्त नहीं हुए थे तथा नमूना परीक्षित दो जिलों यथा- धार एवं रतलाम में कोई संदेश रेडियो या दूरदर्शन से प्रसारित नहीं किया गया था।

इस प्रकार आई.ई.सी. गतिविधियां परिकल्पना के अनुसार आयोजित नहीं की गई थी तथा व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से असंचारी रोगों की रोकथाम का उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि मानव संसाधन की व्यापक कमी के कारण आई.ई.सी. गतिविधियां संतोषजनक रूप से संपन्न नहीं की जा सकी।

*असंचारी रोगियों के बीच व्यवहार परिवर्तन के लिए जन जागरुकता लाई जानी चाहिए।*

### 2.5.6.2 शीघ्र निदान की रणनीति

दीर्घ कालिक असंचारी रोगों के शीघ्र निदान के लिए जिला अस्पताल, सी.एच.सी. एवं एस.एच.सी. स्तर पर उपयुक्त परख करनी थी तथा संदिग्ध मामलों में या तो जांच की जानी थी अथवा उन्हें उच्च स्तर के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर भेजना था। हमने निम्नानुसार पाया:

दो नमूना जांच किए गए जिलों में परख शिविर आयोजित नहीं किए थे तथा विद्यालय आधारित मधुमेह परख कार्यक्रम पर प्रारंभिक अध्ययन आयोजित नहीं किया गया

- वर्ष 2011-14 की अवधि में धार तथा रतलाम जिलों में परख शिविर आयोजित नहीं किए गए थे। छिंदवाड़ा जिले में वर्ष 2013-14 में परख शिविर आयोजित किए गए थे, जिनमें 7.39 लाख व्यक्तियों की असंचारी रोगों के लिए की परख की गई थी।

- भारत सरकार द्वारा (2011-12) रतलाम जिले में प्रारंभिक अध्ययन के लिए विद्यालय स्तर पर मधुमेह के लिए परख कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। परख कार्यक्रम में पांच से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना था। हमने पाया कि रतलाम जिले में निधियों की उपलब्धता के बावजूद प्रारंभिक अध्ययन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि मानव संसाधन की कमी के कारण परख गतिविधियां नहीं की जा सकी तथा प्रारंभिक अध्ययन की अव्ययित निधि भारत सरकार को वापस की जाएगी।

इस प्रकार मानव संसाधन की कमी के कारण असंचारी रोगों के शीघ्र निदान की रणनीति असफल रही।

### 2.5.6.3 जांच सुविधाओं का अभाव

दिशा निर्देशों के अनुसार जिला असंचारी रोग क्लिनिक पर नौ प्रकार की जांच सुविधाएं<sup>7</sup> उपलब्ध होनी चाहिए थीं। हमने पाया कि जांच सुविधाओं की अधिप्राप्ति के लिए वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में आवंटित ₹ 8.13 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 4.29 करोड़ का ही उपयोग किया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक जांच सुविधाएं जिनमें मुख्यतः कैंसर रोग की जांच के लिए यथा- कॉलपोस्कोपी एवं मेमोग्राफी जिला असंचारी रोग क्लिनिकों पर उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि परिशिष्ट-2.37 में वर्णित है। इसके साथ दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिला असंचारी रोग क्लिनिक पर कीमोथैरपी सुविधा उपलब्ध रहनी थी। हमने पाया कि यह सुविधा तीन नमूना परीक्षित जिला असंचारी रोग क्लिनिकों में उपलब्ध नहीं थी।

जिला एवं सी.एच.सी. स्तर के असंचारी रोग क्लिनिकों में आवश्यक जांच सुविधाओं का अभाव था

दिशा निर्देशों के अनुसार पांच प्रकार की आवश्यक जांच सुविधाएं<sup>8</sup> सी.एच.सी. स्तर के असंचारी रोग क्लिनिकों पर उपलब्ध होनी चाहिए थी। हमने पाया कि अल्ट्रासाउंड सुविधा नमूना परीक्षित किसी भी सी.एच.सी. क्लिनिक पर उपलब्ध नहीं थीं। इसके साथ आठ सी.एच.सी.<sup>9</sup> में लिपिड प्रोफाइल सुविधा, चार सी.एच.सी.<sup>10</sup> में एक्स-रे सुविधा तथा छः सी.एच.सी.<sup>11</sup> में ई.सी.जी. सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि परिशिष्ट-2.38 में वर्णित है। नमूना परीक्षित जिलों एवं सी.एच.सी. क्लिनिकों द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि अनुपलब्ध सुविधाओं के लिए बाह्य स्रोतों का उपयोग नहीं किया गया तथा आम हृदय रोग, मधुमेह एवं आघात के प्रकरणों के प्रबंधन की सुविधा पांच सी.एच.सी.<sup>12</sup> क्लिनिकों पर उपलब्ध नहीं थी।

<sup>7</sup> रक्त शर्करा, लिपिड प्रोफाइल, गुर्दे कार्य परीक्षण, यकृत कार्य परीक्षण, ई सी जी, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, कॉलपोस्कोपी एवं मेमोग्राफी।

<sup>8</sup> रक्त शर्करा, ई.सी.जी., लिपिड प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड एवं एक्स-रे।

<sup>9</sup> दमुआ, धनौरा, जमई, कुक्षी, नामली, पिथमपुर, सैलाना तथा तामिया।

<sup>10</sup> दमुआ, धनौरा, नामली तथा तामिया।

<sup>11</sup> दमुआ, धनौरा, जमई, कुक्षी, सैलाना तथा तामिया।

<sup>12</sup> दमुआ, धनौरा, कुक्षी, पिथमपुर तथा सैलाना।

#### 2.5.6.4 हृदय उपचार इकाई का सुदृढीकरण

भवन एवं उपकरण की कमी के कारण हृदय उपचार इकाई का सुदृढीकरण नहीं किया जा सका

दिशा निर्देशों के अनुसार, अभिनिर्देशित किए गए रोगियों को समय पर तथा आकस्मिक देखभाल के लिए सात प्रकार के उपकरण<sup>13</sup> जिला हृदय उपचार इकाई के सुदृढीकरण हेतु उपलब्ध कराए जाने थे। हमने पाया कि हृदय रोगियों के लिए आवश्यक उपकरण यथा— 12 चैनल स्ट्रैस ई.सी.जी. जांच उपकरण ट्रेडमिल धार तथा रतलाम जिलों में तथा डेफीब्रिलेटर सहित कार्डियक मॉनिटर रतलाम जिले में उपलब्ध नहीं था। इसके साथ, रतलाम जिले में पृथक हृदय उपचार इकाई स्थापित न होने के कारण अगस्त 2012 से मार्च 2014 के मध्य ₹ 41 लाख की लागत से अधिप्राप्ति किए गए मशीन एवं उपकरण अनुपयोगी पड़े हुए थे। अतः, असंचारी रोगों के मरीजों को गहन हृदय उपचार देखभाल प्रदान नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने तथ्यों पर सहमति व्यक्त करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि एक समय-सीमा निर्धारित कर दी गई, जिसके अनुसार मानव संसाधन की भर्ती, उपकरणों की प्राप्ति तथा सिविल कार्य क्रमशः दिसम्बर 2014, जून 2015 तथा दिसम्बर 2015 तक तक पूर्ण कर लिए जाएंगे।

#### 2.5.6.5 आवश्यक औषधियों की कमी

जिला असंचारी क्लीनिकों में मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात घटक अंतर्गत 29 से 45 प्रतिशत तथा कैंसर घटक अंतर्गत 91 से 100 प्रतिशत औषधियों की कमी पाई गई

दिशा निर्देशों के अनुसार मधुमेह, हृदय रोग तथा आघात घटक के अंतर्गत 38 प्रकार की औषधियां तथा कैंसर घटक के अंतर्गत 22 प्रकार की औषधियां जिला असंचारी रोग क्लीनिकों पर उपलब्ध रहनी थी। हमने पाया कि मधुमेह, हृदय रोग तथा आघात घटक के अंतर्गत 29 से 45 प्रतिशत औषधियां तथा कैंसर घटक के अंतर्गत 91 से 100 प्रतिशत औषधियां तीन नमूना परीक्षित जिला असंचारी रोग क्लीनिकों पर उपलब्ध नहीं थी (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2.39 में)। इस प्रकार जिला असंचारी रोग क्लीनिक, असंचारी रोग के मरीजों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि शेष औषधियां जिला असंचारी रोग क्लीनिकों पर उपलब्ध करा दी जाएंगी।

#### 2.5.6.6 विशेष कैंसर देखभाल के लिए तृतीयक कैंसर केन्द्र

सरकार द्वारा टी.सी.सी. के लिए किसी भी चिकित्सा संस्थान की पहचान नहीं की गई थी

राज्य सरकार द्वारा तृतीयक कैंसर केन्द्र (टी.सी.सी.) योजना के अंतर्गत कैंसर की विशेष देखभाल के लिए, समस्त प्रकार के कैंसरों के संबंध में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुविधाओं सहित, आंचलिक रेफरल कैंसर केन्द्र के रूप में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/जिला अस्पतालों/शासकीय संस्थानों की वित्तीय सहायता प्रदाय किए जाने के उद्देश्य से पहचान की जानी थी। हमने पाया कि राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2011-14 की अवधि में किसी भी चिकित्सा संस्थान की पहचान टी.सी.सी. के रूप में नहीं की गई थी। अतः विशेष उपचार प्रदाय करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि विदिशा जिले में टी.सी.सी. के रूप में पहचान की कार्यवाई प्रगति पर है।

<sup>13</sup> कम्प्यूटराइज्ड ई.सी.जी. मशीन, ऑडिनरी ई.सी.जी. मशीन, 12 चैनल स्ट्रैस ई.सी.जी. टेस्ट इक्यूपमेंट ट्रेडमिल, कार्डियक मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर विथ डेफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर।

### 2.5.6.7 मानव संसाधन का क्षमता निर्माण

दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य एवं जिले स्तर के असंचारी रोग प्रकोष्ठों में सहायता हेतु संविदा कर्मियों को पदस्थ करना था। हमने पाया कि आवश्यक चार पदों<sup>14</sup> के विरुद्ध कोई भी स्टॉफ राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ में तैनात नहीं था।

जिला असंचारी रोग क्लीनिकों पर (85 प्रतिशत) तथा सी एच सी असंचारी रोग क्लीनिकों पर (81 प्रतिशत) मानव संसाधन की कमी थी

आगे, प्रत्येक जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ पर एक जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.ओ.), एक कार्यक्रम सहायक (पी.ए.), एक वित्त सह तार्किक अधिकारी (Finance cum Logistic Officer) एवं एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता थी। हमने पाया कि धार एवं रतलाम में डी.पी.ओ. तथा छिंदवाड़ा, धार एवं रतलाम जिलों में पी.ए. के पद रिक्त थे।

दिशा निर्देशों के अनुसार जिला एवं सी.एच.सी. असंचारी रोग क्लीनिकों के प्रबंध हेतु संविदा आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की जानी थी। पांच जिलों तथा 45 सी.एच.सी. केन्द्रों पर मानव संसाधन की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-2: विभिन्न स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	मानक के अनुसार आवश्यक	कार्यरत	कमी
<b>जिला असंचारी रोग क्लीनिक</b>				
1	डाइबिटोलॉजिस्ट/हृदय रोग विशेषज्ञ/एम डी फिजिशियन	5	0	5
2	मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट	5	0	5
3	साइटो पैथोलॉजिस्ट	5	0	5
4	साइटो पैथोलॉजी तकनीशियन	5	0	5
5	नर्स	20	5	15
6	फिजियोथेरेपिस्ट	5	3	2
7	काउंसलर	10	1	9
8	डाटा एंट्री ऑपरेटर	5	1	4
9	देखभाल समन्वयक	5	0	5
	<b>कुल</b>	<b>65</b>	<b>10</b>	<b>55</b> (85 प्रतिशत)
<b>सी एच सी असंचारी रोग क्लीनिक</b>				
1	चिकित्सक	45	1	44
2	नर्स	90	21	69
3	काउंसलर	45	15	30
4	डाटा एंट्री ऑपरेटर	45	6	39
	<b>कुल</b>	<b>225</b>	<b>43</b>	<b>182</b> (81 प्रतिशत)

(स्रोत: राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला असंचारी रोग क्लीनिकों पर 85 प्रतिशत तथा सी.एच.सी. असंचारी रोग क्लीनिकों पर 81 प्रतिशत मानव संसाधन की कमी थी। इसके अतिरिक्त जिला स्तर के क्लीनिकों में विशेषज्ञों तथा चिकित्सकों के सभी पद रिक्त थे तथा सी.एच.सी. स्तर के 44 क्लीनिकों में चिकित्सकों के पद रिक्त थे।

क्लीनिकों में विशेषज्ञों/चिकित्सकों तथा परा चिकित्सा कर्मचारियों की व्यापक कमी के कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

<sup>14</sup> राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ- राज्य कार्यक्रम अधिकारी (1), कार्यक्रम सहायक (1), वित्त सह तार्किक अधिकारी (1) तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर (1)।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि मानव संसाधन की तैनाती के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा दिसम्बर 2014 तक पूर्ण कर ली जाएगी।

*सभी रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए, जिससे स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदाय की सके।*

### 2.5.7 एन.पी.एच.सी.ई. का कार्यान्वयन

एन.पी.एच.सी.ई. के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामुदायिक शिक्षा तथा जन जागरुकता, उपचार सुविधा का विस्तार, चिकित्सा एवं परा चिकित्सा पेशेवरों की क्षमता निर्माण तथा कार्यक्रम का सतत् अनुवीक्षण की रणनीति अपनाई जानी थी।

#### 2.5.7.1 सामुदायिक शिक्षा एवं जन जागरुकता

एन.पी.एच.सी.ई. के दिशा निर्देशों में भी एन.पी.सी.डी.सी.एस. कार्यक्रम के अनुसार जन जागरुकता उत्पन्न करने की आवश्यकता परिकल्पित की गई थी। तथापि, केंद्रीय एन.सी.डी. प्रकोष्ठ से कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी तथा आई.ई.सी. गतिविधियां आयोजित नहीं की गई थी, जैसा कि पूर्व में ही पैरा 2.5.6.1 में चर्चा की जा चुकी है।

#### 2.5.7.2 क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण आयोजित न होना

एन.पी.एच.सी.ई. के दिशा निर्देशों के परिच्छेद 2.3.6 के अनुसार, राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न सुविधाओं के कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान, अवधि, पाठ्यक्रम आदि का वर्णन करते हुए कार्यक्रम की योजना बनानी थी। हमने पाया कि मानव संसाधन की तैनाती न होने के कारण 2012-14 के दौरान प्रस्तावित 3225 के विरुद्ध 1391 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2.40 में दिया गया है। इस प्रकार वर्ष 2012-14 के दौरान उपलब्ध कुल निधि ₹ 37.88 लाख के विरुद्ध मात्र ₹ 16.59 लाख का उपयोग किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि दिशा निर्देशों के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों को प्रशिक्षण देने के लिए चिन्हित किया जाएगा।

#### 2.5.7.3 वृद्धावस्था वार्ड तथा क्लीनिकों की अनुपलब्धता

दिशा निर्देशों के अनुसार जिला चिकित्सालय (डी.एच.) स्तर पर अंतः रोगियों की देखभाल हेतु 10 बिस्तरों वाले वृद्धावस्था वार्ड की स्थापना की जानी थी तथा प्रत्येक डी.एच., सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. स्तर पर पृथक वृद्धावस्था क्लीनिक स्थापित की जानी थी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2012-14 में उपलब्ध निधि ₹ 3.40 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 1.31 करोड़ का ही उपयोग किया गया था। हमने देखा कि तीनों नमूना परीक्षित जिलों में से धार जिला अस्पताल में वृद्धावस्था वार्ड एवं क्लीनिक स्थापित नहीं थे। नमूना परीक्षित नौ में से आठ सी.एच.सी. में तथा 16 पी.एच.सी. में से किसी में भी वृद्धावस्था क्लीनिक स्थापित नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, नमूना परीक्षित नौ में से आठ सी.एच.सी. में फिजियोथेरेपी व परामर्श हेतु पुनर्वास इकाई उपलब्ध नहीं थी। नमूना परीक्षित 16 में से सात पी.एच.सी. में बुजुर्गों को उपलब्ध कराने हेतु कैलीपर्स व सहायक उपकरण ए.एन.एम. को प्रदाय नहीं किए गए थे। (विवरण परिशिष्ट-2.41 में)

इस प्रकार, कार्यक्रम के अनुरूप बुजुर्गों के इलाज के लिए समर्पित स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित नहीं किया गया था।

प्रस्तावित 3225 कर्मियों के विरुद्ध केवल 1391 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया

वृद्ध लोगों के लिये जिला एवं सी एच सी स्तर पर वृद्धावस्था वार्ड एवं क्लीनिक स्थापित नहीं किए गए थे

#### 2.5.7.4 मानव संसाधन की कमी

दिशा निर्देशों के अनुसार वृद्धावस्था क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी होने पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे जनरल मेडीसिन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ की सेवाओं का जिला अस्पताल के वृद्धावस्था वार्ड व क्लीनिकों में उपयोग किया जाना था। अतिरिक्त कर्मी जैसे मेडीसिन कंसलटेंट, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट इत्यादि की नियुक्ति संविदा आधार पर की जानी थी। हमने देखा कि नमूना परीक्षित तीन जिला चिकित्सालयों में 39 अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता के विरुद्ध 24 की कमी थी। इसके साथ नमूना परीक्षित नौ में से आठ सी.एच.सी.<sup>15</sup> में पुनर्वास कर्मी की नियुक्ति नहीं की गई थी, जैसा कि परिशिष्ट-2.42 में दर्शित है।

#### 2.5.7.5 बुजुर्गों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण

दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम स्तर पर सभी बुजुर्गों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण पी.एच.सी./ सी.एच.सी. द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर करना था तथा वृद्धों की जानकारी मानक स्वास्थ्य कार्ड में अद्यतन रूप से रखनी थी।

हमने देखा कि नमूना परीक्षित नौ में से किसी भी सी.एच.सी. में तथा 16 में से 15 पी.एच.सी.<sup>16</sup> में बुजुर्गों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया था।

#### 2.5.8 एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. के तहत पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण

केंद्रीय असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, जिला एवं राज्य असंचारी सेल द्वारा अभिलेखन व रिपोर्टिंग हेतु मानक प्रारूप निर्धारित किए गए थे। जानकारी को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली भी विकसित करनी थी। राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में अवरोधों पर चर्चा हेतु त्रैमासिक आधार पर समीक्षा बैठक आयोजित की जानी थी।

हमने देखा कि एस.एच.सी.से.सी.एच.सी., सी.एच.सी. से जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ तथा जिला से राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ को रिपोर्टिंग की जा रही थी। तथापि केवल जांच किए गए मरीजों व संदिग्ध प्रकरणों की रिपोर्टिंग इन प्रारूपों में की जा रही थी। असंचारी रोग क्लीनिकों में इलाज किए गए कुल मरीजों की संख्या, रोगियों का विवरण, जिनका अनुवर्तन किया गया, फिजियोथेरेपी, गृह आधारित देखभाल तथा दिए गए परामर्श की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी। राज्य स्तर पर तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित नहीं की जा रही थी तथा केंद्रीय असंचारी रोग सेल को तिमाही प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किए जा रहे थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित तंत्र का पालन किया जाएगा।

कार्यक्रमों के प्रभावी तथा कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण के लिए निर्धारित तंत्र का पालन किया जाए।

#### 2.5.9 निष्कर्ष

● राज्य एवं जिला स्तर पर एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. के लिए वार्षिक कार्य योजना तथा वित्तीय, भौतिक एवं महामारी प्रोफाइल के लिए डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था।

<sup>15</sup> दमुआ, धनौरा, हरई, जमई, कुक्षी, नामली, सैलाना तथा तामिया।

<sup>16</sup> बरेलीपार, बटकाखापा, बिलपांक, बुरीखुर्द, चिंदी, डेहरी, डेलाखेड़ी, धामनोद, डुंगरिया, हल्दी, हनौतिया, नालछा, सागोर, सरवन तथा शिवगढ़।



- राज्य एवं जिला स्तर पर असंचारी रोगों संबंधी जन जागरुकता के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित नहीं की गई थी।
- असंचारी रोग क्लीनिकों में मुख्यतः निधियों के अल्प उपयोग के कारण वृद्धावस्था वार्ड, क्लीनिक, आवश्यक औषधियां, मशीनरी तथा उपकरण की कमी रही थी।
- चिकित्सीय एवं परा चिकित्सीय कर्मियों की कमी के कारण कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं कुशलता पूर्वक प्रदाय नहीं की जा सकी थी।

## स्कूल शिक्षा विभाग

### 2.6 शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना का कार्यान्वयन

#### 2.6.1 प्रस्तावना

आदिवासी उप योजना (टी.एस.पी.) भारत सरकार द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू की गयी थी। टी.एस.पी. को केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य के सभी विभागों में सीधे योजना स्रोतों से कम से कम अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या के समानुपात एवं अनुसूचित जन जाति एवं अन्य के मध्य विकास के अंतर को जोड़ने हेतु महत्वपूर्ण रूप में देखा गया। भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश में टी.एस.पी. के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), मध्याह्न भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एम.डी.एम.) एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) के कार्यान्वयन हेतु धन आवंटित किया था।

06 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यू.ई.ई.) के कार्यान्वयन हेतु सर्व शिक्षा अभियान (2003) प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। एन.पी.एम.डी.एम. शालाओं में बच्चों को पोषक तत्व प्रदाय करने एवं उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रारम्भ (1995) की गई थी। आर.एम.एस.ए. (2009 से प्रारम्भ) के अन्तर्गत 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, विशेषरूप से बालिकाओं के नामांकन एवं अनुसूचित जाति (एस.सी.) एवं अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किया गया था।

आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र (आर.एस.के.) एस.एस.ए. के मिशन संचालक हैं एवं इसके कार्यान्वयन के लिये राज्य स्तर पर उत्तरदायी हैं। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक जिला कलेक्टर (जिला मिशन संचालक) के पर्यवेक्षण में एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परियोजना संचालक) एस.एस.ए. का कार्यान्वयन करते हैं। इसके साथ विकास खण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक विकास खण्ड स्तर पर और समूह स्रोत केन्द्र समन्वयक ग्रामीण स्तर पर एस.एस.ए. के कार्यान्वयन में सम्मिलित हैं।

राज्य स्तर पर एन.पी.एम.डी.एम. मध्यप्रदेश मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद समिति (एम.पी.एम.बी.के.पी.एस.) द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिसके प्रमुख विकास आयुक्त हैं, जिन्हें जिला स्तर पर जिला पंचायत (जेड.पी.) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहयोग करते हैं।

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति (एम.पी.एम.एस.ए.एस.) के आयुक्त आर.एम.एस.ए. के मिशन संचालक हैं एवं राज्य स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं। जिला स्तर पर, जिला परियोजना समन्वयक (आर.एम.एस.ए.) जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला पंचायत) के पर्यवेक्षण के अधीन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करते हैं।

#### 2.6.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- योजनाएं भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार आयोजित थीं;
- केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियां जनजातीय जिलों हेतु पूरी तरह उपयोग की गयीं;

- प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित योजना के अनुरूप था; और
- अधोसंरचना विकास पर्याप्त था।

### 2.6.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु राज्य के 21 आदिवासी जिलों में से 10 जिले<sup>1</sup> एवं उनके 88 जनजातीय विकासखण्डों में से 21 विकासखण्डों<sup>2</sup> की वर्ष 2011 से 2014 की अवधि के लिए नमूना जांच की गई। चयनित 21 विकासखण्डों की 84 शालाओं<sup>3</sup> की नमूना जांच की गई। एस.एस.ए. हेतु आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं जिला परियोजना समन्वयकों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गयी। एन.पी.एम.डी.एम. के लिये सर्व शिक्षा अभियान के लिय चयनित विद्यालयों की एन.पी.एम.डी.एम. के लिय भी जांच की गई एवं हमने आयुक्त एन.पी.एम.डी.एम. एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालिक अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की। आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत एम.पी.एम.एस.ए.एस. एवं जिला परियोजना समन्वयकों (आर.एम.एस.ए.) के अभिलेखों की नमूना जाँच और प्रत्येक चयनित जिले से एक उच्च माध्यमिक विद्यालय (एच.एस.) एवं एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (एच.एस.एस.) के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। विवरण परिशिष्ट 2.43 में दर्शाया गया है।

प्रवेश सम्मेलन (जून 2014) के दौरान एन.पी.एम.डी.एम. के लिये आयुक्त, आर.एम.एस.ए. एवं सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग तथा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय एवं आर.एम.एस.ए. के संयुक्त संचालक के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड एवं कार्यक्षेत्र के संबंध में चर्चा की गयी। स्कूल शिक्षा विभाग (एस.ई.डी.) एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) के अपर मुख्य सचिवों (ए.सी.एस.) के साथ निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2014) सम्पन्न हुआ। विभाग के विचारों को संबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित किया गया है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 2.6.4 वित्तीय प्रबंधन

सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जारी राशि को सामान्य, एस.सी.एस.पी. और टी. एस.पी. के रूप में निर्धारित नहीं किया गया। एस.एस.ए., आर. एम.एस.ए. और एन.पी. एम.डी.एम. के अन्तर्गत राशि पूरी तरह उपयोग नहीं की गई थी

इन योजनाओं के लिये सामान्य शीर्ष, आदिवासी उप योजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार ने पृथक से निधियां जारी कीं। हालांकि कार्यान्वयन के दौरान इस प्रकार केन्द्र एवं राज्य द्वारा जारी संपूर्ण राशि को मिलाकर एक कॉर्पस निधि में रखा गया। एस.एस.ए. और आर.एम.एस.ए. के अन्तर्गत निधियों को जिलों के सामान्य शीर्ष, आदिवासी उप योजना एवं अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत अलग से न दर्शाते हुए जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय की गयी राशि के पृथक अभिलेखों का किसी भी स्तर पर संधारण नहीं किया गया। हालांकि, यह पाया गया कि एन.पी.एम.डी.एम. के अन्तर्गत टी.एस.पी. निधि को जिलों को अलग से जारी किया गया।

इन योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार उपलब्ध निधि के विरुद्ध व्यय परिशिष्ट 2.44 में दिया गया है। हमने देखा कि:

1 बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, खरगोन, मंडला, रतलाम एवं सिवनी।  
 2 बड़वानी: राजपूर, सेंघवा, बालाघाट: बैहर, परसवाड़ा, बैतूल: भेंसदेही, घोडाडोंगरी, छिंदवाड़ा: हरई, जुन्नारदेव, तामिया, धार: धार, कुक्षी डिंडोरी: डिंडोरी, शाहपुरा, खरगोन: झिरिन्या, भगवानपुरा, मंडला: बिछिया, घुघरी, रतलाम: रतलाम, सैलाना, सिवनी: घन्सौर, लखनादौन।  
 3 दो प्राथमिक एवं दो माध्यमिक शालाओं को प्रत्येक विकासखण्ड से।

• एस.एस.ए. के अन्तर्गत वर्ष 2011-14 की अवधि में कुल उपलब्ध राशि ₹ 12,191.07 करोड़ (राशि ₹ 2,404.60 करोड़ प्रारम्भिक शेष दिनांक 01 अप्रैल 2011 को शामिल कर) थी। जिसमें से राशि ₹ 10,304.19 करोड़ उपयोग की गई एवं राशि ₹ 1,886.88 करोड़ (15 प्रतिशत) अव्ययित शेष बचा रहा। वर्ष 2011-2014 की अवधि के दौरान उपयोग की गई निधि का प्रतिशत 63 से 72 प्रतिशत के मध्य रहा। अतः उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। टी.एस.पी. घटक के लिए उपलब्ध निधि, कुल निधि का 18 से 20 प्रतिशत के मध्य थी। किन्तु लेखों का संधारण अलग से न किया जाने के कारण टीएसपी के अन्तर्गत किये गये व्यय को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

• एन.पी.एम.डी.एम. के अन्तर्गत एम.डी.एम. परिषद द्वारा वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये थे, अतः प्रारम्भिक एवं अंतिम शेष एवं अन्य प्राप्तियों के विवरण लेखापरीक्षा को प्रदाय नहीं किये गये। हालांकि, कुल उपलब्ध केन्द्रांश एवं राज्यांश ₹ 3,031.95 करोड़ में से राशि ₹ 3,041.24 करोड़ व्यय की गई थी। योजना के अन्तर्गत टी.एस.पी. निधि के लिए पृथक से लेखे संधारित किए गए थे। हमने देखा कि 2011-14 के दौरान कुल उपलब्ध निधि के विरुद्ध टी.एस.पी. निधि का 83 प्रतिशत उपयोग किया गया था।

• वर्ष 2011-14 की अवधि में हमने पाया कि, आर.एम.एस.ए. में उपलब्ध कुल राशि ₹ 1,601.02 करोड़ (राशि ₹ 76.99 करोड़ प्रारम्भिक शेष दिनांक 1 अप्रैल 2011 को शामिल कर) थी। जिसमें से राशि ₹ 1,484.01 करोड़ उपयोग की गई थी एवं राशि ₹ 117.01 करोड़ (7 प्रतिशत) अव्ययित अंतिम शेष था। इस अवधि में भारत सरकार द्वारा टी.एस.पी. के अन्तर्गत प्रदाय राशि 5 से 14 प्रतिशत के मध्य थी। किन्तु लेखाओं के अलग से संधारण न करने से टी.एस.पी. धन का व्यय अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) द्वारा बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बचत भारत सरकार द्वारा अधिक राशि जारी करने के कारण हुई है। आर.एम.एस.ए. के संबंध में निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) द्वारा बताया गया कि अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2014 से मई 2014 तक चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण बचत हुई।

अव्ययित शेषों के संबंध में शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आचार संहिता की अवधि के मध्य भी 3 माह की एक अवधि के दौरान भी राशि जारी/उपयोग की जा सकती थी।

*प्रत्येक घटक में निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*

### 2.6.5 योजना

एन.पी.एम.डी.एम. की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार इन योजनाओं के अंतर्गत समग्र आयोजना, विभिन्न गतिविधियों का अनुवीक्षण एवं कार्यान्वयन एवं भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति राज्य एवं जिले स्तर पर की जानी थीं। इस संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान निम्न लिखित कमियाँ पाई गई :-

हमने देखा कि, वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी.) मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वर्ष 2011-14 अवधि के दौरान 39 से 45 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. देरी से अनुमोदित किया जा सका और राशि देरी से जारी की जा सकी। विवरण **परिशिष्ट 2.45** में दर्शाया गया है।

एन.पी.एम.डी.एम.  
के अन्तर्गत  
वार्षिक  
कार्ययोजना एवं  
बजट समय पर  
प्रस्तुत नहीं किये  
गये

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (पी.आर.डी.डी) ने आश्वस्त किया कि भविष्य में समय का अनुपालन किया जावेगा।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट समय से तैयार कर प्रस्तुत किया जाना चाहिये ताकि समय पर धनराशि जारी की जा सके।

### कार्यक्रम कार्यान्वयन

#### 2.6.6 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

एस.एस.ए. के लक्ष्य हैं (i) सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, (ii) उच्च प्राथमिक स्तर में सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक अवधारित करना और (iii) नामांकन, शिक्षा एवं अवधारण इत्यादि में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना।

##### 2.6.6.1 बच्चों का विद्यालय से बाहर रहना

सर्व शिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 06 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदाय की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क में दर्शाये मानकों के अनुसार, 'विद्यालय से बाहर' रहने वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा में लाया जायेगा।

हमने पाया कि राज्य स्तर पर वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 0.03 प्रतिशत से 0.90 प्रतिशत बच्चे 'विद्यालय के बाहर' थे। विस्तृत विवरण तालिका-1 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1: राज्य स्तर पर 'शाला के बाहर' बच्चों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

(बच्चों की संख्या लाख में)

वर्ष	बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या	विद्यालय के बाहर बच्चों का प्रतिशत
2011-12	139.33	138.06	1.26	0.90
2012-13	138.71	137.97	0.74	0.53
2013-14	138.31	137.67	0.64	0.03

(छाटा स्रोत: राज्य शिक्षा केन्द्र के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट)

इसी प्रकार राज्य के 21 आदिवासी जिलों में वर्ष 2011-12 से 2013-14 के मध्य 'विद्यालय के बाहर' बच्चों का प्रतिशत 0.68 से 1.34 और 10 चयनित जिलों में 0.75 से 1.28 प्रतिशत रहा। विस्तृत विवरण तालिका-2 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2: 21 आदिवासी जिलों एवं 10 चयनित जिलों में 'विद्यालय के बाहर' बच्चों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

(बच्चों की संख्या लाख में)

वर्ष	21 आदिवासी जिले				10 चयनित जिले			
	बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या	मुख्यधारा में शामिल बच्चे (प्रतिशत)	बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या	मुख्यधारा में शामिल बच्चे (प्रतिशत)
2011-12	51.24	50.56	0.68 (1.34)	0.16 (24)	28.54	28.18	0.36 (1.28)	0.12 (33)
2012-13	51.07	50.66	0.41 (0.81)	0.45 (110)	28.32	28.11	0.21 (0.75)	0.27 (129)
2013-14	49.10	48.78	0.33 (0.68)	0.20 (61)	27.60	27.39	0.21 (0.77)	0.11 (52)

(छाटा स्रोत: राज्य शिक्षा केन्द्र के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट)

सभी 'विद्यालय के बाहर' बच्चों को वर्ष 2011-14 की अवधि में मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जा सका

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 21 आदिवासी जिलों में 2011-12 के दौरान मुख्य धारा में लाए गए बच्चे मात्र 0.16 लाख (24 प्रतिशत) थे एवं 2013-14 के दौरान यह मात्र 0.20 लाख (61 प्रतिशत) थे। इस प्रकार मार्च 2014 की स्थिति में 13,000 बच्चों को मुख्य धारा में नहीं लाया जा सका था। इसी प्रकार 10 चयनित जिलों में 2011-12 के दौरान मात्र 0.12 लाख बच्चे (33 प्रतिशत) एवं 2013-14 के दौरान 0.11 लाख (52 प्रतिशत) बच्चों को मुख्य धारा में लाया गया था।

### 2.6.6.2 चयनित विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों का शाला त्यागी रहना

10 चयनित जिलों के 84 नमूना जांच किए गए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 2011-14 की अवधि के दौरान 49,291 विद्यार्थी नामांकित हुए थे जिनमें से 33,722 (68 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के थे। विद्यालयों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार 689 विद्यार्थी शाला त्यागी थे, इनमें से अनुसूचित जनजाति के कुल 619 (कुल शाला त्यागी बच्चों का 90 प्रतिशत) बच्चे शाला त्यागी थे। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शालात्यागी दर सामान्य वर्ग के बच्चों से अधिक थी। विवरण परिशिष्ट 2.46 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) ने कहा कि, 'शाला के बाहर' के बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने की प्रक्रिया 'स्कूल चलें हम' के माध्यम से प्रगति पर है।

### 2.6.6.3 शिक्षकों का गैर-युक्तिकरण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों<sup>4</sup> एवं माध्यमिक विद्यालयों<sup>5</sup> में शिक्षकों की नियुक्ति के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। विद्यालय में 200 से अधिक छात्र होने पर छात्र और शिक्षक अनुपात 40:1 होना चाहिए।

दस चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच करने पर देखा गया कि कुल 4,227 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं 931 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक 3474 प्राथमिक विद्यालयों और 882 माध्यमिक विद्यालयों में आर.एस.के. द्वारा अतिरिक्त घोषित किये गये थे। हमने पाया कि इन अतिरिक्त शिक्षकों के वेतन पर प्रतिमाह ₹ 2.58 करोड़<sup>6</sup> का व्यय किया गया।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के युक्तिकरण के लिये एक आदेश (सितम्बर-2014) जारी किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शिक्षकों की स्थायी स्वीकृत संख्या, अधिशेष शिक्षकों की स्थिति निर्धारित विद्यार्थी शिक्षक अनुपात को प्रभावित कर सकती है।

### 2.6.6.4 बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

सर्व शिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका के अनुसार, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति जैसे बिना कक्षाओं के स्कूल, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, लड़कियों के शौचालय, पहुँचने के लिए रेंप, चारदीवारी, बिना प्रधान अध्यापकों (एच.एम.) के कमरों वाले माध्यमिक विद्यालयों एवं कक्षा के कमरों की कमी आदि को विद्यालयों की बुनियादी ढांचे की कमी के आकलन की योजना में शामिल किया जाना था।

शिक्षकों की नियुक्ति आर.टी.ई. मानकों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में नहीं की गई थी

प्राथमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता थी

4 पीएस: 60 विद्यार्थियों तक: 02 शिक्षक, 61-90 विद्यार्थियों तक :03 शिक्षक, 91-120 विद्यार्थी तक:04 शिक्षक, 121-200 विद्यार्थियों तक (05 शिक्षक)।

5 यूपीएस: 35 विद्यार्थियों पर कम से कम एक शिक्षक।

6 एमईआर के अनुसार एक शिक्षक का मासिक न्यूनतम वेतन ₹ 5,000 के आधार पर गणना की गई है (न्यूनतम वेतन @ ₹ 5,000 × 5.158 शिक्षक = 2,57,90,000)।

10 चयनित जिलों के 29,939 विद्यालयों की जानकारी और अभिलेखों की जांच में शालाओं में बुनियादी सुविधाओं एवं अधोसंरचना की अनुपलब्धता का पता चला जिसे तालिका-3 में नीचे दर्शाया गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 2.47 में दर्शाया गया है:

तालिका-3: अधोसंरचना को स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक

कुल विद्यालय	बिना पानी की सुविधा के विद्यालय	बालकों के लिये शौचालय विहीन विद्यालय	बालिकाओं के लिये शौचालय विहीन विद्यालय	बिना रैम्प के विद्यालय	बिना चारदीवारी के विद्यालय	बिना फर्नीचर के विद्यालय
29939 (प्राथमिक विद्यालय: 22559, माध्यमिक विद्यालय: 7380)	विद्यालय की संख्या (प्रतिशत) 1738 (5.81)	विद्यालय की संख्या (प्रतिशत) 3725 (12.44)	विद्यालय की संख्या (प्रतिशत) 3442 (11.50)	विद्यालय की संख्या (प्रतिशत) 12283 (41.03)	विद्यालय की संख्या (प्रतिशत) 19881 (66.40)	विद्यालय की संख्या (प्रतिशत) 3329 (45.11)

(स्रोत:राज्य शिक्षा केन्द्र)

इस प्रकार, बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता ने बच्चों की अवधारण दर को प्रभावित किया।

निर्गम सम्मेलन में, अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) द्वारा कहा गया कि पानी की सुविधा ग्रामीण पेयजल योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। शौचालय निर्माण संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य की निधि से कराया जाएगा और फर्नीचर के लिये भारत सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.एस.ए. में अव्ययित राशि उपलब्धता के उपरान्त भी अधोसंरचना की कमी थी जो योजना की कमी को दर्शाता है।

*विद्यालयों में अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे छात्रों का नामांकन एवं अवधारण की स्थिति में सुधार हो सके।*

#### 2.6.6.5 पाठ्य पुस्तकों का वितरण

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार/स्थानीय निकाय के स्कूलों में सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान की जानी थी। हमने 71 शालाओं की दो कक्षाओं एवं चार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का यादृच्छिक (रैण्डम) आधार पर जांच हेतु चयन किया था। लेखापरीक्षा को प्रदाय जानकारी का विश्लेषण करने के दौरान देखा गया कि कक्षा पहली से आठवीं तक प्रावधानित पुस्तकों का सेट्स सभी विद्यार्थियों को प्रदाय किया गया था।

#### 2.6.7 मध्यान्ह भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

एन.पी.एम.डी.एम. को शिक्षा के सर्वव्यापीकरण, छात्रों को पका हुआ मध्यान्ह भोजन प्रदाय कर पोषण स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना एवं बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना एवं विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के वार्षिक कार्य योजनाओं की जांच करने पर पाया गया कि योजना के अंतर्गत स्कूल में उपस्थित समस्त विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन प्रदाय किया गया था। नमूना जांच किए गए विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन प्रदाय करने में कोई कमी नहीं पायी गई। वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान 10 नमूना जांच किए गए जिलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 20.10 लाख, 18.66 लाख एवं 18.27 लाख थी। जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.48 में दिया गया है।

### 2.6.7.1 रसोई-सह-भण्डार निर्माण में विलम्ब

चयनित 10 जिलों में से चार लेखापरीक्षित जिलों<sup>7</sup> में देखा गया कि मध्याह्न भोजन परिषद द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान आवंटित धनराशि (₹ 7.61 करोड़) जारी नहीं की गई जबकि केन्द्र से धनराशि की प्राप्ति सितम्बर 2012 में हुई थी। इस राशि को मई 2013 में जारी किया गया। जिसके परिणामस्वरूप चार जिलों में 376 रसोई-सह-भण्डार<sup>8</sup> का निर्माण मार्च 2014 तक अपूर्ण रहा।

रसोई-सह-भण्डार निर्माण के लिए राशि देरी से जारी की गई थी

हमने यह भी देखा कि, दस जिलों के 84 चयनित विद्यालयों में, 30 विद्यालयों में भंडार कक्ष उपलब्ध नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था 6 स्कूलों में उपलब्ध नहीं थी और 28 विद्यालयों में आवश्यक बर्तनों की उपलब्धता नहीं थी, विवरण तालिका-4 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-4: एम.डी.एम. के अन्तर्गत अधोसंरचना की अनुपलब्धता की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक

स.क	जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या	अधोसंरचना के बिना विद्यालयों की संख्या		
			भण्डार कक्ष	पीने का पानी	बर्तन
1	बालाघाट	8	2	0	2
2	बडवानी	8	2	0	5
3	बैतूल	8	2	2	0
4	छिन्दवाड़ा	12	4	0	1
5	धार	8	1	0	0
6	डिण्डोरी	8	3	0	5
7	खरगोन	8	2	0	4
8	मण्डला	8	4	0	5
9	रतलाम	8	6	1	4
10	सिवनी	8	4	3	2
	योग	84	30	6	28

(स्रोत: चयनित विद्यालयों से प्राप्त आंकड़ों से)

निर्गम सम्मेलन में, अपर मुख्य सचिव (पी.आर.डी.डी.) ने कहा कि देरी का कारण रसोई-सह-भण्डार के निर्माण का नया लेखा शीर्ष खोलना था। बर्तनों के क्रय के लिये जिलों को निधियाँ शीघ्र जारी की जायेंगी।

एन.पी.एम.डी.एम. के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन वितरण के लिए अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

### 2.6.8 अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य ने विद्यालयों में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के निरीक्षण हेतु जिला पंचायत स्तर पर मासिक लक्ष्य निर्धारित किए थे। प्राप्त प्रतिपुष्टि (फीडबैक) के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण एम.पी.एम.बी.के.पी.एस. द्वारा किया जाना था। प्रत्येक तिमाही में 25 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों का औसतन निरीक्षण किया जाना था।

विद्यालयों के निरीक्षणों में 71 प्रतिशत की कमी थी

84 चयनित विद्यालयों का परीक्षण करने पर पाया कि वर्ष 2011-14 में आवश्यक 3024 निरीक्षणों के विरुद्ध केवल 885 निरीक्षण किए गए। इस प्रकार 2,139 (71 प्रतिशत) निरीक्षणों की कमी पाई गई। यह भी देखा गया कि अन्य किसी एजेन्सी द्वारा जांच किए गए विद्यालयों का कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया।

आगे, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर विकास आयुक्त और अपर मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष एम.पी.एम.बी.के.पी.एस. की अध्यक्षता में योजना के कार्यान्वयन के निरीक्षण करने के लिए संचालन एवं अनुवीक्षण

<sup>7</sup> बालाघाट - ₹ 0.79 करोड़, बैतूल - ₹ 3.42 करोड़, छिन्दवाड़ा - ₹ 1.89 करोड़, डिण्डोरी - ₹ 1.51 करोड़।

<sup>8</sup> बालाघाट - 100, बैतूल-46, छिन्दवाड़ा - 118 एवं डिण्डोरी-112।



समिति की स्थापना की जानी आवश्यक थी। भारत सरकार द्वारा जारी (अगस्त 2010) किए गए निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर संचालन समिति की बैठक छः महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी।

राज्य स्तर समिति के अभिलेखों में देखा गया कि, वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में केवल एक बैठक आयोजित की गई थी। इस प्रकार, राज्य स्तर पर कार्यान्वित योजना का अनुवीक्षण पर्याप्त नहीं था।

अपर मुख्य सचिव (पी.आर.डी.डी.) में कहा कि निरीक्षण के संचालन के लिए जिला पंचायतों को पुनः निर्देश जारी किए जाएंगे एवं संचालन समिति की बैठक का आयोजन करने के भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन भविष्य में किया जाएगा।

## 2.6.9 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

आर.एम.एस.ए. का मुख्य उद्देश्य 14 से 18 आयुवर्ग के सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्ता की, सुलभ एवं किफायती शिक्षा उपलब्ध कराना है ताकि 2017 तक सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

### 2.6.9.1 हाई स्कूल की अनुपलब्धता

आर.एम.एस.ए. के अन्तर्गत राज्य द्वारा 5 किलोमीटर की परिधि में हाईस्कूल एवं 7-10 किलोमीटर की परिधि में हायर सैकेन्डरी स्कूल उपलब्ध करवाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2014 की स्थिति में 19,409 बसाहटों में से 13,438 बसाहटों को हाई स्कूल के साथ आच्छादित किया गया और 1,970 (13 प्रतिशत) बसाहट पांच किलोमीटर की परिधि की दूरी पर हाई स्कूल के बिना थे। दो जिले खरगोन और बालाघाट द्वारा सूचना प्रदान नहीं की गई। विस्तृत विवरण तालिका-5 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-5: हाईस्कूल विद्यालय की अनुपलब्धता को दर्शाने वाला पत्रक

जिलों का नाम	बसाहटों की संख्या	आच्छादित की जाने वाली बसाहट	आच्छादित बसाहटें	कमी (प्रतिशत)
बडवानी	2640	2299	1891	408 (18)
बैतूल	1874	1600	1358	242 (15)
छिन्दवाड़ा	3036	2524	2413	111 (4)
धार	3514	2519	2104	415 (16)
डिण्डोरी	1681	1481	1377	104 (7)
मण्डला	3222	2065	2021	44 (2)
रतलाम	1419	1419	965	454 (32)
सिवनी	2023	1501	1309	192 (13)
योग	19409	15408	13438	1970 (13)

(स्रोत: जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा प्रदाय आंकड़े)

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया और कहा कि पहुँच में एक बड़ा अन्तर बना रहता है। भारत सरकार द्वारा 2012-13 से नए विद्यालयों की स्वीकृति प्रदाय नहीं की गई है।

### 2.6.9.2 अनुवीक्षण

आर.एम.एस.ए. के फ्रेमवर्क के पैरा 9.1.1 के अनुसार शाला प्रबन्धन एवं विकास समिति (एस.एम.डी.सी.)/ ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को विद्यालय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण करना था।

10 जिलों के 20 चयनित विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 16 विद्यालयों में एस.एम.डी.सी./ग्राम पंचायत द्वारा कोई अनुवीक्षण नहीं किया गया। हालांकि बालाघाट एवं धार जिलों के दो विद्यालयों में एस.एम.डी.सी. द्वारा अनुवीक्षण करना पाया गया

1970 पात्र बसाहटों में हाईस्कूल की अनुपलब्धता थी

किन्तु सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। डिण्डोरी एवं खरगोन जिले के दो विद्यालयों ने कोई उत्तर नहीं दिया।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) ने उत्तर में बताया कि, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं परिणाम संकेतकों का अनुवीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा था। तथ्य यह है कि, एस.एम.डी.सी./ग्राम पंचायत की ओर से अनुवीक्षण की कमी थी।

### 2.6.10 निष्कर्ष

- अवधि 2011-14 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में लगातार बचतें देखी गईं एवं निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करने और भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार से धनराशि समय पर प्राप्त नहीं हुई।
- सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के उपरान्त भी आदिवासी जिलों में वर्ष 2013-14 के दौरान 33,000 बच्चे शाला के बाहर थे, इनमें से 13,000 बच्चे मुख्यधारा में वर्ष 2013-14 के दौरान शामिल नहीं हो सके। नमूना जाँच किए गए विद्यालयों में, सभी वर्गों के बच्चों की अपेक्षा आदिवासी बच्चों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक थी।
- सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मूलभूत एवं बुनियादी सुविधाएं जैसे – पीने के पानी की व्यवस्थाएं, बालिका शौचालय, बर्तन, फर्नीचर इत्यादि की विद्यालयों में कमी थी।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत, मार्च 2014 की स्थिति में 13 प्रतिशत बसाहटों में 5 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय नहीं था।